

॥६०॥समादिदेश प्रभुरस्ति शक्रः, श्री कालिकार्यः श्रुतरत्नराशिः । श्रुत्वेति शक्रः प्रविधाय  
रूपं, वृद्धस्य विप्रस्य समाथयौ सः ॥६१॥ विप्रोऽथ पप्रच्छ निगोदजीवान्, सूरीश्वरोऽभाषत  
ताननन्तान् । असङ्ख्यगोलाश्च भवन्ति तेषु, निगोदसङ्ख्या गतसङ्ख्यरूपाः ॥६२॥ श्रुत्वेति  
विप्रो निजमायुरेवं, पप्रच्छ मे शंस कियत्प्रमाणम् । अस्तीति ? सिद्धान्तविलोकनेन, शक्रो  
भवान् कालिकसूरिराह ॥६३॥ कृत्वा स्वरूपं प्राणिपत्य सूरिं, निवेद्य सीमन्धरसत्प्रशंसाम् ।  
उपाश्रयद्वारविपर्ययं च, शक्रो निजं धाम जगाम हृष्टः ॥ ६४ ॥ श्रीमत्कालिकसूर्याश्रतरं  
चारित्रमत्युज्ज्वलं, सम्पाल्य प्रतिपद्य चान्त्यसमये भक्तप्रतिज्ञां मुदा । शुद्धध्यानविधान-  
लीनमनसः स्वर्गालियं ये गतास्ते कल्याणपरम्परां श्रुतधरा यच्छन्तु सङ्घेऽनघे ॥ ६५ ॥

॥ इति श्रीकालिकाचार्यकथा सम्पूर्णा ॥

इति श्रेष्ठि-देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धारि ग्रन्थाङ्कः १८.

अस्याः पुनर्मुद्रणायाः सर्वेऽधिकारा एतद्भ्रातृद्वारा कार्यवाहकणामायत्ताः स्थापिताः ।

Published by Shih Naginbhai Gheleabhai Javori, for Sheth Devchand Lalbhai Jain  
Pustakoddhar Fund, No. 325 Javori Bazar, Bombay.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge at the Nirnaya-Sagar Press, 23 Kolbhat Lane, Bombay

इति श्रीकल्पसूत्रं श्रीकालिकाचार्यकथा च ॥

इति श्रेष्ठि-देवचन्द्र लालभाई-जैनपुस्तकोद्यारे-ग्रन्थाङ्कः १८.

वाक्यानि नृपः सभायाम् । अहो सुधर्मो जिननाथकस्य, शिरो विधुन्वन्निति तान्व-  
 भाषे ॥ ४७ ॥ निशम्य भूपस्य सुधर्मवाक्यं, पुरोधसो मस्तकशूलमेति । जीवादिविवादे  
 गुरुभिः कृतोऽपि, निरुत्तरस्तेषु वहत्यसूयाम् ॥ ४८ ॥ कौटिल्यभावेन यतीन् प्रशंसन्, नरे-  
 न्द्रचित्तं विपरीतवृत्तम् । चक्रे पुरोधो गुरुभिः स्वरूपं, ज्ञातं यतिभ्यो यदनेषणीयम् ॥  
 ४९ ॥ ते दक्षिणस्यां मरहट्टदेशे, पृथ्वीप्रतिष्ठानपुरे च जग्मुः । यत्रास्ति राजा किल  
 सातयानः, श्रौढप्रतापी परमार्हतश्च ॥ ५० ॥ राज्ञाऽन्यदाऽपृच्छि सभासमक्षं, प्रभो ! कदा  
 पर्थुपणा विधेया ! या पञ्चमी भाद्रपदस्य शुक्ले, पक्षे च तस्यां भविता सुपर्व ॥ ५१ ॥ नृपोऽ-  
 वदत्तत्र महेन्द्रपूजामहो भवत्यत्र सुनीन्द्र ! घस्त्रे । मयाऽनुगम्यः स च लोकनीत्या, स्नात्रादि-  
 पूजा हि कथं भवित्री ? ॥ ५२ ॥ तत्पञ्चमीतः प्रभुणा विधेयं, षष्ठां यथा मे जिननाथपूजा ।  
 प्रभावनापौषधपालनादि, पुण्यं भवेन्नाथ ! तव प्रसादात् ॥ ५३ ॥ राजन्निदं नैव भवेत्क-

बद्ध्वा गृहीतः सुगुरोः प्रदान्ते, निरीक्षते भूमितलं समूढः ॥४०॥ युग्मम् ॥ रे दुष्ट पापिष्ठ  
 निष्कृष्टबुद्धे !, किं ते कुकर्माचरितं दुरात्मन् । महासतीशीलचरित्रमङ्गपापदुमस्येदमिहास्ति  
 पुष्पम् ॥ ४१ ॥ विमुद्गसंसारसमुद्गपातः, फलं भविष्यत्यपरं सदैव । अद्यापि  
 चेन्मोक्षपरं सुधर्म-मार्गं श्रेयथा न विनष्टमत्र ॥ ४२ ॥ न रोचते तस्य मुनीन्द्रवाक्यं,  
 विमोचितो बन्धनतो गतोऽथ । सरस्वती शीलपदैकपात्रं, चारित्रमत्युज्ज्वलमावभार ॥  
 ४३ ॥ यस्यावसद्धेश्मनि कालिकार्यो, राजाधिराजः स बभूव साहिः । देशस्य खण्डेषु  
 च तस्थिवांसः, शेषा नरेन्द्राः सगवंश एषः ॥ ४४ ॥ श्रीकालिकार्यो निजगच्छमध्ये,  
 गत्वा प्रतिक्रम्य समग्रमेतत् । श्रीसङ्घमध्ये वितरत्प्रमोदं, गणस्य भारं स बभार सूरिः  
 ॥ ४५ ॥ भृगोः पुरे यौ बलमित्रभानुमित्रौ गुरुणामथ भागिन्यौ । विज्ञापनां प्रेक्ष्य  
 तयोः प्रगल्भां, गताश्चतुर्मासकहेतवै ते ॥ ४६ ॥ श्रुत्वा गुरुणां सुविशुद्धधर्मा, विशुद्ध-

मित्रभानुमित्रो गृहीत्वाऽगुरवन्तिसीमाम् ॥ ३३ ॥ श्रुत्वाऽऽगतांस्तानभितः स्वदेशसीमां  
 समागच्छद्ववन्तिनाथः । परस्परं कुन्तधनुर्लताभि-युद्धं द्वयोसैनिकयोर्बभूव ॥ ३४ ॥ स्व-  
 सेन्यमालोक्य हतप्रतापं, नंदा गतो भूपतिगर्दभिल्लः । पुरीं विशालां स यदा प्रविष्टस्त-  
 देव साऽवेष्टि बलै रिपूणाम् ॥ ३५ ॥ अथान्यदा साहिभैरपृच्छि, युद्धं प्रभो ! नैव भवे-  
 त्किमद्य ? । अद्याष्टमी सूरिभिरुक्तमेवं, स गर्दभीं साधयतीह विद्याम् ॥ ३६ ॥ विलोकयद्भिः  
 सुभैरजस्र-मद्बालवे क्वापि गता खरी सा । दृष्टा तदा सा कथिता गुरुणां, तैरेवसुक्तं  
 ध्वनिनाऽपि तस्याः ॥ ३७ ॥ सैन्यं समग्रं लभते विनाशं, धनुर्द्धराणां शतमष्टयुक्तम् । ला-  
 त्वा गतः सूरिवरो निषङ्गी, खर्याः समीपं लघु शीघ्रवेधी ॥ ३८ ॥ युगमम् ॥ यदैवमास्यं  
 विवृतं करोति, तदैव शल्लैः परिपूरणीयम् । श्रीसूरिणाऽऽदिष्टममीभिरेवं, कृते खरी  
 मूर्धनि सूत्रविष्टे ॥ ३९ ॥ सा गर्दभिल्लस्य विधाय नष्टा, अष्टानुभावः स च साहिभूपैः ।

श्रीकालिकाचार्यगुरुर्नृपान्ते, जगाम कामं नयवाक्यपूर्वम् । नयं जगादेति नरेन्द्र ! मुञ्च,  
 स्वसारमेतां मम यद्भक्तस्थाम् ॥ १३ ॥ अन्योऽपि यो दुष्टमतिः कुशीलो, भवेत्त्वया स प्रति-  
 षेध्य एव । अन्यायमार्गं स्वयमेव गच्छ-न्न लज्जसे सत्यमिदं हि जातम् ॥ १४ ॥ यत्रा-  
 स्ति राजा स्वयमेव चौरः, भाण्डीवहो यत्र पुरोहितश्च । वनं भजध्वं ननु नागरा भो, यतः  
 शरण्याद्भयमत्र जातम् ॥ १५ ॥ नरेन्द्रकन्याः किल रूपवत्य-स्तवावरोधे ननु सन्ति बह्व्यः ।  
 तपःकृशां जह्लभरातिजीर्णवस्त्रां विमुञ्चाशु मम स्वसारम् ॥ १६ ॥ निशम्य सू-  
 रीश्वरवाक्यमेतन्न भाषते किञ्चिदिह क्षितीशः । श्रीकालिकाचार्यवरोऽथ सङ्घ—स्याग्रे  
 स्ववृत्तान्तमवेदयत्तत् ॥ १७ ॥ सङ्घोऽपि भूपस्य सभासमक्षं, दक्षं वचोऽभाषत यन्नरेन्द्र ! । न  
 मुज्यते ते यदिदं कुकर्म, कर्तुं प्रजां पासि पितेव लोकम् ॥ १८ ॥ इति ब्रुवाणोऽपि यथार्थ-  
 मुच्चैः, सङ्घे न चासुञ्चदसौ महीशः । महासतीं तामिति तन्निशम्य, कोपेन सन्धां कुरुते

तानेकपकर्णताललीलायितं वीक्ष्य नरेन्द्रलक्ष्म्याः । शुष्मादृशाः किं प्रपतन्ति कूपे, भव-  
 स्वरूपे सुविवेकिनोऽपि ॥ ६ ॥ एवं परिज्ञाय कुमार ! शुद्ध-बुद्धिं कुरुष्वानु सुधर्ममार्गो ।  
 आकर्ण्य कर्णामृतवृष्टिकल्पं, गुरोर्वचः शीघ्रमिति प्रबुद्धः ॥ ७ ॥ आदात्तदा पञ्चशती-  
 पदातिशुक्तो व्रतं सूरिपदं स लेभे । सरस्वती तद्भगिनी च पश्चा-जग्राह दीक्षां निजवन्धु-  
 बोधात् ॥ ८ ॥ श्रीकालिकाचार्यवरा धरायां, कुर्वन्ति भव्यावनिधर्मवृष्टिम् । अथान्यदाऽव-  
 न्तिपुरीमगुप्ते, सरस्वती चापि जगाम तत्र ॥ ९ ॥ साध्वीसमेतापि गताथ बाह्यभूमौ  
 नरेन्द्रेण निरीक्षिता सा । ईदृक्स्वरूपा यदियं सुशीला, नूनं वराको मृत एव कामः ॥  
 १० ॥ श्रीकालिकाचार्यसहोदरत्वं, पूकुर्वती ही जिनशासनेश । यद्गद्भिह्लेन नृपाध-  
 मेन, मां नीयमानां निजवेश्म रक्ष ॥ ११ ॥ इति त्रुवाणा कुनृपेण पुम्भिर्नीता निजं  
 धाम महासती सा । ज्ञात्वा च वृत्तान्तमथैनमुच्चै-श्रुकोप सूरिगुणलब्धिभूमिः ॥ १२ ॥



## अथ श्रीकालिकाचार्यकथा.

श्रीवीरवाक्यानुमतं सुपर्व्व, कृतं यथा पर्युषणाख्यमेतत् । श्रीकालिकाचार्यवरेण सङ्घे,  
तथा चतुर्थ्यां शृणु पञ्चमीतः ॥ १ ॥ समग्रदेशागतवस्तुसारं, पुरं धरावासमिहास्ति तारम् ।  
तत्रारिभूपालकरीन्द्रसिंहो, भूवल्लभोऽभूद्भुवि वज्रसिंहः ॥ २ ॥ लावण्यपीयूषपवित्रगान्ना,  
सद्वर्त्मपात्रानुगतिः सदैव । तस्याजनिष्टातिविशिष्टरूपा, राज्ञी च नाम्ना सुरसुन्दरीति ॥  
३ ॥ तत्कुक्षिभूः कालकनामधेयः, कामानुरूपोऽजनि भूपसूनुः । सरस्वती रूपवती  
सुशीलवती स्वसा तस्य नरेन्द्रसूनोः ॥ ४ ॥ अथोऽन्यदोद्यानवने कुमारो, गतो यतः पञ्च-  
शतैश्च पुम्भिः । दृष्ट्वा सुनीन्द्रं गुणसुन्दरख्यं, नत्वोपविष्टो गुरुसन्निधाने ॥ ५ ॥ विद्युल्ल-

# ॥ इति श्रीकल्पसूत्रम् ॥

इति श्रेष्ठि देवचन्द्र लालभाई—जैनपुस्तकोद्धार—ग्रन्थांकः १८.

समणे भगवं महावीरे रायगिहे नगरे गुणसिलए चेइए बहूणं समणाणं बहूणं समणी-  
 णं बहूणं सावयाणं बहूणं सावियाणं बहूणं देवाणं बहूणं देवीणं मज्झगए चेव एवमा-  
 इक्खइ, एवं भासइ, एवं पणवेइ, एवं परूवेइ, पञ्जोसवणाकप्पो नामं अज्झयणं सअट्ठं  
 सहेउअं सकारणं ससुत्तं सअट्ठं सउभयं सवागरणं भुज्जो भुज्जो उवदंसेइ त्ति बेमि ॥६४॥  
 ॥ पञ्जोसवणाकप्पो नाम दसासुअक्खंधस्स अट्टममज्झयणं संसत्तं ॥ (अं० १२१५)

इति श्रेष्ठि देवचन्द्र लालभाई—जैनपुस्तकोद्धारे—ग्रन्थाङ्कः १८

अणुदिसिं वा अवगिञ्चिय भत्तपाणं गवेसित्तए । से किमाहु भंते! ? उस्सण्णं समणा भगवं-  
 तो वासासु तवसंपडत्ता भवंति, तवरसी दुब्बले किलंते सुच्छिज्ज वा पवडिज्ज वा, तमेव दिसं  
 वा अणुदिसं वा समणा भगवंतो पडिजागरंति ॥६१॥ वासावासं पञ्जोसवियाणं कप्पइ निग्गं-  
 श्राण वा निग्गंथीण वा गिलाणहेडं जाव चत्तारि पंच जोयणाइं गंतुं पडिनियत्तए, अंतरावि  
 से कप्पइ वत्थए, नो से कप्पइ तं रथणिं तत्थेव उवायणावित्तए ॥६२॥ इच्चेयं संवच्छ-  
 रिअं श्रेरकप्पं अहासुत्तं अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्चं सम्मं काएण फासित्ता पालित्ता  
 सोभित्ता तीरित्ता किट्टित्ता आराहित्ता आणाए अणुपालित्ता अत्थेगइआ तेणेव भवग्ग-  
 हणेणं सिज्झंति बुज्झंति सुचंति परिनिवाइंति सबहुक्खाणमंतं करिंति, अत्थेगइआ  
 दुच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झंति जाव सबहुक्खाणमंतं करिंति, अत्थेगइया तच्चेणं भवग्ग-  
 हणेणं जाव अंतं करिंति, सत्तडुभवग्गहणाइं नाइक्कमंति ॥६३॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं

पञ्चोसवणाओ अहिगरणं वइत्तए, जे णं निग्गंथो वा निग्गंथी वा परं पञ्चोसवणाओ अ-  
 हिगरणं वयइ, से णं 'अकप्पेणं अज्जो ! वयसीति' वत्तव्वे सिया, जेणं निग्गंथो वा निग्गं-  
 थी वा परं पञ्चोसवणाओ अहिगरणं वयइ, से णं निज्जुहियव्वे सिया ॥ ५८ ॥ वासावासं  
 पञ्चोसवियाणं इह खलु निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अज्जेव कक्खडे कहुए बुग्गहे संमुप्प-  
 जिज्जा, सेहे राइणियं खामिज्जा, राइणिएवि सेहं खामिज्जा, (ग्रं० १२००) खमियव्वं खमा-  
 वियव्वं उवसमियव्वं उवसमावियव्वं संमुइसंपुच्छणाबहुलेणं होयव्वं । जो उवसमइ तस्स अत्थि  
 आराहणा, जो न उवसमइ तस्स नत्थि आराहणा, तम्हा अप्पणा चैव उवसमियव्वं, से  
 किमाहु भंते !? उवसससारं खु सामण्णं ॥ ५९ ॥ वासावासं पञ्चोसवियाणं कप्पइ निग्गं-  
 थाण वा निग्गंथीण वा तओ उवस्सया गिण्हत्तए, तं०-वेउव्विया पडिलेहा साइज्जिया पम-  
 ज्जणा ॥ ६० ॥ वासावासं पञ्चोसवियाणं निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा कप्पइ अप्पणयरिं दिसिं वा

आधावियस्स समियस्स अभिक्खणं २ पडिलेहणासीलस्स पमज्जणासीलस्स तथा २ संजमे  
 सुआराहए भवइ ॥ ५४ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तओ  
 उच्चारयासवणभूमीओ पडिलेहित्तए, न तथा हेमंतगिम्हासु जहां णं वासासु, से किमाहु  
 भंते ! वासासु णं उस्सण्णं पाणा य तणा य बीया य पणगा य हरियाणि य भवंति ॥ ५५ ॥  
 वासावासं पज्जोसवियाणं कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तओ मत्तगाइं गिण्हित्तए,  
 तंजहा—उच्चारमत्तए, पासवणमत्तए, ॥ ५६ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं नो  
 कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा परं पज्जोसवणाओ गोलोमप्पमाणमित्तेवि केसे तं  
 रयाणि उवायणावित्तए । अज्जेणं खुरमुंडेण वा लुक्कसिएण वा होइयधं सिया । पक्खिया  
 आरोवणा, मासिए खुरमुंडे, अद्धमासिए कत्तरिमुंडे, छम्मासिए लोए, संवच्छरिए वा  
 थेरक्कप्पे ॥ ५७ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा परं

४ आहारित्तए, बहिया विहारभूमिं वा विचारभूमिं वा सज्झायं वा करित्तए, काउस्सग्गं  
 वा ठाणं वा ठाइत्तए । अत्थि य इत्थ केइ अभिसमण्णागए अहासणिहिए एगे वा अणेगे  
 वा, कप्पइ से एवं वइत्तए—‘इमं ता अज्जो ! तुमं सुहुत्तगं जाणेहि जाव ताव अहं गाहावइ-  
 कुलं जाव काउस्सग्गं वा ठाणं वा ठाइत्तए’ से य से पडिसुणिज्जा, एवं से कप्पइ गाहा-  
 वइ० तं चैव । से य से नो पडिसुणिज्जा, एवं से नो कप्पइ गाहावइकुलं जाव काउस्सग्गं  
 वा ठाणं वा ठाइत्तए ॥५२॥ वासावासं पज्जोसवियाणं नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण  
 वा अणभिग्गहियसिज्जासणियाणं हुत्तए, आयाणमेयं, अणभिग्गहियसिज्जासणियस्स  
 अणुच्चाकूइयस्स अणट्ठाबंधियस्स अभियासणियस्स अणातावियस्स असमियस्स अभि-  
 वखणं २ अपडिलेहणासीलस्स अपमज्जणासीलस्स तहा तहा संजमे दुराराहए भवइ ॥५३॥  
 अणादाणमेयं, अभिग्गहियसिज्जासणियस्स उच्चाकूइयस्स अट्ठाबंधिस्स मियासणियस्स

अण्ययारिं तेइच्छियं आडडित्तए, तं चेव सधं भाणियधं ॥४९॥ वासावासं पज्जोसविए भिक्खू  
इच्छिज्जा अण्ययरं कल्ल्याणं सिवं धण्णं मंगल्लं सरिसरीयं महाणुभावं तवोकम्मं उवसंपज्जि-  
त्ता णं विहरित्तए, तं चेव सधं भाणियधं ॥ ५० ॥ वासावासं पज्जोसविए भिक्खू इच्छिज्जा  
अपच्छिममारणंतिरसंलेहणाजूसणालुसिए भत्तपाणपडियाइक्खिए पाओवगए कालं  
अणवकंखमाणे विहरित्तए वा निक्खमिस्सए वा पविसित्तए वा, असणं वा १ पा० २ खा०  
३ सा० वा ४ आहारित्तए वा, उच्चारं वा पासवणं वा परिट्ठावित्तए, सज्झायं वा करित्तए,  
धम्मजागरियं वा जागरित्तए । नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता, तं चेव सधं ॥५१॥ वासावासं  
पज्जोसविए भिक्खू इच्छिज्जा वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबलं वा पायपुंछणं वा अण्ययरिं वा  
उवहिं आयावित्तए वा पयावित्तए वा । नो से कप्पइ एणं वा अणेणं वा अपडिण्णवित्ता  
गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमि० पविसि० असणं १ पा० २ खा० ३ सा०



से किं तं बीअसुहुमे ? बीयसुहुमे पंचविहे पणत्ते, तंजहा-किण्हे जाव सुक्किहे । अत्थि  
 बीअसुहुमे कणियासमाणवणए नामं पन्नत्ते, जे छउमत्थेणं निगंथेण वा निगंथीए वा  
 जाव पडिलेहियवे भवइ । से तं बीअसुहुमे ३ ॥ से किं तं हरियसुहुमे ? हरियसुहुमे पंचविहे  
 पणत्ते, तंजहा-किण्हे जाव सुक्किहे । अत्थि हरिअसुहुमे पुढवीसमाणवणए नामं पणत्ते,  
 जे निगंथेण वा निगंथीए वा अभिक्खणं २जाणियवे पासियवे पडिलेहियवे भवइ । से तं  
 हरियसुहुमे ४ ॥ से किं तं पुप्फसुहुमे ? पुप्फसुहुमे पंचविहे पणत्ते, तंजहा-किण्हे जाव  
 सुक्किहे । अत्थि पुप्फसुहुमे रुक्खसमाणवणे नामं पणत्ते, जे छउमत्थेणं निगंथेण  
 वा निगंथीए वा जाणियवे जाव पडिलेहियवे भवइ । से तं पुप्फसुहुमे ५ ॥ से किं तं  
 अंडसुहुमे ? अंडसुहुमे पंचविहे पणत्ते, तंजहा-उद्धंसडे, उक्कलियंडे, पिपीलिअंडे,  
 हलिअंडे, हल्लोहलिअंडे, जे निगंथेण वा निगंथीए वा जाव पडिलेहियवे भवइ । से तं

अथाइं पडिलेहियवाइं भवंति, तंजहा-पाणसुहुमं १, पणगसुहुमं २, वीअसुहुमं ३, हरियसुहुमं ४, पुफसुहुमं ५, अंडसुहुमं ६, लेणसुहुमं ७, सिणेहसुहुमं ८ ॥ ४४ ॥  
 से किं तं पाणसुहुमे पंचविहे पन्नत्ते, तंजहा-किण्हे १, नीले २, लोहिए ३, हालिहे ४, सुक्किहे ५ । अत्थि कुंथु अणुद्धरी नामं, जा ठिया अचलमाणा छउमत्थाणं निगंथाण वा निगंथीण वा नो चक्खुफासं हवमागच्छइ, जा अट्टिया चलमाणा छउमत्थाणं निगंथाण वा चक्खुफासं हवमागच्छइ, जा छउमत्थेणं निगंथेण वा निगंथीए वा अभिक्खणं २ जाणियवा पासियवा पडिलेहियवा हवइ, से तं पाणसुहुमे १ ॥ से किं तं पणगसुहुमे ? पणगसुहुमे पंचविहे पणत्ते, तंजहा, -किण्हे, नीले, लोहिए, हालिहे, सुक्किहे । अत्थि पणगसुहुमे तद्वसमाणवण्णे नामं पणत्ते, जे छउमत्थेणं निगंथेण वा निगंथीए वा जाव पडिलेहिअवे भवइ । से तं पणगसुहुमे २ ॥

अगारस्स य भाणियं ॥ ३९ ॥ वासावासं पञ्जोसवियाणं नो कप्पइ निगंथाण वा  
 निगंथीण वा अपरिणाएणं अपरिणयस्स अट्टाए असणं वा १ पाणं वा २ खाइमं वा ३  
 साइमं वा ४ जाव पडिगाहित्तए ॥४०॥ से किमाहु भंते ? इच्छा परो अपरिणाए भुंजिञ्जा,  
 इच्छा परो न भुंजिञ्जा ॥४१॥ वासावासं पञ्जोसवियाणं नो कप्पइ निगंथाण वा निगं-  
 थीण वा उदुडल्लेण वा ससिणिद्धेण वा काएणं असणं वा १ पा० २ खा० ३ सा० ४ आहारि-  
 त्तए ॥४२॥ से किमाहु भंते ? सत्त सिणेहाययणा पणत्ता, तंजहा-पाणी १, पाणिलेहा २,  
 नहा ३, नहसिहा ४, भसुहा ५, अहरोट्टा ६, उत्तरोट्टा ७ । अह पुण एवं जाणिञ्जा-विग-  
 ओदगे मे काए छिन्नसिणेहे, एवं से कप्पइ असणं वा १ पा० २ खा० ३ सा० ४ आहारित्तए  
 ॥४३॥ वासावासं पञ्जोसवियाणं इह खलु निगंथाण वा निगंथीण वा इमाइं अट्ट सुइ-  
 माइं, जाइं छउमत्थेणं निगंथेण वा निगंथीए वा अभिक्खणं २ जाणियवाइं पासि-

॥ ३७ ॥ तत्थ नो कप्पइ एगस्स निगंथस्स एगाए य निगंथीए एगयओ चिट्ठिए १,  
 तत्थ नो कप्पइ एगस्स निगंथस्स दुण्हं निगंथीणं एगयओ चिट्ठिए २, तत्थ  
 नो कप्पइ दुण्हं निगंथाणं एगाए य निगंथीए एगयओ चिट्ठिए ३, तत्थ नो  
 कप्पइ दुण्हं निगंथाणं दुण्हं निगंथीण य एगयओ चिट्ठिए ४ । अत्थि य इत्थ केइ  
 पंचमे खुड्डए वा खुड्डिया इ वा अन्नोसिं वा संलोए सपडिदुवारे एव ण्हं कप्पइ एगयओ  
 चिट्ठिए ॥ ३८ ॥ वासावासं पञ्जोसवियस्स निगंथस्स गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए  
 अणुपविट्ठस्स निगिड्ढिय २ बुट्टिकाए निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा अहे  
 उवस्सयंसि वा उवागच्छित्तए, तत्थ नो कप्पइ एगस्स निगंथस्स एगाए य अगारीए  
 एगयओ चिट्ठिए, एवं चउभंगी । अत्थि णं इत्थ केइ पंचमए थैरे वा थेरिया वा  
 अन्नोसिं वा संलोए सपडिदुवारे, एवं कप्पइ एगयओ चिट्ठिए । एवं चैव निगंथीए

द्वीवि पच्छाउत्ताइं, एवं नो से कप्पंति द्वीवि पडिगाहित्तए, जे से तत्थ पुद्वागमणेणं पुद्वाउत्ते,  
से कप्पइ पडिगाहित्तए, जे से तत्थ पुद्वागमणेणं पच्छाउत्ते, नो से कप्पइ पडिगाहित्तए  
॥३५॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निगंथस्स निगंथीए वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए  
अणुपविट्टस्स निगिज्झिय २ बुट्टिकाए निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा अहे उवस्स-  
यंसि वा अहे वियडगिहंसि वा अहे रुक्खमूलंसि वा उवागच्छित्तए, नो से कप्पइ  
पुद्वाहिएणं भत्तपाणेणं वेलं उवायणावित्तए, कप्पइ से पुद्वामेव वियडगं भुच्चा पडिगहगं  
संलिहिय २ संपमज्जिय २ एगाययं भंडगं कट्टु सावसेसे सूरे जेणेव उवस्सए तेणेव उवा-  
गच्छित्तए, नो से कप्पइ तं रयणिं तत्थेव उवायणावित्तए ॥३६॥ वासावासं पज्जोसवियस्स  
निगंथस्स निगंथीए वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविट्टस्स निगिज्झिय २  
बुट्टिकाए निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा अहे उवस्सयंसि वा उवागच्छित्तए

वग्वारियबुट्टिकायंसि गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निख्वमित्तए वा पविसित्तए  
 वा, कप्पइ से अण्णबुट्टिकायंसि संतरुत्तरंसि गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निख्व-  
 मित्तए वा पविसित्तए वा ॥३१॥ ( ग्रं० ११०० ) वासावासं पञ्जोसविअस्स निगंगंथस्स  
 निगंगंथीए वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविट्टस्स निगिञ्झिय २ बुट्टिकाए  
 निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि वा अहे वियडगिहंसि वा अहे  
 ख्वस्समूलंसि वा उवागच्छित्तए ॥ ३२ ॥ तत्थ से पुवागमणेणं पुवाउत्ते चाउलोदणे पच्छा-  
 उत्ते भिल्लिगसूवे, कप्पइ से चाउलोदणे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ भिल्लिगसूवे पडि-  
 गाहित्तए ॥ ३३ ॥ तत्थ से पुवागमणेणं पुवाउत्ते भिल्लिगसूवे पच्छाउत्ते चाउलोदणे,  
 कप्पइ से भिल्लिगसूवे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ चाउलोदणे पडिगाहित्तए ॥३४॥ तत्थ  
 मं पुवागमणेणं दोवि पुवाउत्ताइं कप्पंति से दोवि पडिगाहित्तए । तत्थ से पुवागमणेणं

दोवि पच्छउत्ताइं, एवं नो से कप्पंति दोवि पडिगाहित्तए, जे से तत्थ पुव्वागमणेणं पुव्वाउत्ते,  
 से कप्पइ पडिगाहित्तए, जे से तत्थ पुव्वागमणेणं पच्छउत्ते, नो से कप्पइ पडिगाहित्तए  
 ॥३५॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निगंथस्स निगंथीए वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए  
 अणुपविट्टस्स निगिज्झिय २ बुट्टिकाए निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा अहे उवस्स-  
 यंसि वा अहे वियडगिहंसि वा अहे रुक्खमूलंसि वा उवागच्छित्तए, नो से कप्पइ  
 पुव्वगहिणं भत्तपाणेणं वेलं उवायणावित्तए, कप्पइ से पुव्वामेव वियडगं भुच्चा पडिगगहं  
 संलिहिय २ संपभज्झिय २ एगाययं भंडगं कट्टु सावसेसे सूरे जेणेव उवस्सए तेणेव उवा-  
 गच्छित्तए, नो से कप्पइ तं रयणिं तत्थेव उवायणावित्तए ॥३६॥ वासावासं पज्जोसवियस्स  
 निगंथस्स निगंथीए वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविट्टस्स निगिज्झिय २  
 बुट्टिकाए निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा अहे उवस्सयंसि वा उवागच्छित्तए

वग्वारियबुट्टिकायंसि गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निखवमित्तए वा पविसित्तए वा, कप्पइ से अप्पबुट्टिकायंसि संतरुत्तरंसि गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निखवमित्तए वा पविसित्तए वा ॥३१॥ ( अं० ११०० ) वासावासं पञ्जोसविअस्स निगंगंथस्स निगंगंथीए वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविट्ठस्स निगिज्झिय २ बुट्टिकाए निवइजा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि वा अहे वियडगिहंसि वा अहे रुक्खमूलंसि वा उवागच्छित्तए ॥ ३२ ॥ तत्थ से पुद्वागमणेणं पुद्वाउत्ते चाउलोदणे पच्छाउत्ते भिल्लिगसूवे, कप्पइ से चाउलोदणे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ भिल्लिगसूवे पडिगाहित्तए ॥ ३३ ॥ तत्थ से पुद्वागमणेणं पुद्वाउत्ते भिल्लिगसूवे पच्छाउत्ते चाउलोदणे, कप्पइ से भिल्लिगसूवे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ चाउलोदणे पडिगाहित्तए ॥ ३४ ॥ तत्थ से पुद्वागमणेणं दीवि पुद्वाउत्ताइं कप्पंति से दीवि पडिगाहित्तए । तत्थ से पुद्वागमणेणं



दोवि पच्छउत्ताइं, एवं नो से कप्पति दोवि पडिगाहित्तए, जे से तत्थ पुद्वागमणेणं पुद्वाउत्ते,  
से कप्पइ पडिगाहित्तए, जे से तत्थ पुद्वागमणेणं पच्छउत्ते, नो से कप्पइ पडिगाहित्तए  
॥३५॥ वासावासं पञ्जोसवियस्स निगंथस्स निगंथीए वा गाहावइकुलं पिंढवायपडियाए  
अणुपविट्टस्स निगिञ्झिय २ बुट्टिकाए निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा अहे उवस्स-  
यंसि वा अहे वियडगिंहंसि वा अहे रुक्खमूलंसि वा उवागच्छित्तए, नो से कप्पइ  
पुद्वागहिणं भत्तपाणेणं वेलं उवायणावित्तए, कप्पइ से पुद्वामेव वियडगं भुच्चा पडिगगहणं  
संलिहिय २ संपभञ्जिय २ एगाययं भंडगं कट्टु सावसेसे सूरे जेणेव उवस्सए तेणेव उवा-  
गच्छित्तए, नो से कप्पइ तं रयणिं तत्थेव उवायणावित्तए ॥३६॥ वासावासं पञ्जोसवियस्स  
निगंथस्स निगंथीए वा गाहावइकुलं पिंढवायपडियाए अणुपविट्टस्स निगिञ्झिय २  
बुट्टिकाए निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा अहे उवस्सयंसि वा उवागच्छित्तए

वग्वारियबुट्टिकायंसि गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निखवमित्तए वा पविसित्तए  
 वा, कप्पइ से अप्पबुट्टिकायंसि संतरुत्तरंसि गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निखव-  
 मित्तए वा पविसित्तए वा ॥३१॥ ( ग्रं० ११०० ) वासावासं पञ्जोसविअस्स निगंगंथस्स  
 निगंगंथीए वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविट्टस्स निगिञ्झिय २ बुट्टिकाए  
 निवइजा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि वा अहे वियडगिहंसि वा अहे  
 खखमूलंसि वा उवागच्छित्तए ॥ ३२ ॥ तत्थ से पुद्वागमणेणं पुवाउत्ते चाउलोदणे पच्छ-  
 उत्ते भिल्लिगसूवे, कप्पइ से चाउलोदणे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ भिल्लिगसूवे पडि-  
 गाहित्तए ॥ ३३ ॥ तत्थ से पुद्वागमणेणं पुवाउत्ते भिल्लिगसूवे पच्छाउत्ते चाउलोदणे,  
 कप्पइ से भिल्लिगसूवे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ चाउलोदणे पडिगाहित्तए ॥३४॥ तत्थ  
 से पुद्वागमणेणं दोवि पुवाउत्ताइं कप्पंति से दोवि पडिगाहित्तए । तत्थ से पुद्वागमणेणं

दोवि पच्छाउत्ताइं, एवं नो से कप्पंति दोवि पडिगाहित्तए, जे से तत्थ पुद्वागमणेणं पुद्वाउत्ते,  
 से कप्पइ पडिगाहित्तए, जे से तत्थ पुद्वागमणेणं पच्छाउत्ते, नो से कप्पइ पडिगाहित्तए  
 ॥३५॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निगंथस्स निगंथीए वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए  
 अणुपविट्टस्स निगिज्झिय २ बुट्टिकाए निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा अहे उवस्स-  
 यंसि वा अहे वियडगिहंसि वा अहे रुक्खमूलंसि वा उवागच्छित्तए, नो से कप्पइ  
 पुद्वागहिणं भत्तपाणेणं वेलं उवायणावित्तए, कप्पइ से पुद्वामेव वियडगं भुञ्जा पडिगगहगं  
 संलिहिय २ संपभज्झिय २ एगाययं भंडगं कट्टु सावसेसे सूरे जेणेव उवस्सए तेणेव उवा-  
 गच्छित्तए, नो से कप्पइ तं रयणिं तत्थेव उवायणावित्तए ॥३६॥ वासावासं पज्जोसवियस्स  
 निगंथस्स निगंथीए वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविट्टस्स निगिज्झिय २  
 बुट्टिकाए निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा अहे उवस्सयंसि वा उवागच्छित्तए

वग्धारियबुट्टिकायंसि गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए  
 वा, कप्पइ से अप्पबुट्टिकायंसि संतरुत्तरंसि गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्ख-  
 मित्तए वा पविसित्तए वा ॥३१॥ ( ग्रं० ११०० ) वासावासं पञ्चोसविअस्स निगंथस्स  
 निगंथीए वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविट्ठस्स निगिञ्झिय २ बुट्टिकाए  
 निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि वा अहे वियडगिहंसि वा अहे  
 रुक्खमूलंसि वा उवागच्छित्तए ॥ ३२ ॥ तत्थ से पुवागमणेणं पुवाउत्ते चाउलोदणे पच्छा-  
 उत्ते भिल्लिगसूवे, कप्पइ से चाउलोदणे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ भिल्लिगसूवे पडि-  
 गाहित्तए ॥ ३३ ॥ तत्थ से पुवागमणेणं पुवाउत्ते भिल्लिगसूवे पच्छाउत्ते चाउलोदणे,  
 कप्पइ से भिल्लिगसूवे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ चाउलोदणे पडिगाहित्तए ॥३४॥ तत्थ  
 से पुवागमणेणं दीवि पुवाउत्ताइं कप्पंति से दीवि पडिगाहित्तए । तत्थ से पुवागमणेणं

चारिस्स इत्तए ॥ २७ ॥ वासावासं पञ्जोसवियस्स नो कप्पइ पाणिपडिग्गहियस्स भिक्खुस्स  
कणगफुसियमित्तमवि बुट्ठिकायंसि निवयमाणंसि जाव गाहावइकुलं भ० पा० निक्ख०  
पविसित्तए वा ॥ २८ ॥ वासावासं पञ्जोसवियस्स पाणिपडिग्गहियस्स भिक्खुस्स नो  
कप्पइ अगिहंसि पिंडवायं पडिगाहिच्चा पञ्जोसवेमाणस्स सहसा बुट्ठिकाए  
निवइच्चा देसं भुच्चा देसमादाय से पाणिणा पाणिं परिपिहिच्चा उरंसि वा णं निलिञ्जिच्चा,  
कक्खंसि वा णं समाहडिच्चा, अहाछन्नाणि वा लेणाणि वा उवागच्छिच्चा, रक्खमूलाणि  
वा उवागच्छिच्चा, जहा से पाणिसि दए वा दगरए वा दगफुसिआ वा नो परिआवञ्जइ  
॥ २९ ॥ वासावासं पञ्जोसवियस्स पाणिपडिग्गहियस्स भिक्खुस्स जं किंचि कणगफुसि-  
यमित्तंपि निवडति, नो से कप्पइ गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा  
पविसित्तए वा ॥ ३० ॥ वासावासं पञ्जोसवियस्स पडिग्गधारिस्स भिक्खुस्स नो कप्पइ

असिन्धे नो चैव णं ससिन्धे, सेविय णं परिपूए नो चैव णं अपरिपूए, सेविय णं  
 परिमिए नो चैव णं अपरिमिए, सेविअ णं बहुसंपन्ने नो चैव णं अबहुसंपन्ने ॥ २५ ॥  
 वासावासं पञ्जोसविअस्स संखादत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति पंच दत्तीओ भोअणस्स पडि-  
 गाहित्तए पंच पाणगस्स, अहवा चत्तारि भोअणस्स पंच पाणगस्स, अहवा पंच भोअण-  
 स्स चत्तारि पाणगस्स । तत्थ णं एगा दत्ती लोणासायणमित्तमवि पडिगाहिआ सिया,  
 कप्पइ से तद्विवसं तेणेव भत्तेट्ठेणं पञ्जोसवित्तए, नो से कप्पइ दुच्चंपि गाहावइकुलं भत्ताए  
 वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥२६॥ वासावासं पञ्जोसवियाणं नो कप्पइ  
 निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा जाव उवस्सयाओ सत्तधरंतरं संखडिं संनियइचारिस्स  
 इत्तए, एगे एवमाहंसु-नो कप्पइ जाव उवस्सयाओ परेण सत्तधरंतरं संखडिं संनियइचा-  
 रिस्स इत्तए, एगे पुण एवमाहंसु-नो कप्पइ जाव उवस्सयाओ परंपरेणं संखडिं संनियइ-

॥२३॥ वासावासं पञ्जोसवियस्स विगिट्ठुभत्तिअस्स भिक्खुस्स कप्पंति सध्वेवि गोअरकाला  
 गाहा० भ० पा० निक्खमि० पविसि० ॥ २४ ॥ वासावासं पञ्जोसवियस्स निच्चभत्तियस्स  
 भिक्खुस्स कप्पंति सध्वाइं पाणगाइं पडिगाहित्तए । वासावासं पञ्जोसवियस्स चउत्थभत्ति-  
 यस्स भिक्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाइं पडिगाहित्तए, तंजहा-ओसेइमं, संसेइमं, चाउ-  
 लोदगं । वासावासं पञ्जोसवियस्स छट्ठुभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाइं पडिगा-  
 हित्तए, तंजहा-तिलोदगं वा, तुसोदगं वा, जवोदगं वा । वासावासं पञ्जोसवियस्स अट्टमभ-  
 त्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाइं पडिगाहित्तए, तंजहा-आयासे वा, सोवीरे वा,  
 सुध्ववियडे वा । वासावासं पञ्जोयवियस्स विगिट्ठुभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पइ एणे उसिण-  
 वियडे पडिगाहित्तए, सेविय णं असिथे नोविय णं ससिथे । वासावासं पञ्जोसवियस्स  
 भत्तपडियाइक्खियस्स भिक्खुस्स कप्पइ एणे उसिणवियडे पडिगाहित्तए, सेविय णं

वासावासं पञ्जोसवियस्स निच्चभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पइ एणं गोअरकालं गाहावइ-  
 कुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्ताए वा पविसित्ताए वा, नन्नत्थायरियवेयावच्चेण वा  
 एणं उवज्जायवे० तवस्सिसे० गिलाणवे० खुड्डिएण वा खुड्डियाए वा अवंजणजायएण वा  
 ॥ २० ॥ वासावासं पञ्जोसवियस्स चंडत्थभत्तियस्स भिक्खुस्स अयं एवइए विसेसे-जं से  
 पाओ निक्खम्म पुवामेव वियडगं मुच्चा पिच्चा पडिग्गहगं संलिहिय संपमज्जिय से य  
 संथरिज्जा, कंप्पइ से तद्विवसं तेणेव भत्तट्टेणं पञ्जोसवित्ताए-से य नो संथरिज्जा, एवं से  
 कप्पइ दुच्चंपि गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्ताए वा पविसित्ताए वा ॥ २१ ॥  
 वासावासं पञ्जोसवियस्स छट्टुभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति दो गोअरकाला गाहावइकुलं  
 भत्ताए वा पाणाए वा निक्ख० पविसि० ॥ २२ ॥ वासावासं पञ्जोसवियस्स अट्टुमभत्तियस्स  
 भिक्खुस्स कप्पंति तओगोअरकाला गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमि० पविस०



१, दहिं २, नवणीयं ३, सपि ४, तिळें ५, गुडं ६, महुं ७, मज्जं ८, मंसं ९ ॥ १७ ॥  
 वासावासं पञ्जोसवियाणं अत्थेगइआणं एवं वुत्तपुब्बं भवइ, अट्टो भंते ! गिलाणस्स, से य  
 पुच्छियवे-केवइएणं अट्टो ? से वएज्जा-एवइएणं अट्टो गिलाणस्स, जं से पमाणं वयइ  
 से य पमाणओ धित्तवे, से य विन्नविज्जा, से य विन्नवेमाणे लभिज्जा, से य पमाणपत्ते हीउ  
 अलाहि-इय वत्तं सिया ? से किमाहु भंते !, एवइएणं अट्टो गिलाणस्स, सियाणं एवं  
 वयंतं परो वइज्जा-पडिगाहेह अज्जो ! पच्छा तुमं भोक्खसि वा पाहिसि वा, एवं से  
 कप्पइ पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ गिलाणनीसाए पडिगाहित्तए ॥ १८ ॥ वासावासं  
 पञ्जो० अत्थि णं थैराणं तहप्पगाराइं कुलाइं कडाइं पत्तिआइं थिज्जाइं वेसासियाइं  
 संमयाइं बहुमयाइं अणुमयाइं भवति, जत्थ से नो कप्पइ अदक्खु वइत्तए “ अत्थि ते  
 आउसो ! इमं वा २ ” से किमाहु भंते !, सड्डी गिही गिण्हइ वा, तेणियंपि कुज्जा ॥ १९ ॥

जोयणं भिवस्वारियाए गंतुं पडिनियत्तए ॥ ११ ॥ एरावई कुणालाए, जत्थ चक्किया  
 सिया, एगं पायं जले किच्चा एगं पायं थले किच्चा, एवं चक्किया एवं णं कप्पइ सवओ  
 समंता सक्कोसं जोयणं गंतुं पडिनियत्तए ॥ १२ ॥ एवं च नो चक्किया, एवं से नो  
 कप्पइ सवओ समंता सक्कोसं जोयणं गंतुं पडिनियत्तए ॥ १३ ॥ वासावासं पञ्जोसवियाणं  
 अत्थेगइयाणं एवं बुत्तपुवं भवइ-दावे भंते ! एवं से कप्पइ दावित्तए, नो से कप्पइ  
 पडिगाहित्तए ॥ १४ ॥ वासावासं पञ्जोसवियाणं अत्थेगइयाणं एवं बुत्तपुवं भवइ-  
 पडिगाहिहि भंते ! एवं से कप्पइ पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ दावित्तए ॥ १५ ॥ वासा-  
 वासं० दावे भंते ! पडिगाहे भंते ! एवं से कप्पइ दावित्तएवि पडिगाहित्तएवि ॥ १६ ॥  
 वासावासं पञ्जोसवियाणं नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा हट्टाणं तुट्टाणं आरो-  
 गाणं वल्लियसरीराणं इमाओ नव रसविगइओ अभिक्खणं २ आहारित्तए, तंजहा-खीरं

ज्ञोसविति, तहा णं जे इमे अञ्जत्ताए समणा निग्गंथा विहरंति, तेविअ णं वासाणं  
 जाव पञ्जोसविति ॥ ६ ॥ जहा णं जे इमे अञ्जत्ताए समणा निग्गंथा वासाणं सर्वास-  
 इराए मासे विइक्कंते वासावासं पञ्जोसविति, तहा णं अम्हंपि आयरिया उवज्झाया  
 वासाणं जाव पञ्जोसविति ॥ ७ ॥ जहा णं अम्हंपि आयरिया उवज्झाया वासाणं जाव  
 पञ्जोसविति, तहा णं अम्हेवि वासाणं सर्वासइराए मासे विइक्कंते वासावासं पञ्जोसवेमो,  
 अंतरावि य से कप्पइ, नो से कप्पइ तं रथणिं उवाइणावित्तए ॥ ८ ॥ वासावासं पञ्जोस-  
 वियाणं कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सबओ समंता सक्कोसं जोयणं उग्गहं  
 ओगिण्हित्ता णं चिट्ठिउं अहालंदमवि उग्गहे ॥ ९ ॥ वासावासं पञ्जोसवियाणं कप्पइ  
 निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सबओ समंता सक्कोसं जोयणं भिक्खायरियाए गंतुं पड्डिनि-  
 यत्तए ॥ १० ॥ जत्थ नई निच्चोयगा निच्चसंदणा, नो से कप्पइ सबओ समंता सक्कोसं

विङ्कते वासावासं पञ्जोसवेइ ॥ १ ॥ से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ 'समणे भगवं महावीरे  
 वासाणं सवीसइराए मासे विङ्कते वासावासं पञ्जोसवेइ ? जओ णं पाएणं अगारीणं  
 अगाराइं कडियाइं उक्कपियाइं छन्नाइं लित्ताइं गुत्ताइं घट्टाइं मट्टाइं संपधूमियाइं खाओदगाइं  
 खायनिद्धमणाइं अप्पणो अट्टाए कडाइं परिभुत्ताइं परिणामियाइं भवंति, से तेणट्टेणं  
 एवं बुच्चइ 'समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे विङ्कते वासावासं पञ्जो-  
 सवेइ ॥ २ ॥ जहा णं समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे विङ्कते वासा-  
 वासं पञ्जोसवेइ, तथा णं गणहरावि वासाणं सवीसइराए मासे विङ्कते वासावासं पञ्जो-  
 सविति ॥ ३ ॥ जहा णं गणहरा वासाणं सवीसइराए जाव पञ्जोसविति, तथा णं गण-  
 हरसीसावि वासाणं जाव पञ्जोसविति ॥ ४ ॥ जहा णं गणहरसीसा वासाणं जाव पञ्जो-  
 सविति, तथा णं थेरावि वासावासं पञ्जोसविति ॥ ५ ॥ जहा णं थेरा वासाणं जाव पञ्जो-

औसविति, तहा णं जे इमे अञ्जत्ताए समणा निगंथा विहरंति, तेविअ णं वासाणं  
 जाव पञ्जोसविति ॥ ६ ॥ जहा णं जे इमे अञ्जत्ताए समणा निगंथा वासाणं वासाणं  
 इराए मासे विइक्कंते वासावासं पञ्जोसविति, तहा णं अम्हं पि आयरिया उवज्झाया  
 वासाणं जाव पञ्जोसविति ॥ ७ ॥ जहा णं अम्हं पि आयरिया उवज्झाया वासाणं जाव  
 पञ्जोसविति, तहा णं अम्हे वि वासाणं सर्वासइराए मासे विइक्कंते वासावासं पञ्जोसवेमो,  
 अंतरावि य से कप्पइ, नो से कप्पइ तं रथिणं उवाइणावित्तए ॥ ८ ॥ वासावासं पञ्जोस-  
 वियाणं कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा सबओ समंता सक्कोसं जोयणं उग्गहं  
 ओगिण्हत्ता णं चिट्ठिउं अहालंदमवि उग्गहे ॥ ९ ॥ वासावासं पञ्जोसवियाणं कप्पइ  
 निगंथाण वा निगंथीण वा सबओ समंता सक्कोसं जोयणं भिक्खायरियाए गंतुं पडिनि-  
 यत्तए ॥ १० ॥ जत्थ नई निच्चोयगा निच्चसंदणा, नो से कप्पइ सबओ समंता सक्कोसं

विद्वङ्कते वासावासं पञ्चोसवेइ ॥ १ ॥ से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ 'समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे विद्वङ्कते वासावासं पञ्चोसवेइ ? जओ णं पाएणं अगारीणं अगाराइं कडियाइं उक्कंपियाइं छन्नाइं लिताइं गुत्ताइं घट्टाइं मट्टाइं संपधूमियाइं खाओदगाइं खायनिद्वमणाइं अप्पणो अट्टाए कडाइं परिभुत्ताइं परिणामियाइं भवंति, से तेणट्टेणं एवं बुच्चइ 'समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे विद्वङ्कते वासावासं पञ्चोसवेइ ॥ २ ॥ जहा णं समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे विद्वङ्कते वासावासं पञ्चोसवेइ, तथा णं गणहरावि वासाणं सवीसइराए मासे विद्वङ्कते वासावासं पञ्चोसवेइ ॥ ३ ॥ जहा णं गणहरा वासाणं सवीसइराए जाव पञ्चोसवेइ, तथा णं गणहरा वासाणं सवीसइराए जाव पञ्चोसवेइ ॥ ४ ॥ जहा णं गणहरा वासाणं सवीसइराए जाव पञ्चोसवेइ, तथा णं श्रेयावि वासावासं पञ्चोसवेइ ॥ ५ ॥ जहा णं श्रेया वासाणं जाव पञ्चोसवेइ, तथा णं श्रेयावि वासावासं पञ्चोसवेइ ॥ ६ ॥ जहा णं श्रेया वासाणं जाव पञ्चोसवेइ, तथा णं श्रेयावि वासावासं पञ्चोसवेइ ॥ ७ ॥ जहा णं श्रेया वासाणं जाव पञ्चोसवेइ, तथा णं श्रेयावि वासावासं पञ्चोसवेइ ॥ ८ ॥ जहा णं श्रेया वासाणं जाव पञ्चोसवेइ, तथा णं श्रेयावि वासावासं पञ्चोसवेइ ॥ ९ ॥ जहा णं श्रेया वासाणं जाव पञ्चोसवेइ, तथा णं श्रेयावि वासावासं पञ्चोसवेइ ॥ १० ॥

कासवगुत्तं, धम्मं सिवसाहगं पणिवयामि । सीहं कासवगुत्तं, धम्मंपिय कासवं वंदे ॥ ८ ॥  
 तं वंदिञ्जण सिरसा, थिरसत्तचरित्तनाणसंपन्नं । थेरं च अज्जजंबुं, गोयमगुत्तं नमंशाभि  
 ॥ ९ ॥ मिउमह्वसंपन्नं, उवउत्तं नाणदंसणचरित्ते । थेरं च नंदियंपिय, कासवगुत्तं पणि-  
 वयामि ॥ १० ॥ तत्तो य थिरचरित्तं, उत्तमसम्मत्तसत्तसंजुत्तं । देसिगणिखमासमणं, माळर-  
 गुत्तं नमंसांमि ॥ ११ ॥ तत्तो अणुओगधरं, धीरं मइसागरं महासत्तं । थिरगुत्तखमासगणं,  
 वंच्छसगुत्तं पणिवयामि ॥ १२ ॥ तत्तो य नाणदंसण—चरित्तवसुट्टियं गुणमहत्तं । थेरं  
 कुमारधम्मं, वंदामि गणिं गुणोवेयं ॥ १३ ॥ सुत्तत्थरयणभरिए, खमत्तममएवगुणंदिं  
 संपन्ने । देविट्ठिखमासमणे, कासवगुत्ते पणिवयामि ॥ १४ ॥

( स्थविरावली संपूर्णा )

॥ तेणं कालेणं तेणं समणं समणे भगवं महावीरे चासाणं सवीसदराणं मागे

कासवंगुत्ते । थेरस्स णं अज्जधम्मस कासवगुत्तस्स अज्जसंढिल्ले थेरे अंतेवासी ॥  
 वंदामि फग्गुमित्तं, च गोयमं धणगिरिं च वासिट्ठं । कुञ्चं सिवभूइंपिय, कोसिय दुञ्ज-  
 तकण्हे अ ॥ १ ॥ ते वंदिज्जण सिरसा, भद्दं वंदामि कासवसगुत्तं । नक्खं कासवंगुत्तं,  
 रक्खंपिय कासवं वंदे ॥ २ ॥ वंदामि अज्जनागं, च गोयमं जेहिलं च वासिट्ठं । विण्हुं  
 माडरगुत्तं, कालगमवि गोयमं वंदे ॥ ३ ॥ गोयमगुत्तकुमारं, संपालियं तहय भद्दयं वंदे ।  
 थेरं च अज्जबुद्धं, गोयमगुत्तं नमंसांमि ॥ ४ ॥ तं वंदिज्जण सिरसा, थिरसत्तचरित्तनाण-  
 संपन्नं । थेरं च संघवालिय, गोयमगुत्तं पणिवयांमि ॥ ५ ॥ वंदामि अज्जहत्थि, च कासवं  
 खत्तिसागरं धीरं । गिम्हाण पढममासे, कालगयं चैव सुद्धस्स ॥ ६ ॥ वंदामि अज्जधम्मं,  
 च सुवयं सीललद्धिसंपन्नं । जस्स निक्खमणे देवो, छत्तं वरमुत्तमं वहइ ॥ ७ ॥ हत्थि

१ कासवं गोयं २ कासव० ( कं० कि० )



वासिदुसगुत्ते । थेरस्स णं अज्जेहिहलस्स वासिदुसगुत्तस्स अज्जविण्हू थेरे अंतेवासी माढर-  
सगुत्ते । थेरस्स णं अज्जविण्हुस्स माढरसगुत्तस्स अज्जकालए थेरे अंतेवासी गोयमस-  
गुत्ते । थेरस्स णं अज्जकालयस्स गोयमसगुत्तस्स इमे दो थेरा अंतेवासी गोयमस-  
गुत्ता-थेरे अज्जसंपलिए १, थेरे अज्जभेदे २ । एणसि णं दुण्हवि थेराणं गोयमसगुत्ताणं  
अज्जबुद्धे थेरे अंतेवासी गोयमसगुत्ते । थेरस्स णं अज्जबुद्धुस्स गोयमसगुत्तस्स अज्ज-  
संघपालिए थेरे अंतेवासी गोयमसगुत्ते । थेरस्स णं अज्जसंघपालिअस्स गोयमसगुत्तस्स  
अज्जहत्थी थेरे अंतेवासी कासवगुत्ते । थेरस्स णं अज्जहत्थिस्स कासवगुत्तस्स अज्ज-  
धम्मे थेरे अंतेवासी सावयगुत्ते । थेरस्स णं अज्जधम्मस्स सावयगुत्तस्स अज्जसिंहि थेरे  
अंतेवासी कासवगुत्ते । थेरस्स णं अज्जसिंहस्स कासवगुत्तस्स अज्जधम्मे थेरे अंतेवासी

णं अञ्जवइरसेणेहिंती इत्थ णं अञ्जनाइली साहा निग्गया, थेरेहिंती णं अञ्जपउमेहिंती इत्थ  
 णं अञ्जपउमा साहा निग्गया, थेरेहिंती णं अञ्जरहेहिंती इत्थ णं अञ्जजयंतीसाहा निग्गया ।  
 थेरस्स णं अञ्जरहस्स वच्छसगुत्तस्स अञ्जपूसगिरी थेरे अंतेवासी कोसियगुत्ते । थेरस्स णं अ-  
 ञ्जपूसगिरिस्स कोसियगुत्तस्स अञ्जफगुमित्ते थेरे अंतेवासी गोयमसगुत्ते । थेरस्स णं अञ्ज-  
 फगुमित्तस्स गोयमसगुत्तस्स अञ्जधणगिरी थेरे अंतेवासी वासिट्ठसगुत्ते । थेरस्स णं अञ्जसि-  
 धणगिरिस्स वासिट्ठसगुत्तस्स अञ्जसिवभूई थेरे अंतेवासी कुच्छसगुत्ते । थेरस्स णं अञ्जसि-  
 वभूइस्स कुच्छसगुत्तस्स अञ्जभदे थेरे अंतेवासी कासवगुत्ते । थेरस्स णं अञ्जभदस्स कासवगु-  
 त्तस्स अञ्जनक्खत्ते थेरे अंतेवासी कासवगुत्ते । थेरस्स णं अञ्जनक्खत्तस्स कासवगुत्तस्स अ-  
 ञ्जरक्खे थेरे अंतेवासी कासवगुत्ते । थेरस्स णं अञ्जरक्खस्स कासवगुत्तस्स अञ्जनागे थेरे अंते-  
 वासी गोअमसगुत्ते । थेरस्स णं अञ्जनागस्स गोअमसगुत्तस्स अञ्जजेहिले थेरे अंतेवासी

लिए । थेरेहितौ णं अञ्जसेणिएहितो एत्थ णं अञ्जसेणिया साहा निर्गया, थेरेहितो णं  
 अञ्जतावसेहितो एत्थ णं अञ्जतावसी साहा निग्गया, थेरेहितो णं अञ्जकुबेरेहितो एत्थ णं  
 अञ्जकुबेरा साहा निग्गया, थेरेहितो णं अञ्जइसिपालिएहितो एत्थ णं अञ्जइसिपालिया  
 साहा निग्गया । थेरस्स णं अञ्जसीहगिरिस्स जाइस्सरस्स कोसियगुत्तस्स इमे चत्तारि  
 थेरा अंतेवासी अहांवच्चा अभिण्णया हुत्था, तंजहा—थेरे धणगिरी, थेरे अञ्जवइरे, थेरे  
 अञ्जसमिए, थेरे अरिहदिन्ने । थेरेहितो णं अञ्जसमिएहितो गोयमसगुत्तेहितो इत्थ णं बंभ-  
 दीविया साहा निग्गया, थेरेहितो णं अञ्जवइरेहितो गोयमसगुत्तेहितो इत्थ णं अञ्जवइरी  
 साहा निग्गया । थेरस्स णं अञ्जवइरस्स गोयमसगुत्तस्स इमे तिण्णि थेरा अंतेवासी अहा-  
 वच्चा अभिण्णया हुत्था, तंजहा—थेरे अञ्जवइरसेणे, थेरे अञ्जपउमे, थेरे अञ्जरहे । थेरेहितो

पियंगथे २ थेरे विजाहरगोवाले कासवगुत्ते णं ३ थेरे इसिदिन्ने ४, थेरे अरिहदत्ते ५ ।  
 थेरेहितो णं पियंगथेहितो एत्थ णं मञ्जिमा साहा निग्गया, थेरेहितो णं विजाहरगोवाले-  
 हितो कासवगुत्तेहितो एत्थ णं विजाहरी साहा निग्गया ॥ थेरस्स णं अज्जइदिन्नस्स कास-  
 वगुत्तस्स अज्जदिन्ने थेरे अंतेवासी गोयमसगुत्ते । थेरस्स णं अज्जदिन्नस्स गोयमसगुत्तस्स  
 इमे दो थेरा अंतेवासी अहावच्चा अभिण्णया हुत्था, तं०-थेरे अज्जसंतिसेणिए माढरसगुत्ते  
 १, थेरे अज्जसीहगिरी जाइस्सरे कोसियगुत्ते २ । थेरेहितो णं अज्जसंतिसेणिएहितो  
 माढरसगुत्तेहितो एत्थ णं उच्चानागरी साहा निग्गया । थेरस्स णं अज्जसंतिसेणियस्स  
 माढरसगुत्तस्स इमे चत्तारि थेरा अंतेवासी अहावच्चा अभिण्णया हुत्था, तंजहा-  
 ( ग्रं० १००० ) थेरे अज्जसेणिए, थेरे अज्जतावसे, थेरे अज्जकुबेरे, थेरे अज्जइसिपां-

१ इसिदिन्ने ( कं सु०, कं किं० )

त्ति इत्थ पढमं १, बीयं इसिदत्तिअं सुणेयधं २ । तइयं च अभिजयंतं ३, तिणिण कुला  
 माणवगणस्स ॥ १ ॥ थेरेहितो सुट्ठिय-सुप्पडिबुद्धेहितो कोडिय-काकंदएहितो वग्घा-  
 वच्चसगुत्तेहितो इत्थ णं कोडियगणे नामं गणे निग्गए, तस्स णं इमाओ चत्तारि साहाओ,  
 चत्तारि कुलाइं एवमाहिज्जंति । से किं तं साहाओ ? साहाओ एवमाहिज्जंति, तंजहा-उच्चा-  
 नागरि १ विज्जाहरी य २ वइरी य ३ मज्झिमिह्छा ४ य । कोडियगणस्स एया, हवंति  
 चत्तारि साहाओ ॥ १ ॥ से तं साहाओ ॥ से किं तं कुलाइं ? कुलाइं एवमाहिज्जंति, तंजहा-  
 पढमित्थ बंभलिज्जं १, बिइयं नामेण वत्थलिज्जं तु २ । तइयं पुण वाणिज्जं ३, चउत्थयं  
 पण्हाहणयं ४ ॥ १ ॥ थेराणं सुट्ठियसुप्पडिबुद्धाणं कोडियकाकंदयाणं वग्घावच्चसगुत्ताणं  
 इमे पंच थेरा अंतेवासी अहावच्चा अभिण्णाया हुत्था, तंजहा-थेरे अज्जइंददिने १ थेरे

गुत्तियं २ तइयं च होइ जसभदं ३ । एयाइं उडुवाडिय-गणस्स तिण्णेव य कुलाइं  
 ॥ १ ॥ थेरेहिंतो णं कामिड्डीहिंतो कोडालसगुत्तेहिंतो इत्थ णं वेसवाडियगणे नामं गणे  
 निग्गए, तस्स णं इमाओ चत्तारि साहाओ चत्तारि कुलाइं एवमाहिज्जंति । से किं तं  
 साहाओ ? सा० तंजहा, -सावत्थिया १ रज्जपालिआ २, अंतरिअिया ३, खेमलिअिया ४ ।  
 से तं साहाओ, से किं तं कुलाइं ? कुलाइं एवमाहिज्जंति, तंजहा, -गणियं १ मेहिय २  
 कामड्डीअं ३ च तह होइ इंदपुरगं ४ च । एयाइं वेसवाडिय-गणस्स चत्तारि उ कुलाइं  
 ॥ १ ॥ थेरेहिंतो णं इसिगुत्तेहिंतो काकंदएहिंतो वासिट्टुसगुत्तेहिंतो इत्थ णं माणवगणे  
 नामं गणे निग्गए, तस्स णं इमाओ चत्तारि साहाओ, तिण्णि य कुलाइं एवमाहिज्जंति, से किं  
 तं साहाओ ? साहाओ एवमाहिज्जंति, तंजहा, -कासवाअिया १, गोयमाअिया २, वासिट्ठिया  
 ३, सोरट्ठिया ४ । से तं साहाओ, से किं तं कुलाइं ? कुलाइं एवमाहिज्जंति, तंजहा, -इसिगु-

हितो इत्थ णं चारणगणे नामं गणे निगए, तस्स णं इमाओ चत्तारि साहाओ, सत्त  
 य कुलाइं एवमाहिञ्जंति, से किं तं साहाओ ? साहाओ एवमाहिञ्जंति, तंजहा-हारिय-  
 मालागारी १, संकासीआ २, गवेधुया ३, वज्जनागरी ४ । से तं साहाओ, से किं तं  
 कुलाइं ? कुलाइं एवमाहिञ्जंति, तंजहा, -पढमित्थ वत्थलिञ्जं १, बीयं पुण पीइधम्मिअं  
 २ होइ । तइअं पुण हालिञ्जं ३, चउत्थयं पूसमित्तिञ्जं ॥ १ ॥ पंचमगं मालिञ्जं ५, छट्ठं  
 पुण अञ्जवेडयं ६ होइ । सत्तमयं कण्हसहं ७, सत्त कुला चारणगणस्स ॥ २ ॥ थेरेहितो  
 भद्दजसेहितो भारद्वायसगुत्तेहितो इत्थ णं उडुवाडियगणे नामं गणे निगए, तस्स णं  
 इमाओ चत्तारि साहाओ तिण्णि कुलाइं एवमाहिञ्जंति, से किं तं साहाओ ? साहाओ  
 एवमाहिञ्जंति, तंजहा-चंपिञ्जिया १ भदिञ्जिया २ काकंदिया ३ मेहलिञ्जिया ४ । से तं  
 साहाओ, से किं तं कुलाइं ? कुलाइं एवमाहिञ्जंति, तंजहा, -भद्दजसियं १ तह भद्द-

मुद्रिय ५ सुप्पडिबुद्धे ६, रक्खिय ७ तह रोहगुत्ते ८ अ ॥ १ ॥ इसिगुत्ते ९ सिरिगुत्ते १०, गणी अ वंमे ११ गणी य तह सोमे १२ । दस दो अ गणहरा खलु, एए सीसा मुहत्थिस्स ॥ २ ॥ थेरेहिंतो णं अज्जरोहणेहिंतो णं कासवगुत्तेहिंतो णं तत्थ णं उद्देहगणे नामं गणे निग्गए, तस्सिमाओ चत्तारि साहाओ निग्गयाओ, छच्च कुलाइं एवमाहिज्जंति । से किं तं साहाओ ? साहाओ एवमाहिज्जंति, तंजहा-उडुंवरिज्जिया १, मास-पूरिआ २, मइपत्तिया ३, पुण्णपत्तिया ४, से तं साहाओ, से किं तं कुलाइं ? कुलाइं एवमाहिज्जंति, तंजहा-पढमं च नागभूयं, विइयं पुण सोमभूइयं होइ । अह उल्लगच्छ तइअं ३, चउत्थयं हत्थलिज्जं तु ॥ १ ॥ पंचमगं नंदिज्जं ५, छट्ठं पुण पारिहासयं ६ होइ । उद्देहगणस्सेए, छच्च कुला हुंति नायवा ॥ २ ॥ थेरेहिंतो णं सिरिगुत्तेहिंतो हारियसगुत्ते-



वच्चा अभिण्णाया हुत्था, तंजहा-थेरे अज्जमहागिरी एलावच्चसगुत्ते १, थेरे अज्जसुहत्थी वा-  
 सिट्ठसगुत्ते २, थेरस्स णं अज्जमहागिरिस्स एलावच्चसगुत्तस्स इमे अट्टु थेरा अंतेवासी अहा-  
 वच्चा अभिण्णाया हुत्था, तंजहा-थेरे उत्तरे १, थेरे बलिस्सहे २, थेरे धणड्डु ३, थेरे सिरिड्डु ४,  
 थेरे कोडिन्ने ५, थेरे नागे ६, थेरे नागमित्ते ७, थेरे छल्लए रोहगुत्ते कोसियगुत्तेणं ८, थेरे हितो  
 णं छल्लए हितो रोहगुत्ते हितो कोसियगुत्ते हितो तत्थ णं तेरासिया निग्गया । थेरे हितो णं  
 उत्तरबलिस्सहे हितो तत्थ णं उत्तरबलिस्सहे नामं गणे निग्गए-तस्स णं इमाओ चत्तारि  
 साहाओ एवमाहिज्जंति, तंजहा-कोसंबिया १, सोइत्तिया २, कोडंबाणी ३, चंदनागरी ४,  
 थेरस्स णं अज्जसुहत्थिस्स वासिट्ठसगुत्तस्स इमे दुवालस थेरा अंतेवासी अहावच्चा  
 अभिण्णाया हुत्था, तंजहा-थेरे अ अज्जरोहण १, जसभद्दे २ मेहगणी ३ य कामिड्डी ४ ।

इत्थ णं गोदासगणे नामं गणे निग्गए, तस्स णं इमाओ चत्तारि साहाओ एवमाहिजंति,  
 तंजहा—तामलित्तिआ १, कोडीवरिसिया २, पंडुवच्चणिया ३, दासीखव्वडिया ४, थेरस्स णं  
 अज्जसंभूयविजयस्स माढरसगुत्तस्स इमे दुवालस थेरा अंतेवासी अहावच्चा अभिण्णाया  
 हुत्था, तंजहा—नंदणभदु १ वनंदण-भद्रे २ तह तीसभद ३ जसभद्रे ४ । थेरे य सुमैणभद्रे ५,  
 मण्णिभद्रे ६ पुण्णभद्रे ७ य ॥ १ ॥ थेरे अ थूलभद्रे ८, उज्जुमई ९ जंबुनामधिज्जे १० य ।  
 थेरे अ दीहभद्रे ११, थेरे तह पंडुभद्रे १२ य ॥ २ ॥ थेरस्स णं अज्जसंभूअविजयस्स माढर-  
 सगुत्तस्स इमाओ सत्त अंतेवासिणीओ अहावच्चाओ अभिण्णायाओ हुत्था, तंजहा-जक्खा १  
 य जक्खदिण्णा २, भूया ३ तह चैव भूयदिण्णा य ४ । सेणा ५ वेणा ६ रेणा ७, भगिणीओ  
 थूलभदस्स ॥ १ ॥ थेरस्स णं अज्जथूलभदस्स गोयमसगुत्तस्स इमे दो थेरा अंतेवासी अहा-

१ पंडुवच्चणिया ( क० कि० ) २ सुमिणभद्रे ( क० कि०, क० सु० ) ३ गणिभद्रे ( क० कि० क० सु० )

-थेरे अञ्जनाइले १ थेरे अञ्जपोमिले २ थेरे अञ्जजयंते ३ थेरे अञ्जतावसे ४, थेराओ  
 अञ्जनाइलाओ अञ्जनाइला साहा निग्गया, थेराओ अञ्जपोमिलाओ अञ्जपोमिला साहा  
 निग्गया, थेराओ अञ्जजयंताओ अञ्जजयंती साहा निग्गया, थेराओ अञ्जतावसाओ  
 अञ्जतावसी साहा निग्गया ४ इति ॥ ६ ॥ विथरवायणाए पुण अञ्जजसभद्दाओ पुरओ  
 थेरावली एवं पलोइञ्जइ, तंजहा-थेरस्स णं अञ्जजसभद्दस्स तुंगियायणसगुत्तस्स इमे दो  
 थेरा अंतेवासी अहावच्चा अभिण्णाया हुत्था, तंजहा-थेरे अञ्जभद्दबाहू पाईणसगुत्ते, थेरे  
 अञ्जसंभूअविजए माढरसगुत्ते, थेरस्स णं अञ्जभद्दबाहुस्स पाईणसगुत्तस्स इमे चत्तारि  
 थेरा अंतेवासी अहावच्चा अभिण्णाया हुत्था, तंजहा-थेरे गोदासे १, थेरे अग्गिदत्ते २,  
 थेरे जण्णदत्ते ३, थेरे सोमदत्ते ४ कासवगुत्तेणं, थेरेहिंतो गोदासेहिंतो कासवगुत्तेहिंतो

१ विलोइञ्जइ ( क० कि० )

अजसंभूअविजयस्स माढरसगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अजथूलभद्वे गोयमसगुत्ते, थेरस्स णं  
 अजथूलभद्वस्स गोयमसगुत्तस्स अंतेवासी दुवे थेरा-थेरे अजमहागिरी एलावच्चसगुत्ते,  
 थेरे अजसुहत्थी वासिट्ठसगुत्ते, थेरस्स णं अजसुहत्थिस्स वासिट्ठसगुत्तस्स अंतेवासी  
 दुवे थेरा सुट्ठियसुप्पडिबुद्धा कोडियकाकंदगा वग्घावच्चसगुत्ता, थेराणं सुट्ठियसुप्प-  
 डिबुद्धाणं कोडियकाकंदगाणं वग्घावच्चसगुत्ताणं अंतेवासी थेरे अजइंददिन्ने कोसियगुत्ते,  
 थेरस्स णं अजइंददिन्नस्स कोसियगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अजदिन्ने गोयमसगुत्ते, थेरस्स  
 णं अजदिन्नस्स गोयमसगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अजसीहगिरी जाइस्सरे कोसियगुत्ते,  
 थेरस्स णं अजसीहगिरिस्स जाइस्सरस्स कोसियगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अजवइरे  
 गोयमसगुत्ते, थेरस्स णं अजवइरस्स गोयमसगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अजवइरसेणे  
 उक्कोसियगुत्ते, थेरस्स णं अजवइरसेणस्स उक्कोसिअगुत्तस्स अंतेवासी चत्तारि थेरा

इमे अञ्जत्ताए समणा निगंथा विहरंति, एए णं सव्वे अञ्जसुहम्मस्स अणगारस्स आव-  
 च्छिञ्जा, अवसेसा गणहरा निरवच्चा वुच्छिञ्जा ॥ ४ ॥ समणे भगवं महावीरे कासवगुत्ते णं ।  
 समणस्स णं भगवओ महावीरस्स कासवगुत्तस्स अञ्जसुहम्मे थेरे अंतेवासी अग्गिवेसाय-  
 णगुत्ते १, थेरस्स णं अञ्जसुहम्मस्स अग्गिवेसायणगुत्तस्स अञ्जजंबुनामे थेरे अंतेवासी  
 कासवगुत्तेणं २, थेरस्स णं अञ्जजंबुणामस्स कासवगुत्तस्स अञ्जप्पभवे थेरे अंतेवासी कच्चा-  
 यणसगुत्ते ३, थेरस्स णं अञ्जप्पभवस्स कच्चायणसगुत्तस्स अञ्जसिञ्जंभवे थेरे अंतेवासी  
 मणगपिया वच्छसगुत्ते ४, थेरस्स णं अञ्जसिञ्जंभवस्स मणगपिउणो वच्छसगुत्तस्स अञ्ज-  
 जसभदे थेरे अंतेवासी तुंगियायणसगुत्ते ॥ ५ ॥ संखित्तवायणाए अञ्जजसभद्वाओ अगगओ  
 एवं थेरावली भणिया, तंजहा—थेरस्स णं अञ्जजसभद्दस्स तुंगियायणसगुत्तस्स अंतेवासी  
 दुवे थेरा—थेरे अञ्जसंभूअविजए, माढरसगुत्ते, थेरे अञ्जभद्दवाहू पाईणसगुत्ते, थेरस्स णं

अग्निवेशायणे गुत्तेणं पंच समणसयाइं वाएइ, थेरे मंडितपुत्ते वासिट्टे गुत्तेणं अद्धुट्टाइं  
समणसयाइं वाएइ, थेरे मोरिअपुत्ते कासवे गुत्तेणं अद्धुट्टाइं समणसयाइं वाएइ, थेरे  
अकंपिए गोयमे' गुत्तेणं-थेरे अयलभाया हारिआयणे गुत्तेणं-पत्तेयं एते दुण्णिवि थेरा  
त्तिण्णि तिण्णि समणसयाइं वाएति, थेरे अज्जमेइज्जे-थेरे पभासे-एए दुण्णिवि थेरा कोडिन्ना  
गुत्तेणं तिण्णि तिण्णि समणसयाइं वाएति । से तेणट्टेणं अज्जो ! एवं बुच्चइ-समणस्स  
भगवओ महावीरस्स नव गणा, इक्कारस गणहरा हुत्था ॥ ३ ॥ सधेवि णं एते समणस्स  
भगवओ महावीरस्स एक्कारसवि गणहरा दुवालसंगिणो चउदसपुट्ठिणो समत्तगणिपि-  
डगधारगा रायगिहे नगरे मासिएणं भत्तेणं अपाणएणं कालगया जाव सधदुक्खप्पहीणा ॥  
थेरे इंदभूई, थेरे अज्जसुहम्मसे य सिद्धिए महावीरे पच्छा दुण्णिवि थेरा परिनिवुया ॥ जे

१ गोयमसगुत्तेणं ( क० कि०, क० सु० ) २ इक्कारस ( क० कि०, क० सु० )

कृता, एयंमि समए समणे भगवं महावीरे परिनिबुडे, तओवि परं नववाससया  
विइकृता, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे संवच्छरे काले गच्छइ ॥ २२८ ॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स नव गणा, इक्कारस गण-  
हरा हुत्था ॥ १ ॥ से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-समणस्स भगवओ महावीरस्स नव  
गणा, इक्कारस गणहरा हुत्था ? ॥ २ ॥ समणस्स भगवओ महावीरस्स जिट्ठे इंदभूई  
अणगारे गोयमगुत्ते णं पंच समणसयाइं वाएइ, मंझिमए अण्णिभूई अणगारे गोयम-  
गुत्ते णं पंचसमणसयाइं वाएइ, कणीअसे अणगारे वाउंभूई गोयमगुत्तेणं पंच समणस-  
याइं वाएइ, थेरे अज्जवियत्ते भारद्वाए गुत्तेणं पंच समणसयाइं वाएइ, थेरे अज्जसुहम्मे

१ गोयमसगोत्तेणं ( क० कि०; क० सु० ) २ नामेणं ( क० कि० )

पुणं पुषसयसहसं सामणपरियागं पाडणिता चडरासीइं पुषसयसहस्राइं सवाउयं  
 पालइत्ता खीणे वेयणिज्जाडयनामगुत्ते इमीसे ओसपिणीए सुसमडुसमाए समाए बहु-  
 विइकंताए तिहिं वासेहिं अद्धनवमेहि य मासेहिं सेसेहिं जे से हेमंताणं तच्चे मासे पंचमे  
 पक्खे माहवहुले, तस्स णं माहवहुलस्स ( अं० ९०० ) तेरसीपक्खे णं उप्पि अट्ठाव-  
 यसेलसिहरंसि दसहिं अणगारसहस्सेहिं सड्ढिं चोद्वसमेणं भत्तेणं अपाणएणं अभीइणा  
 नक्खत्तेणं जोगसुवागएणं पुष्हकालसमयंसि संपलियंक्कनिसण्णे कालगए विइकंते  
 जाव सधदुक्खप्पहीणे ॥ २२७ ॥ उसभस्स णं अरहओ कोसलियस्स कालगयस्स जाव  
 सधदुक्खप्पहीणस्स तिणिण वासा अद्धनवमा य मासा विइकंता, तओवि परं एणा  
 सागरोवमकोडाकोडी तिवासअद्धनवमासाहियवायालीसाए वाससहस्सेहिं अणिया विइ-

१ संपुणं ( क० कि० )



पण्णासा वाईणं० ॥ २२३ ॥ उसभस्स णं० वीसं अंतेवासिसहस्सा सिद्धा, चत्तालीसं  
 अज्जियासाहस्सीओ सिद्धाओ ॥ २२४ ॥ उसभस्स णं० अरहओ बावीससहस्सा  
 नवसया अणुत्तरोववाइयाणं गइक्ख्खाणाणं जाव भद्दाणं उक्कोसिआ० ॥ २२५ ॥  
 उसभस्स णं० अरहओ दुविहा अंतगडभूमी हुत्था, तंजहा-जुगंतगडभूमी य परिआयं-  
 तगडभूमी य, जाव असंखिज्जाओ पुरिसजुगाओ जुगंतगडभूमी, अंतोमुहुत्तपरि-  
 आए अंतमकासी ॥ २२६ ॥ तेषं कालेणं तेषं समएणं उसभे अरहा कोसल्लिए  
 वीसं पुव्वसयसहस्साइं कुमारवासमज्झे वसित्ता णं तेवट्ठिं पुव्वसयसहस्साइं रज्जवासमज्झे  
 वसित्ता णं तेसीइं पुव्वसयसहस्साइं अगारवासमज्झे वसित्ता णं एणं वाससहस्सं छउम-  
 त्थपरिआयं पाउणित्ता एणं पुव्वसयसहस्सं वाससहस्सूणं केवल्लिपरिआयं पाउणित्ता पडि-

समणोवासगसंपया हुत्था ॥ २१६ ॥ उसभस्स णं० सुभद्दापासुवखाणं समणोवासियाणं  
 पंचसयसाहस्सीओ चउपण्णं च सहस्सा उक्कोसिया समणोवासियाणं संपया हुत्था  
 ॥ २१७ ॥ उसभस्स णं० चत्तारि सहस्सा सत्तसया पण्णासा चउद्दसपुद्दीणं अजिणाणं  
 जिणसंकासाणं जाव उक्कोसिया चउद्दसपुद्दिसंपया हुत्था ॥ २१८ ॥ उसभस्स णं नव  
 सहस्सा ओहिनाणीणं उक्कोसिया० ॥ २१९ ॥ उसभस्स णं वीससहस्सा केवलनाणीणं  
 उक्कोसिया० ॥ २२० ॥ उसभस्स णं० वीससहस्सा छच्च सया वेउव्वियाणं० उक्कोसिया०  
 ॥ २२१ ॥ उसभस्स णं० बारस सहस्सा छच्च सया पण्णासा विउलमईणं अड्डाइजेसु  
 दीवससुद्देसु सन्नीणं पंचिदियाणं पञ्जतगाणं मणोगए भावे जाणमाणाणं पासमाणाणं  
 उक्कोसिया विउलमईसंपया हुत्था ॥ २२२ ॥ उसभस्स णं० बारस सहस्सा छच्च सया

१ दीनेसु दोयु अ समुद्देसु ( क० कि०, क० सु० )

काए चियत्तदेहे जे केइ उवसग्गा जाव० अप्पाणं भावेमाणस्स इकं वाससहस्सं  
विइक्कंतं, तओ णं जे से हेमंताणं चउत्थे मासे सत्तमे पक्खे फग्गुणबहुले, तस्स णं फग्गु-  
णबहुलस्स इक्कारसीपक्खेणं पुष्हकालसमयंसि पुरिमतालस्स नयरस्स बहिआ  
सगडमुहंसि उज्जाणंसि नग्गोहवरपायवस्स अहे अट्टमेणं भत्तेणं अपाणएणं आसाढाहिं  
नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं झाणंतरिआए वट्टमाणस्स अणंते जाव० जाणमाणे पासेमाणे  
विहरइ ॥ २१२ ॥ उसभस्स णं अरहओ कोसलिअस्स चउरासीई गणा, चउरासीई  
गणहरा हुत्था ॥ २१३ ॥ उसभस्स णं० उसभसेणपामुक्खाणं चउरासीइओ समणसा-  
हस्सीओ उक्कोसिया समणसंपया हुत्था ॥ २१४ ॥ उसभस्स णं० बंभिसुंदरिपामुक्खाणं  
अज्जियाणं तिण्णि सयसाहस्सीओ उक्कोसिया अज्जियासंपया हुत्था ॥ २१५ ॥ उसभस्स  
णं० सिअंसपामुक्खाणं समणोवासगाणं तिण्णि सयसाहस्सीओ पंचसहस्सा उक्कोसिया

पुत्तसयं रजसए अभिसिंचइ, अभिसिंचित्ता पुणरवि लोअंतिएहिं जिअकप्पिएहिं  
 देवेहिं ताहिं इट्टाहिं जाव वग्गूहिं, सेसं तं चेव सधं भाणिअधं, जाव दाणं दाइआणं  
 परिभाइत्ता जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्खे चित्तवहुले, तस्स णं चित्तवहुलस्स  
 अट्टमीपक्खे णं दिवसस्स पच्छिमे भागे सुदंसणाए सीयाए सदेवमणुआसुराए  
 परिसाए समणुगम्ममाणमग्गे जाव विणीयं रायहाणिं मज्झमज्जेणं णिग्गच्छइ,  
 णिग्गच्छित्ता जेणेव सिद्धत्थवणे उज्जाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ,  
 उवागच्छित्ता असोगवरपायवस्स जाव सयमेव चउमुट्टिअं लोअं करेइ, करित्ता छट्टेणं  
 भत्तेणं अपाणएणं आसाढाहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं उग्गाणं भोगाणं राइण्णाणं  
 खत्तियाणं च चउहिं पुरिससहरस्सेहिं सद्धिं एणं देवदूसमादाय मुंडे भवित्ता अगाराओ  
 अणगारियं पवइए ॥ २११ ॥ उसभे णं अरहा कोसलिए एणं वाससहरस्सं निच्चं वोसट्टु-

दिद्याणं जाव आसाढाहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं जाव आरोग्गा आरोग्गं दारयं  
 पयाया ॥ २०८ ॥ तं चैव सबंध-जाव देवा देवीओ थ वसुहारवासं वासिसु, सेसं तहेव  
 चारगसोहणं माणुम्माणवड्डुणं-उस्सुक्कमाइयट्टिइवडियजूयवज्जं सबंधं भाणिअबंधं ॥ २०९ ॥  
 उसभे णं अरहा कोसलिए कासवगुत्ते णं, तरस णं पंच नामधिज्जा एवमाहिज्जंति,  
 तंजहा-उसभे इ वा, पढमराया इ वा, पढमभिकखायरे इ वा, पढमजिणे इ वा, पढमतित्थ-  
 यरे इ वा ॥ २१० ॥ उसभे णं अरहा कोसलिए दक्खे दक्खपइण्णे पडिरूवे अह्ठीणे  
 भदए विणीए वीसं पुव्वसयसहरसाइं कुमारवासमज्झे वसइ, वसित्ता तेवाट्ठिं पुव्वसय-  
 सहरसाइं रज्जवासमज्झे वसइ, तेवाट्ठिं च पुव्वसयसहरसाइं रज्जवासमज्झे वसमाणे  
 लेहाइआओ गणियप्पहाणाओ सउणरुयपज्जवसाणाओ बावत्तरिं कलाओ, चउसाट्ठिं  
 महिलागुणे, सिप्पसयं च कम्माणं, तिन्निवि पयाहिआए उवदिसइ, उवदिसित्ता

सत्तमे पक्खे आसाढवहुल्ले तस्स णं आसाढवहुल्लस्स चउत्थीपक्खे णं सधट्टुसिद्धाओ  
 महाविमाणाओ त्तिचीसंसागरोवमट्टिइआओ अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुद्वीवे दीवे  
 भारहेवासै इक्खागभूमीए नाभिस्स कुलगरस्स मरुदेवीए भारिआए पुधरत्तावरत्तकाल-  
 समयंसि आहारवक्कंतीए जाव गब्भत्ताए वक्कंते ॥२०६॥ उसभे णं अरहा कोसलिए त्तिन्ना-  
 णोवगए आविहुत्था, तंचहाचइस्सामित्ति जाणइ-जाव-सुमिणे पासइ, तंजहान्गयगाहा ।  
 सधं तहेव-नवरं पढमं उसभं सुहेणं अइतं पासइ-सेसाओ गयं । नाभिकुलगरस्स साहइ,  
 सुविणपाढगा नत्थि, नाभिकुलगरो सयमेव वागरेइ ॥ २०७ ॥ तेणं कालेणं तेणं  
 समएणं उसभे णं अरहा कोसलिए जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्खे चित्तवहुले  
 तस्स णं चित्तवहुल्लस्स अट्टमीपक्खे णं नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अच्चट्टुमाणं राइ-

१ मरुदेवाए ( क० कि०, क० सु० ) २ साहेइ ( क० कि०, क० सु० )

सेसं जहा सीअलस्स तिवासअद्धनवमासाहियबायालीसवाससहस्सेहिं इच्चाइयं॥२०२॥ ४  
संभवस्स णं अरहओ जाव०प्पहीणस्स वीसं सागरोवमकोडिसयसहस्सा  
विइक्कंता, सेसं जहा सीअलस्स, तिवासअद्धनवमासाहियबायालीसवाससहस्सेहिं  
इच्चाइयं ॥ २०३ ॥ ३ ॥

अजियस्स णं अरहओ जावप्पहीणस्स पन्नासं सागरोवमकोडिसयसहस्सा विइक्कंता,  
सेसं जहा सीअलस्स, तिवासअद्धनवमासाहियबायालीसवाससहस्सेहिंइच्चाइयं॥२०४॥२॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं उसभे णं अरहा कोसलिए चउत्तरासाढे अभीइपंचमे  
हुत्था, तंजहा-उत्तरासाढाहिं चुए-चइत्ता गब्भं वक्कंते जाव अभीइणा परिनिवुए  
॥ २०५ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं उसभे अरहा कोसलिए जे से गिम्हाणं चउत्थे मासे

जहा सीअलस्स, तंच इमं-तिवासअद्धनवमासाहियवायालीससहस्सेहिं ऊणगमि-  
च्चाइ ॥ १९८ ॥ ८ ॥

सुपासस्स णं अरहओ जाव-प्पहीणस्स एगे सागरोवमकोडिसहस्से विइक्कते,  
सेसं जहा सीअलस्स, तंच इमं-तिवासअद्धनवमासाहिअवायालीससहस्सेहिं ऊणिआ  
इच्चाइ ॥ १९९ ॥ ७ ॥

पउमप्पहस्स णं अरहओ जावप्पहीणस्स दस सागरोवमकोडिसहस्सा विइक्कता, तिवा-  
सअद्धनवमासाहियवायालीससहस्सेहिं इच्चाइयं, सेसं जहा सीअलस्स ॥ २०० ॥ ६ ॥

सुमइस्स णं अरहओ जाव०प्पहीणस्स एगे सागरोवमकोडिसयसहस्से विइक्कते, सेसं  
जहा सीअलस्स, तिवासअद्धनवमासाहियवायालीससहस्सेहिं इच्चाइयं ॥ २०१ ॥ ५ ॥

अभिनंदणस्स णं अरहओ जाव०प्पहीणस्स दस सागरोवमकोडिसयसहस्सा विइक्कता,



सीअलस्स णं अरहओ जाव सव्वदुक्खप्पहीणस्स एगा सागरोवमकोडी तिवास-  
 अद्धनवमासाहिअंबायालीसवाससहस्सेहिं ऊणिआ विइक्कंता, एयंमि समए वीरे  
 निव्वुओ, तओऽविय णं परं नव वाससयाइं विइक्कंताइं, दसमस्स य वाससयंस्स अयं  
 असीइमे संवच्छरे काले गच्छइ ॥ १९६ ॥ १० ॥

सुविहिस्स णं अरहओ पुप्फदंतस्स जाव सव्वदुक्खप्पहीणस्स दस सागरोवमको-  
 डीओ विइक्कंताओ, सेसं जहा सीअलस्स, तंच इमं-तिवासअद्धनवमासाहिअंबायाली-  
 सवाससहस्सेहिं ऊणिआं विइक्कंता इच्चाइ ॥ १९७ ॥ ९ ॥

चंदुप्पहस्स णं अरहओ जाव-प्पहीणस्स एगं सागरोवमकोडिसयं विइक्कंतं, सेसं

धम्मस्स णं अरहओ जाव सबदुक्खप्पहीणस्स तिण्णि सागरोवमाइं विइक्कंताइं,  
पन्नाट्ठिं च, सेसं जहा मल्लिस्स ॥ १९१ ॥ १५ ॥

अणंतस्स णं अरहओ जाव सबदुक्खप्पहीणस्स सत्त सागरोवमाइं विइक्कंताइं  
पन्नाट्ठिं च, सेसं जहा मल्लिस्स ॥ १९२ ॥ १४ ॥

विमलस्स णं अरहओ जाव सबदुक्खप्पहीणस्स सोलस सागरोवमाइं विइक्कंताइं,  
पन्नाट्ठिं च, सेसं जहा मल्लिस्स ॥ १९३ ॥ १३ ॥

वासुपुज्जस्स णं अरहओ जाव सबदुक्खप्पहीणस्स छायालीसं सागरोवमाइं विइक्कं-  
ताइं पन्नाट्ठिं च, सेसं जहा मल्लिस्स ॥ १९४ ॥ १२ ॥

सिजंसस्स णं अरहओ जाव सबदुक्खप्पहीणस्स एणे सागरोवमसए विइक्कंते  
पन्नाट्ठिं च, सेसं जहा मल्लिस्स ॥ १९५ ॥ ११ ॥

च वाससहस्साइं नव वाससयाइं विइक्कंताइं, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे  
संवच्छरे काले गच्छइ ॥ १८७ ॥ १९ ॥

अरस्स णं अरहओ जाव सब्बदुक्खप्पहीणस्स एगे वासकोडिसहस्से विइक्कंते, सेसं  
जहा मल्लिस्स-तं च एयं-पंचसट्ठिं लक्खा चउरासीइं सहस्सा विइक्कंता, तंमि समए  
महावीरो निव्वुओ, तओ परं नव वाससया विइक्कंता दसमस्स य वाससयस्स अयं  
असीइमे संवच्छरे काले गच्छइ। एवं अगओ जाव सेयंसो ताव दट्ठवं ॥ १८८ ॥ १८ ॥

कुंधुस्स णं अरहओ जाव सब्बदुक्खप्पहीणस्स एगे चउभागपलिओवमे विइक्कंते,  
पंचसट्ठिं वाससयसहस्सा, सेसं जहा मल्लिस्स ॥ १८९ ॥ १७ ॥

संतिस्स णं अरहओ जाव सब्बदुक्खप्पहीणस्स एगे चउभागूणे पलिओवमे विइ-  
क्कंते पन्नट्ठिं च, सेसं जहा मल्लिस्स ॥ १९० ॥ १६ ॥

दृनेमिस्स कालगयस्स जाव सवहुक्खप्पहीणस्स चउरासीइं वाससहस्साइं विइक्कंताइं,  
 पंचासीइमस्स वाससहस्सस्स नव वाससयाइं विइक्कंताइं, दसमस्स वाससयस्स अयं  
 असीइमे संवच्छरे काले गच्छइ ॥ १८४ ॥ २२ ॥

नमिस्स णं अरहओ कालगयस्स जाव सवहुक्खप्पहीणस्स पंच वाससयसहस्साइं,  
 चउरासीइं च वाससहस्साइं नव य वाससयाइं विइक्कंताइं, दसमस्स य वाससयस्स अयं  
 असीइमे संवच्छरे काले गच्छइ ॥ १८५ ॥ २१ ॥

मुणिसुधयस्स णं अरहओ कालगयस्स इक्कारस वाससयसहस्साइं चउरासीइं च  
 वाससहस्साइं नव वाससयाइं विइक्कंताइं, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे संवच्छरे  
 काले गच्छइ ॥ १८६ ॥ २० ॥

महिस्स णं अरहओ जाव सवहुक्खप्पहीणस्स पन्नट्ठिं वाससयसहस्साइं चउरासीइं

च वाससहस्साइं नव वाससयाइं विइक्कंताइं, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे संवच्छरे काले गच्छइ ॥ १८७ ॥ १९ ॥

अरस्स णं अरहओ जाव सव्वदुक्खप्पहीणस्स एगे वासकोडिसहस्से विइक्कंते, सेसं जहा मल्लिस्स-तं च एयं-पंचसट्ठिं लक्खा चउरासीइं सहस्सा विइक्कंता, तंमि समए महावीरो निव्वुओ, तओ परं नव वाससया विइक्कंता दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे संवच्छरे काले गच्छइ। एवं अग्गओ जाव सेयंसो ताव दट्ठुबंधं ॥ १८८ ॥ १८ ॥

कुंथुस्स णं अरहओ जाव सव्वदुक्खप्पहीणस्स एगे चउभागपलिओवमे विइक्कंते, पंचसट्ठिं वाससयसहस्सा, सेसं जहा मल्लिस्स ॥ १८९ ॥ १७ ॥

संतिस्स णं अरहओ जाव सव्वदुक्खप्पहीणस्स एगे चउभागूणे पलिओवमे विइक्कंते पन्नाट्ठिं च, सेसं जहा मल्लिस्स ॥ १९० ॥ १६ ॥

दृनेमिस्स अञ्जजक्खिणिपामुक्खाओ चत्तालीसं अञ्जियासाहस्सीओ उक्कोसिया अञ्जि-  
 यासंपया हुत्था ॥ १७७ ॥ अरहओ णं अरिट्टुनेमिस्स नंदपामुक्खाणं समणोवासगाणं एणा  
 सयसाहस्सीओ अउणत्तरिं च सहस्सा उक्कोसिया समणोवासगाणं संपया हुत्था ॥ १७८ ॥  
 अरहओ णं अरिट्टुं महासुधयापामुक्खाणं समणोवासिगाणं तिण्णिण सयसाहस्सीओ छत्तीसं  
 च सहस्सा उक्कोसिआ समणोवासिआणं संपया हुत्था ॥ १७९ ॥ अरहओ णं अरिट्टुनेमिस्स  
 चत्तारि सया चउद्दसपुधीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं सधक्खरं जाव हुत्था ॥ १८० ॥  
 पन्नरससया ओहिनाणीणं, पन्नरससया केवलनाणीणं, पन्नरससया वेउविआणं, दससया  
 विउलमईणं, अट्टसया वार्इणं, सोलससया अणुत्तरोववाइआणं, पन्नरस समणसया  
 सिद्धा, तीसं अञ्जियासयाइं सिद्धाइं ॥ १८१ ॥ अरहओ णं अरिट्टुनेमिस्स दुविहा  
 अंतगडभूमी हुत्था, तंजहा-जुगंतगडभूमी परियायंतगडभूमी थ-जाव अट्टुमाओ

पुरिसजुगाओ जुगंतगडभूमी, दुवासंपरिआए अंतमकासी ॥ १८२ ॥ तेणं कालेणं तेणं  
 समएणं अरहा अरिट्टुनेमी तिणिण वाससयाइं कुमारवासमज्झे वसित्ता चउपन्नं राइंदियाइं  
 छउमत्थपरिआयं पाउणित्ता देसूणाइं सत्त वाससयाइं केवल्लिपरिआयं पाउणित्ता  
 परिपुंणाइं सत्तवाससयाइं सामण्णपरिआयं पाउणित्ता एणं वाससहरस्सं सव्वाउअं पाल-  
 इत्ता खीणे वेयणिञ्जाउयनामगुत्ते इमीसे ओसप्पिणीए दूसमसुसमाए समाए बहुविइक्कं-  
 ताए जे से गिम्हाणं चउत्थे मासे अट्टमे पक्खे आसाढसुद्धे तस्स णं आसाढसुद्धस्स  
 अट्टमीपक्खे णं उप्पि उञ्जितसेलसिहरंसि पंचहिं छत्तीसेहिं अणगारसएहिं सच्चिं  
 मासिएणं भत्तेणं अपाणएणं चित्तानक्खत्तेणं जोगमुवागएणं पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि  
 नेसज्जिए कालगए ( ग्रं० ८०० ) जाव सव्वदुक्खप्पहीणे ॥ १८३ ॥ अरहओ णं अरि-

? दुवालस० ( क० कि०, क० सु० ) १-२ पड्डिणुणाइं ३ चित्ताहिं नक्खत्तेणं ( क० सु० )

जाव चित्ताहिं नक्खत्तेणं जोगसुवागएणं जाव आरोग्गा आरोगं दारयं पयाया ॥ जम्मणं  
समुद्धविजयाभिलावेणं नेयधं, जाव तं होउ णं कुमारे अरिट्टनेमी नामेणं ॥ अरहा  
अरिट्टनेमी दक्खे जाव तिण्णि वाससयाइं कुमारे अगारवासमज्जे वसित्ता णं पुणरवि  
लोगंतिएहिं जिअकप्पिएहिं देवेहिं तं चेव सधं भाणियधं, जाव दाणं दाइयाणं परिभा-  
इत्ता ॥ १७२ ॥ जे से वासाणं पढमे मासे दुच्चे पक्खे सावणसुद्धे, तस्स णं सावणसु-  
द्धस्स छट्ठीपक्खे णं पुव्वण्हकालसमयंसि उत्तरकुराए सीयाए सदेवमणुआसुराए परिसाए  
अणुगम्ममाणमग्गे जाव वारवईए नयरीए मज्झंमज्जेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव  
रेवयए उज्जाणे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता असोगवरपायवस्स अहे सीयं ठावेइ,  
ठावित्ता सीयाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता सयमेव आभरणमल्लालंकारं ओसुयइ, सयमेव  
पंचसुट्टियं लोयं करेइ, करित्ता छट्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं चित्तानक्खत्तेणं जोगसुवागएणं



एणं देवदूसमादाय एणेणं पुरिससहस्सेणं सद्धिं सुंढे भवित्ता अगाराओ अणगारियं  
 पव्वइए ॥ १७३ ॥ अरहा णं अरिट्टुनेमी चउपन्नं राइंदियाइं निच्चं वोसट्टुकाए चियत्त-  
 देहे, तं चेव सव्वं जाव पणपन्नगस्स राइंदियस्स अंतरा वट्टमाणस्स जे से वासाणं तच्चे भासे  
 पंचमे पक्खे आसोयबहुले, तस्स णं आसोयबहुलस्स पन्नरसीपक्खे णं द्विवसस्स पच्छिमे  
 भाए उज्जितसेलसिहरे वेडसपायवस्स अहे छट्टेणं भत्तेणं अपाणएणं चित्तौनक्खत्तेणं  
 जोगसुवागएणं झाणंतरियाए वट्टमाणस्स जाव अणंते अणुत्तरे-जाव सबलोए सब्बजी-  
 वाणं भावे जाणमाणे पासमाणे विहरइ ॥ १७४ ॥ अरहओ णं अरिट्टुनेमिस्स अट्टारस  
 गणा अट्टारस गणहरा हुत्था ॥ १७५ ॥ अरहओ णं अरिट्टुनेमिस्स वरदत्तपासुक्खाओ  
 अट्टारस समणसाहस्सीओ उक्कोसिया समणसंपया हुत्था ॥ १७६ ॥ अरहओ णं अरि-

१ अट्टमेणं ( क० कि०, क० सु० ) २ चित्ताहिं नक्खत्तेणं ( क० कि०, क० सु० )

जाव चित्ताहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं जाव आरोग्गा आरोग्गं दारयं पयाया ॥ जम्मणं  
समुद्धविजयाभिलावेणं नेयधं, जाव तं होउ णं कुमारे अरिट्टनेमी नामेणं ॥ अरहा  
अरिट्टनेमी दक्खे जाव तिग्णि वाससयाइं कुमारे अगारवासमज्जे वसित्ता णं पुणरवि  
लोगंतिएहिं जिअकप्पिएहिं देवेहिं तं चेव सधं भाणियधं, जाव दाणं दाइयाणं परिभा-  
इत्ता ॥ १७२ ॥ जे से वासाणं पढमे मासे दुच्चे पक्खे सावणसुद्धे, तस्स णं सावणसु-  
द्धस्स छट्ठीपक्खे णं पुषण्हकालसमयंसि उत्तरकुराए सीयाए सदेवमणुआसुराए परिसाए  
अणुगम्ममाणमग्गे जाव वारवईए नयरीए अज्झंमज्जेणं निगगच्छइ, निगगच्छित्ता जेणेव  
रेवयए उज्जाणे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता असोगवरपायवस्स अहे सीयं ठावेइ,  
ठावित्ता सीयाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहिता सयमेव आभरणमल्लालंकारं ओमुयइ, सयमेव  
पंचसुट्टियं लोयं करेइ, करित्ता छट्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं चित्तानक्खत्तेणं जोगमुवागएणं

तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्टुनेमी पंचचित्ते ह्रुत्था, तंजहा-चित्ताहिं  
 चुए चइत्ता गब्भं वक्कंते, तहेव उक्खेवो-जाव चित्ताहिं परिनिष्ठुए ॥ १७० ॥ तेणं  
 कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्टुनेमी जे से वासाणं चउत्थे मासे सत्तमे पक्खे  
 कत्तिअबहुले, तस्स णं कत्तियबहुलस्स बारसीपक्खे णं अपराजिआओ महाविमाणाओ  
 बत्तीससागरोवमठिइआओ अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुद्वीवे दीवे भारहे वासे  
 सोरियपुरे नयरे समुद्धविजयस्स रण्णो भारिआए सिवाए देवीए युद्धरत्तावरत्तकालस-  
 मयंसि जाव चित्ताहिं गब्भत्ताए वक्कंते, सबं तहेव सुमिणदंसणद्विणसंहरणाइअं इत्थ  
 भाणियव्वं ॥ १७१ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्टुनेमी जे से वासाणं पढमे  
 मासे दुच्चे पक्खे सावणसुद्धे, तस्स णं सावणसुद्धस्स पंचमीपक्खे णं नवण्हं मासाणं

१ सिवादेवीए ( क० कि०, क० सु० ) २ तमेव

पाडणित्ता, देसूणाइं सत्तरि वासाइं केवलिपरिआयं पाडणित्ता, पडिपुण्णाइं सत्तरि  
 वासाइं सामण्णपरिआयं पाडणित्ता, एक्कं वाससयं सधाउयं पालइत्ता खीणे वेयणिञ्जा-  
 उयनामगुत्ते इमीसे ओसप्पिणीए दूसमसुसमाए समाए बहुविइक्कंताए जे से वासाणं  
 पढमे मासे दुच्चे पक्खे सावणसुद्धे, तस्स णं सावणसुद्धस्स अट्टमीपक्खे णं उप्पिं संसे-  
 असेलसिहरंसि अण्णचउत्तीसइमे मासिएणं भत्तेणं अपाणएणं विसाहाहिं नक्खत्तेणं  
 जोगमुवागएणं पुव्वण्हकालसमयंसि वग्घारियपाणी कालगए विइक्कंते जाव सधदुक्ख-  
 प्पहीणे ॥ १६८ ॥ पासस्स णं अरहओ जाव सधदुक्खप्पहीणस्स दुवालस वासस-  
 याइं विइक्कंताइं, तेरसमस्स य अयं तीसइमे संवच्छरे काले गच्छइ ॥ १६९ ॥

॥१६३॥ पासस्स० सुनंदापामुक्खाणं समणोवासियाणं तिणिण सयसाहस्सीओ सत्तावीसं  
 च सहस्सा उक्कोसिआ समणोवासियाणं संपया हुत्था ॥ १६४ ॥ पासस्स० अट्टसया  
 चउद्वसपुष्पीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं सव्वक्खर-जाव-चउद्वसपुष्पीणं संपया हुत्था  
 ॥ १६५ ॥ पासस्स णं० चउद्वससया ओहिनाणीणं, दससया केवलनाणीणं, इक्कारससया  
 वेउधियाणं, छस्सया रिउमईणं, दससमणसया सिद्धा, वीसं अज्जियासया सिद्धा,  
 अद्धट्टमसया विउल्लमईणं, छसया वाईणं, बारससया अणुत्तरोववाइयाणं ॥ १६६ ॥  
 पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स डुविहा अंतगडभूमी हुत्था, तंजहा-जुगंतगड-  
 भूमी, परियायंतगडभूमी य, जाव चउत्थाओ पुरिसजुगाओ जुगंतगडभूमी, त्तिवा-  
 सपरिआए अंतमकासी ॥ १६७ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसा-  
 दाणीए तीसं वासाइं अगारंवासमज्जे वसित्ता, तेसीइं राइंदिआइं छउमत्थपरिआयं

चित्तबहुले, तस्स णं चित्तबहुलस्स चउत्थीपक्खे णं पुव्वण्हकालसमयंसि धायइपायवस्स  
 अहे छट्टेणं भत्तेणं अपाणएणं विसाहाहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं ज्ञाणंतरिआए वट्ट-  
 माणस्स अणत्ते अणुत्तरे निवाघाए निरावरणे जाव केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने, जाव  
 जाणमाणे पासमाणे विहरइ ॥ १५९ ॥ पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स अट्टु गणा  
 अट्टु गणहरा हुत्था, तंजहा-सुभे य १ अज्जघोसे य २, वसिट्ठे ३ बंभयारि य ४। सोमे  
 ५ सिरिहरे ६ चेव, वीरभदे ७ जसेऽविय ८। ९ ॥ १६० ॥ पासस्स णं अरहओ पुरि-  
 स्सादाणीयस्स अज्जदिण्णपासुक्खाओ सोलसंसमणसाहस्सीओ उक्कोसिआ समणसंपया  
 हुत्था ॥ १६१ ॥ पासस्स णं अ० पुप्फचूलापासुक्खाओ अट्टुत्तीसं अज्जियासाहस्सीओ  
 उक्कोसिआ अज्जियासंपया हुत्था ॥ १६२ ॥ पासस्स० सुव्वयपासुक्खाणं समणोवासगाणं  
 एगा सयसाहस्सीओ चउसट्ठिं च सहस्सा उक्कोसिआ समणोवासगाणं संपया हुत्था

॥१६३॥ पासस्स० सुनंदापामुक्खाणं समणोवासियाणं तिप्पिण सयसाहस्सीओ सत्तावीसं  
च सहस्सा उक्कोसिआ समणोवासियाणं संपया हुत्था ॥ १६४ ॥ पासस्स० अट्टसया  
चउद्वसपुवीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं सव्वक्खर-जाव-चउद्वसपुवीणं संपया हुत्था  
॥ १६५ ॥ पासस्स णं० चउद्वससया ओहिनाणीणं, दससया केवलनाणीणं, इक्कारससया  
वेउव्वियाणं, छस्सया रिउमईणं, दसंसमणसया सिद्धा, वीसं अज्जियासया सिद्धा,  
अद्धट्टमसया विउल्लमईणं, छसया वाईणं, बारससया अणुत्तरोववाइयाणं ॥ १६६ ॥  
पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स दुविहा अंतगडभूमी हुत्था, तंजहा-जुगंतगड-  
भूमी, परियायंतगडभूमी य, जाव चउत्थाओ पुरिसजुगाओ जुगंतगडभूमी, तिवा-  
सपरिआए अंतमकासी ॥ १६७ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसा-  
दाणीए तीसं वासाइं अगारवासमज्झे वसित्ता, तेसीइं राइंदिआइं छउमत्थपरिआयं

चित्तवहुले, तस्स णं चित्तवहुलस्स चउत्थीपक्खे णं पुव्वण्हकालसमयंसि धायइपायवस्स  
 अहे छट्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं विसाहाहिं नक्खत्तेणं जोगसुवागएणं झाणंतरिआए वट्ट-  
 माणस्स अणंते अणुत्तरे निवाघाए निरावरणे जाव केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने, जाव  
 जाणमाणे पासमाणे विहरइ ॥ १५९ ॥ पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स अट्ट गणा  
 अट्ट गणहरा हुत्था, तंजहा-सुभे य १ अज्जघोसे य २, वसिट्ठे ३ बंभयारि य ४। सोमे  
 ५ सिरिहरे ६ चैव, वीरभदे ७ जसेऽविय ८। ९ ॥ १६० ॥ पासस्स णं अरहओ पुरि-  
 स्सादाणीयस्स अज्जदिण्णपासुक्खाओ सोलसंसमणसाहस्सीओ उक्कोसिआ समणसंपया  
 हुत्था ॥ १६१ ॥ पासस्स णं अ० पुक्फचूलापासुक्खाओ अट्टत्तीसं अज्जियासाहस्सीओ  
 उक्कोसिआ अज्जियासंपया हुत्था ॥ १६२ ॥ पासस्स० सुवयपासुक्खाणं समणोवासगाणं  
 एगा सयसाहस्सीओ चउसट्ठिं च सहस्सा उक्कोसिआ समणोवासगाणं संपया हुत्था



उज्जाणे, जेणेव असो गवरपायवे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता असो गवरपायवस्स  
 अहे सीयं ठावेइ, ठावित्ता सीयाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता सयमेव आभरणमह्हालं-  
 कारं ओसुअइ, ओसुइत्ता सयमेव पंचमुट्टियं लोअं करेइ, करित्ता अट्टमेणं भत्तेणं  
 अप्पाणएणं विसाहाहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं एणं देवदूसमादाय तिहिं पुरिससएहिं  
 सच्चिं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पवइए ॥ १५७ ॥ पासे णं अरहा पुरिसादा-  
 णीए तेसीइं राइंदियाइं निच्चं वोसट्टुकाए चियत्तदेहे जे केइ उवसग्गा उप्पञ्जंति,  
 तंजहा-दिवा वा माणुस्सा वा तिरिक्खजोणिआ वा अणुलोमा वा पडिलोमा वा, ते  
 उप्पन्ने सम्मं सहइ खमइ तित्तिक्खइ आहियासेइ ॥ १५८ ॥ तएणं से पासे भगवं अणगारे  
 जाए इरियासमिए भासासमिए-जाव अप्पाणं भावेमाणस्स तेसीइं राइंदियाइं विइक्कं-  
 ताइं, चउंरासीइमै राइंदिए अंतरा वट्टमाणे जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्खे

१ चउरासीइमस्स राइंदिअस्स अंतरा वट्टमाणस्स ( क० कि०, क० सु० )

देवीहि य जाव उप्पिजलगभूया कहकहगभूया यावि हुत्था ॥ १५३ ॥ सेसं तहेव, नवरं  
 जम्मणं पासाभिलावेणं भाणिअधं, जाव तं होउ णं कुमारे पासे नामेणं ॥ १५४ ॥  
 पासे अरहा पुरिसादाणीए दक्खे दक्खपइन्ने पडिख्वे अल्लीणे भदए विणीए, तीसं  
 वासाइं अगारवासमज्जे वसित्ता पुणरवि लोगंतिएहिं जिअकप्पेहिं देवेहिं ताहिं इट्ठाहिं  
 जाव एवं वयासी ॥ १५५ ॥—“ जय जय नंदा, जय जय भद्दा, भदं ते ” जाव जय-  
 जयसदं पउंजंति ॥ १५६ ॥ पुविंपि णं पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स माणुस्स-  
 गाओ गिहत्थधम्माओ अणुत्तरे आभोइए तं चेव सधं—जाव दाणं दाइयाणं परिभाइत्ता  
 जे से हेमंताणं दुच्चे मासे तच्चे पक्खे पोसवहुले, तस्स णं पोसवहुलस्स इक्कारसीदिवसे  
 णं पुवण्हकालसमयंसि विसालाए सिविआए सदेवमणुआसुराए परिसाए, तं चेव  
 सधं, नवरं वाणारसिं नगरिं मज्झमज्जेणं निगगच्छइ, निगगच्छित्ता जेणेव आसमपए

रण्णो वामाए देवीए पुधरत्तावरत्तकालसमयंसि विसाहाहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं  
 आहारवक्कंतीए (ग्रं: ७००) भववक्कंतीए सरीरवक्कंतीए कुच्छिसि गब्भत्ताए वक्कंते ॥ १५० ॥  
 पासे णं अरहा पुरिसादाणीए तिन्नाणोवगए आवि हुत्था, तंजहा—चइस्सामिसि जाणइ,  
 चयमाणे न जाणइ, चुएमिसि जाणइ, तेणं चैव अभिलावेणं सुविणदंसणविहाणेणं सधं-  
 जाव—निअगं गिहं अणुपविट्ठा, जाव सुहंसुहेणं तं गब्भं परिवहइ ॥ १५१ ॥ तेणं कालेणं  
 तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए जे से हेमंताणं दुच्चे मासे तच्चे पक्खे पोसबहुले,  
 तस्स णं पोसबहुलस्स दसमीपक्खे णं नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अच्चट्टुमाणं राइ-  
 दिआणं विइक्कंताणं पुधरत्तावरत्तकालसमयंसि विसाहाहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं आरो-  
 ग्गा आरोगं दारयं पयाया ॥ १५२ ॥ जं रयणिं च णं पासे० जाए, सा रयणी बहुहिं देवेहिं

१ तं रयणिं च णं ( क० कि०, क० सु० )

इसे संवच्छरे काले गच्छइ, वायणंतरे पुण अयं तेणउए संवच्छरे काले गच्छइ  
इइ दीसइ ॥ १४७ ॥ (क० कि०, क० सु० १४८)

॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए पंचविसाहे हुत्था, तंजहा-  
विसाहाहिं चुए चइत्ता गवभं वक्कंते, विसाहाहिं जाए, विसाहाहिं मुंढे भवित्ता अगा  
राओ अणगारिअं पवइए, विसाहाहिं अणंते अणुत्तरे निवाघाए निरावरणे कसिणे  
पडिपुणे केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने, विसाहाहिं परिनिवुए ॥१४९॥ तेणं कालेणं तेणं  
समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्खे चित्तवहुले,  
तस्स णं चित्तवहुलस्स चउत्थीपक्खे णं पाणयाओ कप्पाओ वीसंसागरोवमट्टिइयाओ  
अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुद्वीवे दीवे भारहे वासे वाणारसीए नयरीए आससेणस्स

साइं छउसत्थपरियागं पाउणित्ता देसूणाइं तीसं वासाइं केवलिपरियागं पाउणित्ता,  
 बायालीसं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता बावत्तरि वासाइं सव्वाउयं पालइत्ता खीणे  
 वेयणिज्जाउयनामगुत्ते इमीसे ओसप्पिणीए दूसमसुसमाए समाए बहुविइक्कंताए तिहिं  
 वासेहिं अद्धनवमेहि य मासेहिं सेसेहिं पावाए मज्झिमाए हत्थिवालस्स रण्णो रज्जुयसभाए  
 एगे अभीए छट्टेणं भत्तेणं अपाणएणं साइणा नक्खत्तेणं जोगसुवागएणं पच्चूसकालसम-  
 यंसि संपलिअंकनिसण्णे पणपन्नं अज्झयणाइं कल्लाणफलविवागाइं पणपन्नं अज्झयणाइं  
 पावफलविवागाइं छत्तीसं च अपुट्टुवागरणाइं वागरित्ता पहाणं नाम अज्झयणं विभा-  
 वेमाणे २ कालगए विइक्कंते समुज्जाए छिन्नजाइजरामरणबंधणे सिद्धे बुद्धे सुत्ते अंत-  
 गडे परिनिवुडे सबुद्धुक्खप्पहीणे ॥ १४६ ॥ समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव  
 सबुद्धुक्खप्पहीणस्स नव वाससयाइं विइक्कंताइं, दसमस्स य वाससयस्स अयं असी-

णं भ० पंच सया विडलमईणं अड्डाइअेसु दीवेसु दोसु अ समुदेसु सन्नीणं पंचिदियाणं  
 पञ्जत्तगाणं मणोगए भावे जाणमाणाणं उक्कोसिआ विडलमईणं संपया हुत्था ॥ १४१ ॥  
 समणस्स णं भ० चत्तारि सया वार्इणं सदेवमणुआसुराए परिसाए वाए अपराजियाणं  
 उक्कोसिया वाइसंपया हुत्था ॥ १४२ ॥ समणस्स णं भगवओ० सत्त अंतेवासिसयाइं  
 सिद्धाइं जाव सधदुवखप्पहीणाइं, चउदस अजियासयाइं सिद्धाइं ॥ १४३ ॥ समणस्स  
 णं भग० अट्टु सया अणुत्तरोववाइयाणं गइकह्छाणाणं ठिइकह्छाणाणं आगमेसिभद्दाणं  
 उक्कोसिआ अणुत्तरोववाइयाणं संपया हुत्था ॥ १४४ ॥ समणस्स भ० दुविहा अंतगड-  
 भूमी हुत्था, तंजहा-जुगंतगडभूमी य, परियायंतगडभूमी य, जाव तच्चाओ पुरिसजु-  
 गाओ जुगंत०, चउवासपरियाए अंतमकासी ॥ १४५ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं  
 समणे भगवं महावीरे तीसं वासाइं अगारवासमज्झे वसित्ता साइरेगाइं दुवालस वा-

सयसाहस्सी अउणट्टिं च सहस्सा उक्कोसिया समणोवासगाणं संपया हुत्था  
 ॥ १३५ ॥ समणस्स भगवओ० सुलसारेवईपामुक्खाणं समणोवासिआणं तिन्नि सय-  
 साहस्सीओ अट्टारससहस्सा उक्कोसिआ समणोवासियाणं संपया हुत्था ॥ १३६ ॥  
 समणस्स णं भगवओ० तिन्नि सया चउदसपुवीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं सबक्खर-  
 सन्निवाईणं जिणो विव अवितहं वागरमाणाणं उक्कोसिआ चउदसपुवीणं संपया हुत्था  
 ॥ १३७ ॥ समणस्स० तेरस सया ओहिनाणीणं अइसेसपत्ताणं उक्कोसिया ओहिनाणि-  
 संपया हुत्था ॥ १३८ ॥ समणस्स णं भगवओ० सत्त सया केवलनाणीणं संभिणवरनाण-  
 दंसणधराणं उक्कोसिया केवलनाणिसंपया हुत्था ॥ १३९ ॥ समणस्स णं भ० सत्त सया  
 वेउवीणं अदेवाणं देविट्ठिपत्ताणं उक्कोसिया वेउवियसंपया हुत्था ॥ १४० ॥ समणस्स

भगवं महावीरि कालगए जाव सवदुखप्पहीणे, तं रयणिं च णं कुंथू अणुद्धरी नामं समु-  
 प्पन्ना, जा ठिया अचलमाणा छउमत्थाणं निगंथाणं निगंथीण य नो चक्खुफासं  
 हवमागच्छति, जा अठिआ चलमाणा छउमत्थाणं निगंथाणं निगंथीण य चक्खुफासं  
 हवमागच्छइ ॥ १३१ ॥ जं पासित्ता बहुहिं निगंथेहिं निगंथीहि य भत्ताइं  
 पच्चक्खायाइं, से किमाहु भंते ? अञ्जप्पभिइं संजमे डुराराहे भविस्सइ ॥ १३२ ॥  
 तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स इंदभूइपासुक्खाओ चउद्वस  
 ममणसाहस्सीओ उक्कोसिआ समणसंपया हुत्था ॥ १३३ ॥ समणस्स भगवओ महा-  
 वीरस्स अञ्जचंदणापासुक्खाओ छत्तीसं अञ्जियासाहस्सीओ उक्कोसिया अञ्जियासंपया  
 हुत्था ॥ १३४ ॥—समणस्स भगवओ० संखसयगपासुक्खाणं समणोवासगाणं एगा

१ डुराराहण ( ४० सु०, ४० कि० )



भगवं महावीरे कालगए जाव सबडुक्खप्पहीणे, तं रयणिं च णं नवमह्दुई नवलेच्छई कासी-  
 कोसलगा अट्टारसवि गणरायाणो अमावासाए पाराभीयं पोसहोववासं पट्टुविंसु, गए से  
 भावुञ्जोए, दब्बुञ्जोअं करिस्सामो ॥ १२७ ॥ जं रयणिं च णं समणे जाव सबडुक्खप्पहीणे,  
 तं रयणिं च णं खुद्दाए भासरासी नाम महग्गहे दोवाससहस्सठिई समणस्स भगवओ  
 महावीरस्स जम्मनक्खत्तं संकंते ॥ १२८ ॥ जप्पभिइं च णं से खुद्दाए भासरासी मह-  
 ग्गहे दोवाससहस्सठिई समणस्स भगवओ महावीरस्स जम्मनक्खत्तं संकंते, तप्पभिइं  
 च णं समणाणं निग्गंथाणं निग्गंथीण य नो उदिए २ पूआसक्कारे पवत्तइ ॥ १२९ ॥  
 जया णं से खुद्दाए जाव जम्मनक्खत्ताओ विइक्कंते भविस्सइ, तथा णं समणाणं निग्गं-  
 थाणं निग्गंथीण य उदिए २ पूआसक्कारे भविस्सइ ॥ १३० ॥ जं रयणिं च णं समणे

दिवसे उवसमिति पवुच्चइ, देवाणंदा नामं सा रयणी निरतिंति पवुच्चइ, अच्चे लवे  
 सुहुत्ते पाणू थोवे सिद्धे नागे करणे सवहुसिद्धे सुहुत्ते साइणा नखत्तेणं जोगसुवागए  
 णं कालगए विइकंते जाव सवहुक्खप्पहीणे ॥ १२३ ॥ जं रयणिं च णं समणे भगवं  
 महावीरे कालगए जाव सवहुक्खप्पहीणे सा णं रयणी बहुहिं देवेहिं देवीहि य औवय-  
 माणेहि य उप्पयमाणेहि य उज्जीविया आवि हुत्था ॥ १२४ ॥ जं रयणिं च णं समणे  
 भगवं महावीरे कालगए जाव सवहुक्खप्पहीणे, सा रयणी बहुहिं देवेहि य देवीहि य  
 औवयमाणेहिं उप्पयमाणेहि य उप्पिजलगभूआ कहकहगभूआ आवि हुत्था ॥ १२५ ॥  
 जं रयणिं च णं समणे भगवं महावीरे कालगए जाव सवहुक्खप्पहीणे, तं रयणिं च णं  
 जिहुत्स गोअमस्स इंदभूइस्स अणगारस्स अंतेवासिस्स नायए पिञ्जबंधणे वुच्छिन्ने,  
 अणंतं अणुत्तरे जाव केवलवरणाणंदंसणे समुप्पन्ने ॥ १२६ ॥ जं रयणिं च णं समणे

उवागए, रायगिहं नगरं नालंदं च बाहिरियं नीसाए चउद्दस अंतरावासे वासावासं उवा-  
 गए, छ मिहिलीए दो भदिआए एगं आलंभियाए एगं सावत्थीए पणिअभूमीए  
 एगं पावाए मब्झिमाए हत्थिवालस्स रण्णो रञ्जुगसभाए अपच्छिमं अंतरावासं वासावासं  
 उवागए ॥ १२१ ॥ तत्थ णं जे से पावाए मब्झिमाए हत्थिवालस्स रण्णो रञ्जुगसभाए  
 अपच्छिमं अंतरावासं वासावासं उवागए ॥ १२२ ॥ तस्स णं अंतरावासस्स जे से  
 वासाणं चउत्थे मासे सत्तमे पक्खे कत्तिअबहुले, तस्स णं कत्तियबहुलस्स पन्नरसीप-  
 क्खेणं जा सा चरमा रयणी, तं रयणिं च णं समणे भगवं महावीरे कालगए विइक्कते  
 समुञ्जाए छिन्नजाइजरामरणबंधणे सिद्धे बुद्धे मुत्ते अंतगडे परिनिवुडे सब्बदुक्खप्पहीणे,  
 चंदे नामं से दुच्चे संवच्छरे पीइवद्धणे मासे नंदिवद्धणे पक्खे अग्गिवेसे नामं से

मुवागएणं झाणंतरिआए वट्टमाणस्स अणंते अणुत्तरे निधाघाए निरावरणं कसिणे  
 पडिपुण्णे केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने ॥ ११९ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे  
 भगवं महावीरे अरहा जाए, जिणे केवली सधन्नू सधदरिसी सदेवमणुआसुरस्स लोगस्स  
 परिआयं जाणइ पासइ सधलोए सधजीवाणं आगइं गइं ठिइं चवणं, उववायं तक्कं मणो  
 माणसिअं भुत्तं कडं पडिसेवियं आवीकम्मं रहोकम्मं, अरहा अरहस्स भागी, तं तं कालं  
 मणवयकायजोगे वट्टमाणणं सधलोए सधजीवाणं सधभावे जाणमाणे पासमाणे  
 विहरइ ॥ १२० ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आट्टियगामं नीसाए  
 पढमं अंतरावासं वासावासं उवागए, चंपं च पिट्टुचंपं च नीसाए तओ अंतरावासे  
 वासावासं उवागए, वेसालिं नगरिं वाणियगामं च नीसाए दुवालस अंतरावासे वासावासं

१ ताणं समणे भगवं महावीरे ( क० कि०, क० सु० )

अणुत्तरेणं चरित्तेणं अणुत्तरेणं आलएणं अणुत्तरेणं विहारेणं अणुत्तरेणं वीरिएणं  
अणुत्तरेणं अञ्जवेणं अणुत्तरेणं मद्दवेणं अणुत्तरेणं लाघवेणं अणुत्तराए खंतीए  
अणुत्तराए सुत्तीए अणुत्तराए गुत्तीए अणुत्तराए तुट्टीए अणुत्तरेणं सच्चसंजमत्वसु-  
चरिअसोवचिअफलनिष्ठाणमग्गेणं, अप्पाणं भावेमाणस्स दुवालस संवच्छराइं विइक्कं-  
ताइं तेरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा वट्टमाणस्स जे से गिम्हाणं दुच्चे मासे चउत्थे  
पक्खे वइसाहसुद्धे तस्स णं वइसाहसुद्धस्स दसमीपक्खेणं पाईणगामिणीए छायाए  
पोरिसीए अभिनिविट्टाए पमाणपत्ताए सुव्वएणं दिवसेणं विजएणं मुहुत्तेणं जंभियगामस्स  
नगरस्स बहिआ उज्जुवालियाए नईए तीरे वेयावत्तस्स चेइअस्स अदूरसामंते सामा-  
गस्स गाहावईस्स कट्टकरणंसि सालपायवस्स अहे गोदोहिआए उक्कड्डुअनिसिज्जाए  
आयावणाए आयावेमाणस्स छट्टेणं भत्तेणं अपाणएणं हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं जोग-

ओ णं समए वा आवलिआए वा आणापाणुए वा थोवे वा खणे वा लवे वा मुहुत्ते वा अहोरत्ते वा पक्खे वा मासे वा उडए वा अयणे वा संवच्छरे वा अन्नयरे वा दीहकालसंजोए, भावओ णं कोहे वा माणे वा मायाए वा लोभे वा भए वा पिञ्जे वा दोसे वा कलहे वा अब्भक्खाणे वा पेसुन्ने वा परपरिवाए वा अरइरई वा मायामोसे वा मिच्छादंसणसह्जे वा ( अं० ६०० ) तस्स णं भगवंतस्स नो एवं भवइ ॥ ११७ ॥ से णं भगवं वासावासवञ्जं अट्टु गिम्हहेमंतिए मासे गासे एगराइए नगरे पंचराइए वासीचंदणसमाणकप्पे समतिणंमणिलेट्टुकंचणे समडुक्खसुहे इहलोगपरलोगअप्पडि- च्छे जीवियमरणे अ निरवकंखे संसारपारगामी कम्मसत्तुनिग्घायणट्टाए अब्भुट्टिए एवं च णं विहरइ ॥ ११८ ॥ तस्स णं भगवंतस्स अणुत्तरेणं नाणेणं अणुत्तरेणं दंसणेणं

१ उज वा ( क० कि०, क० सु० ) २ समसुहदुक्खे ( क० कि०, क० सु० ) ३० मरणा नि० ( क० कि०, क० सु० )

अणुत्तरेणं चरित्तेणं अणुत्तरेणं आलएणं अणुत्तरेणं विहारेणं अणुत्तरेणं वीरिएणं  
अणुत्तरेणं अञ्जवेणं अणुत्तरेणं मद्दवेणं अणुत्तरेणं लाघवेणं अणुत्तरेणं खंतीए  
अणुत्तरेणं सुत्तीए अणुत्तरेणं गुत्तीए अणुत्तरेणं तुट्टीए अणुत्तरेणं सच्चसंजर्मतवसु-  
चरिअसोवचिअफलनिवाणमग्गेणं, अप्पाणं भावेमाणस्स दुवालस संवच्छराइं विइक्कं-  
ताइं तेरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा वट्टमाणस्स जे से गिम्हाणं दुच्चे मासे चउत्थे  
पक्खे वइसाहसुद्धे तस्स णं वइसाहसुद्धस्स दसमीपक्खेणं पाईणगामिणीए छायाए  
पोरिसीए अभिनिविट्टाए पमाणपत्ताए सुवएणं दिवसेणं विजएणं सुहुत्तेणं जंभियगामस्स  
नगरस्स बहिआ उज्जुवालियाए नईए तीरे वेयावत्तस्स चेइअस्स अदूरसामंते सामा-  
गरस्स गाहावईस्स कट्टकरणंसि सालपायवस्स अहे गोदोहिआए उक्कडुअनिसिआए  
आयावणाए आयावेमाणस्स छट्टेणं भत्तेणं अपाणएणं हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं जोग-

उच्यसंगा उप्यञ्जति, तंजहा-दिवा वा माणुसा वा तिरिक्खजाणिआ वा, अणुलोमा वा पडिलोमा वा, ते उप्यन्ने सम्मं सहइ खमइ तित्तिक्खइ अहियासेइ ॥ ११५ ॥  
 तएणं समणे भगवं महावीरे अणगारे जाए, इरियासमिए भासासमिए एसणासमिए आयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिए उच्चारपासवणखेलसंघाणजल्लुपारिदुवावणियासमिए मण-  
 समिए वयसमिए कायसमिए मणगुत्ते वयगुत्ते कायगुत्ते गुत्ते गुत्तिंदिए गुत्तवंभयारी अक्कोहे अमाणे अमाए अलोहे संते पसंते उवसंते परिनिवुडे अणासवे अममे अकिंचणे छिन्नगंथे निरुवलेवे, कंसपाई इव मुक्कतोए, संखे इव निरंजणे, जीवे इव अप्पडिहयगई, गगणमिव निरालंबणे, वाऊ इव अप्पडिवद्धे, सारयसलिलं व सुद्धहि-  
 याए, पुक्खरपत्तं व निरुवलेवे, कुम्मे इव गुत्तिंदिए, खग्गिविसाणं व एगजाए, विहग

१ छिण्णमोए ( क० कि० )



इव विप्पमुक्के, भारंडपक्खी इव अप्पमत्ते, कुंजरे इव सोंडीरे, वसहे इव जायथामे,  
 सीहे इव दुच्चरिसे, मंदरे इव<sup>१-२</sup> निक्कंपे, सागरे इव गंभीरे, चंदे इव सोमलेसे, सूरे इव  
 दित्ततेए, जच्चकणगं व जायख्वे, वसुंधरा इव सवफासविसहे, सुहुयहुयासणे इव  
 तेयसा जलंते ॥ ११६ ॥ इमेसिं पयाणं दुन्नि संगहणिगाहाओ—“कसें संखे जीवे, गगणे  
 वाऊ य सरयसलिले अ । पुक्खरपत्ते कुम्मे, विहगे खण्णे य भारंडे ॥ १ ॥ कुंजर वसहे  
 सीहे, नगराया चेव सागर-मखोहे । चंदे सूरे कण्णे, वसुंधरा चेव हूयवहे ॥ २ ॥”  
 नत्थि णं तस्स भगवंतस्स कत्थइ पडिबंधे-से अ पडिबंधे चउविहे पन्नत्ते, तंजहा-  
 द्धओ, खित्तओ, कालओ, भावओ । द्धओ णं सचित्ताचित्तमीसेसु द्धेसु, खित्तओ णं  
 गामे वा नगरे वा अरण्णे वा खित्ते वा खले वा घरे वा अंगणे वा नहे वा, काल-

१-२ अप्पकंपे १ नेमे तत्र गाथे

उवसग्गा उप्पञ्जांति, तंजहा-दिवा वा माणुसा वा तिरिक्खजाणिआ वा, अणुलोमा वा पडिलोमा वा, ते उप्पन्ने सम्मं सहइ खमइ त्तिक्खइ अहियासेइ ॥ ११५ ॥  
 तएणं समणे भगवं महावीरे अणगारे जाए, इरियासमिए भासासमिए एसणासमिए आयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिए उच्चारपासवणखेलसंधाणजहूपारिट्ठुवणियासमिए मण-  
 समिए वयसमिए कायसमिए मणगुत्ते वयगुत्ते कायगुत्ते गुत्ते गुत्तिंदिए गुत्तवंभयारी अकंहे अमाणे अमाए अलोहे संते पसंते उवसंते परिनिधुडे अणासवे असमे अकिंचणे छिन्नंगंथे निरुवलेवे, कंसपाई इव सुक्कतोए, संखे इव निरंजणे, जीवे इव अप्पडिहयगई, गगणमिव निरालंबणे, वाऊ इव अप्पडिवद्धे, सारथसलिलं व सुद्धहि-  
 यए, पुक्खरपत्तं व निरुवलेवे, कुम्मे इव गुत्तिंदिए, खग्गिविसाणं व एगजाए, विहग

१ छिन्नासोए ( क० कि० )

साए सवतुडियसदसन्निनाएणं महया इड्डीए महया जुइए महया बलेणं महया वाहणेणं  
 महया समुदएणं महया वरतुडियजमगसमगप्पवाइएणं संखपणवपडहभेरिझ्झरिखरमुहि-  
 ह्हुक्कुडुडुहिनिग्घोसनाइयरवेणं कुंडपुरं नगरं मज्झंमज्झेणं निगगच्छइ, निगगच्छिता जेणेव  
 नायसंडवणे उज्जाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ ॥ ११३ ॥ उवागच्छिता  
 असोगवरपायवस्स अहे सीयं ठावेइ, ठावित्ता सीयाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता सयमेव  
 आभरणमल्लालंकारं ओमुअइ, ओमुइत्ता सयमेव पंचमुट्टियं लोअं करेइ, करित्ता  
 छट्टेणं भत्तेणं अपाणएणं हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं एणं देवदूसमादाय एणे  
 अवीए सुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिअं पवइए ॥ ११४ ॥ समणे भगवं महावीरे  
 संवच्छरं साहियं मासं जाव चीवरधारी होत्था, तेण परं अचेलए पाणिपडिग्गहिए ॥  
 समणे भगवं महावीरे साइरेगाइं दुवालस वासाइं निच्चं वोसट्टुकाए चियत्तदेहे जे केइ

खंतिखसे भयभेरवाणं, धम्मे ते अविग्धं भवउ "त्तिकहु जयजयसदं पउंजंति ॥ ११२ ॥  
 तएणं समणे भगवं महावीरे नयणमालासहस्सेहिं पिच्छिज्जमाणे २, वयणमालासह-  
 स्सेहिं अभिशुवमाणे २, हियथमालासहस्सेहिं उन्नंदिज्जमाणे २, मणोरहमालासहस्सेहिं  
 विच्छिप्पमाणे २, कंतिरुवगुणेहिं पत्थिज्जमाणे २, अंगुलिमालासहस्सेहिं दाइज्जमाणे २,  
 दाहिणहत्थेणं बहूणं नरनारीसहस्साणं अंजलिमालासहस्साइं पडिच्छमाणे २, भवण-  
 पंतिसहस्साइं समइच्छमाणे २, तंतीतलतालतुडियगीयवाइअरवेणं महुरेण य मणहरेणं  
 जयजयसद्दधोसमीसिएणं मंजुमंजुणाघोसेणय पडिबुज्जमाणे २, सविड्डीए सवजुईए सव-  
 वलेणं सववाहणेणं सवसमुदएणं सवाथरेणं सवविभूईए सवसंभमेणं सवसं-  
 गमेणं सवपगईहिं सवनाडएहिं सवतालायरेहिं सवोरोहेणं सवपुप्फगंधमह्हालंकारविभू-

१ अभिमवित्र गामकंदए ( क० कि० ) २ आशुच्छिज्जमाणे ( क० कि० ) ३ वत्थमह्हा०

पुगम्समाणमग्ने संखियचक्खियनंगलिअमुहमंगलियवद्धमाणपूसमाणघंटियगणेहिं, ताहिं  
इट्टाहिं कंताहिं पियाहिं मणुन्नाहिं मणोमाहिं उरालाहिं कल्लाणाहिं सिवाहिं धन्नाहिं मंगल्लाहिं  
मिअमहुरसस्सिसरीआहिं वग्गूहिं अभिनंदमाणा अभिथुवमाणा य एवं वयासी ॥ १११ ॥—

“ जय २ नंदा !, भद्वं ते खत्तियवरवसहा ! अभग्गेहिं नाणदंसणचरित्तेहिं,  
अजियाइं जिणाहि इंदियाइं, जिअं च पालेहि समणधम्मं, जियविग्घोवि य वसाहि तं  
देव ! सिद्धिमज्झे, निहणाहि रागदोसमल्ले तवेणं धिइधणिअबद्धकच्छे, मद्दाहि अट्टकम्म-  
सत्तू ज्ञाणेणं उत्तमेणं सुक्केणं, अप्पमत्तो हराहि आराहणपडागं च वीर ! तेलुक्करंगमज्झे,  
पावय वित्तिमिरमणुत्तरं केवलवरनाणं, गच्छ य सुक्खं परं पयं जिणवरोवइट्टेणं मग्गेणं  
अकुडिलेणं हंता परीसहचमूं, जय २ खत्तिअवरवसहा ! बहुइं दिवसाइं बहुइं पक्खाइं  
बहुइं मासाइं बहुइं उळइं अयणाइं बहुइं संवच्छराइं, अभीए परीसहोवसग्गाणं,

जयसहं पंडजंति ॥ १०९ ॥ पुषिंपि णं समणस्स भगवओ महावीरस्स माणुस्सगाओ गिहत्थयम्मआओ अणुत्तरे आभोइए अप्पडिवाई नाणदंसणे हुत्था, तएणं समणे भगवं महावीरे तेणं अणुत्तरेणं आभोइएणं नाणदंसणेणं अप्पणो निक्खमणकालं आभोएइ, आभोइत्ता चिच्चा हिरणं, चिच्चा सुवणं, चिच्चा धणं, चिच्चा रज्जं, चिच्चा रट्टं, एवं बलं वाहणं कोसं कुट्टागारं, चिच्चा पुरं, चिच्चा अंतैउरं, चिच्चा जणवयं, चिच्चा विपुलधणकणगर-यणमणिमुत्तियसंखसिलप्पालरत्तरथणमाइयं संतसारसावइज्जं, विच्छड्डइत्ता, विगोवइ-त्ता, दाणं दायारेहिं परिभाइत्ता दाणं दाइयाणं परिभाइत्ता ॥ ११० ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जे से हेमंताणं पढमे मासे पढमे पक्खे मग्गसिरवहुले, तस्स णं मग्ग-सिरवहुलस्स दसमीपक्खेणं पाईणगामिणीए छायाए पोरसीए अभिनिवट्टाए पमाणपत्ताए सुवएणं दिवसेणं विजएणं मुहुत्तेणं चंदप्पभाए सीआए सदेवमणुआसुराए परिसाए सम-

भगवओ महावीरस्स नत्तुई कोसिअ(कासव)गुत्तेणं, तीसे णं दुवे नामधिञ्जा एवमाहिञ्जंति,  
तंजहा-सेसवई इ वा, जसवई इ वा ॥ १०७ ॥ समणे भगवं महावीरे दक्खे दक्खपइन्ने  
पडिरूवे आलीणे भइए विणीए नाए नायपुत्ते नायकुलचंदे विदेहे विदेहदिन्ने विदेहजच्चे  
विदेहसूमाले तीसं वासाइं विदेहंसि कट्टु अम्मापिउहिं देवत्तगएहिं गुरुमहत्तरएहिं अब्भ-  
णुन्नाए समत्तपइन्ने पुणरवि लोगतिएहिं जीअकप्पिएहिं देवेहिं ताहिं इट्टाहिं कंताहिं  
पिआहिं मणुन्नाहिं मणामाहिं उरालाहिं कट्टाणाहिं सिवाहिं धन्नाहिं मंगल्लाहिं मिअमहुरस-  
स्सिरीआहिं हिययंगमणिञ्जाहिं हिययपल्हायणिञ्जाहिं गंभीराहिं अपुणरुत्ताहिं वग्गूहिं  
अणवरयं अभिनंदमाणा य अभिशुद्धमाणा य एवं वयासी ॥१०८॥-“ जय २ नंदा !, जय  
२ भद्दा !, भदंते, जय २ खत्तिअवरवसहा !, बुद्धाहि भगवं लोगनाहा !, सयलजगञ्जीव-  
हियं पवत्तेहि धम्मत्तिथं, हियसुहानिस्सेयसकरं सव्वलोए सव्वजीवाणं भविस्सइत्तिकट्टु जय-

तस्स णं तओ नामधिजा एवमाहिञ्जंति, तंजहा-अम्मापिडसंतिए वद्धमाणे, सहससमुह-  
 आए समणे, अयले भयभैरवाणं परीसहोवसग्गाणं खंतिखमे पडिमाणे पालगे  
 धीमं अरइरइसहे दविए वीरिअसंपन्ने देवेहिं से नामं कयं 'समणे भगवं महावीरे'  
 ॥ १०६ ॥ समणस्स णं भगवओ महावीरस्स पिआ कासवगुत्तेणं, तस्स णं तओ  
 नामधिजा एवमाहिञ्जंति, तंजहा-सिद्धत्थे इ वा, सिञ्जंसे इ वा, जसंसे इ वा ॥ समण-  
 स्स णं भगवओ महावीरस्स माया वासिट्ठी गुत्तेणं, तीसे तओ नामधिजा एवमाहिञ्जंति,  
 तंजहा-तिसला इ वा, विदेहदिन्ना इ वा, पिअकारिणी इ वा ॥ समणस्स णं भगवओ  
 महावीरस्स पितिजे सुपासे, जिट्ठे भाया नंदिवद्धणे, भगिणी सुदंसणा, भारिया  
 जसोआ कोडिन्ना गुत्तेणं ॥ समणस्स णं भगवओ महावीरस्स धूआ कासवी गुत्तेणं, तीसे  
 दो नामधिजा एवमाहिञ्जंति, तंजहा-अणोज्जा इ वा, पियदंसणा इ वा ॥ समणस्स णं



सुइभूआ तं मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरिजणं नायए खत्तिए य विउलेणं पुप्फगंध-  
 वत्थमह्वालंकारेणं सक्कारिंति संमाणिंति सक्कारित्ता संमाणित्ता तस्सेव मित्तनाइनियय-  
 सयणसंबंधिपरियणस्स नायाणं खत्तिआण य पुरओ एवं वयासी ॥ १०३ ॥—पुद्धिंपि णं  
 देवाणुप्पिया ! अम्हं एयंसि दारगंसि गब्भं वक्कंतंसि समाणंसि इमेयारूवे अब्भत्थिए  
 चिंतिए जाव समुप्पञ्चित्था—जप्पभिइं च णं अम्हं एस दारए कुच्छिसि गब्भत्ताए  
 वक्कंते, तप्पभिइं च णं अम्हे हिरण्णेणं वड्डामो सुवण्णेणं धणेणं जाव सावइञ्जेणं  
 पीइसक्कारेणं अईव २ अभिवड्डामो, सामंतरायाणो वसमागया य, तं जया णं अम्हं एस  
 दारए जाए भविस्सइ, तथा णं अम्हे एयस्स दारगस्स इमं एयाणुरूवं गुणं गुणनिप्फन्नं  
 नामधिञ्जं करिस्सामो वद्धमाणुत्ति ॥ १०४ ॥ ता अञ्ज अम्ह मणोरहसंपत्ती जाया, तं  
 होउ णं अम्हं कुमारे वद्धमाणे नामेणं ॥ १०५ ॥ समणे भगवं महावीरे कासवगुत्तेणं,

वओ महावीरस्स अम्मापियरो पढमे दिवसे ठिइवडियं करिति, तइए दिवसे चंदसूरदं-  
 सणिअं करिति, छट्टे दिवसे धम्मजागरियं करिति, इक्कारसमे दिवसे विइकंते निवत्तिए  
 असुइजम्मकम्मकरणे, संपत्ते वारसाहे दिवसे, विउलं असणपाणखाइमसाइमं उवक्खडाविं-  
 ति, उवक्खडावित्ता मित्तनाइनिययसयणसंबंधिपरिजणं नाए य खत्तिए अ आमंत्तिता  
 तओ पच्छा ण्हाया कयवलिकम्मा कयकोउयमंगलपायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाइं  
 पवराइं वत्थाइं परिहिया अप्पमहग्घाभरणाळं कियसरीरा भोअणवेलाए भोअणमंडवंसि  
 सुहासणवरगया तेणं मित्तनाइनिययसंबंधिपरिजणेणं नायएहिं खत्तिएहिं सद्धिं तं  
 विउलं असणपाणखाइमसाइमं आसाएमाणा विसाएमाणा परिभाएमाणा परिभुंजेमाणा  
 एवं वा विहरंति ॥ १०२ ॥ जिमिअभुत्तुरा गयाविअ णं समाणा आयंता चुक्खा परम-

१ जागरिति ( क० कि० सु० )

गच्छिता जाव सधोरोहेणं सधपुप्फगंधवत्थमल्लालंकारविभूसाए सधतुडिअसदनिनाएणं  
 महया इड्डीए महया जुइए महया बलेणं महया वाहणेणं महया समुदएणं महया वरतुडि-  
 अजमगसमगपवाइएणं संखपणवभेरिइल्लरिखरमुहिहुडुक्कसुरजमुइंगडुडुहिनिग्घोसना-  
 इयरवेणं उस्सुक्कं उक्करं उक्किटुं अदिज्जं अमिज्जं अभडप्पवेसं अदंडकोदंडिमं अधरिमं  
 गणिआवरनाडइज्जकलियं अणेगतालायराणुचरिअं अणुडुअमुइंगं, (ग्रं. ५००) अमिलाय-  
 मल्लदामं पमुइअपक्कीलियंसपुरजणजाणवयंदसदिवसं ठिईवडियं करेइ ॥ तएणंसे सिद्धत्थे  
 राया दसाहियाए ठिईवडियाए वट्टमाणीए सइए य साहस्सिए य सयसाहस्सिए य जाए  
 य दाए य भाए अ दलमाणे अ द्वावेमाणे अ, सइए अ साहस्सिए अ सयसाहस्सिए  
 य लंभे पडिच्छमाणे य पडिच्छावेमाणे य एवं विहरइ ॥ १०१ ॥ तएणं समणस्स भग-

१ अहरिमं ( क० कि० ) २ अगणिअवरनाडइज्जकलियं ( क० कि० ) ३ जणाभिरामं ( क० कि० )

आसत्तोसत्तविपुलवद्ववधारियमहृदामकलावं पंचवणसरससुरभिमुक्कपुप्फुंजीवयारक-  
 लिअं कालागुरुपवरकुंडुरुक्कतुरुक्कड्झंतधूवमधमधंतगंधुहुआभिरामं सुगंधवरगंधिअं  
 गंधवंद्विभ्रुअं नडनद्वगजल्लमल्लमुट्टियवेलंवगकहगपाढगलासगआरर्वखगलंखमंखतूणइ-  
 ल्लतुंववीणियअणेगतालायराणुचरिअं करेह कारवेह, करित्ता कारवेत्ता य जूअसहस्सं  
 मुसल्लसहस्सं च उस्सवेह, उस्सवित्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणेह ॥ ९९ ॥ तएणं ते  
 कोडुवियपुरिसां सिद्धत्थेणं रण्णा एवंवुत्ता समाणा हट्ठा जाव हिअया करयल-जाव-पडि-  
 सुणित्ता खिप्पामेव कुंडपुरे नगरे चारगसोहणं जाव उस्सवित्ता जेणेव सिद्धत्थे राया (खत्ति-  
 ए) तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल जाव कट्टु सिद्धत्थस्स रण्णो एयमाणत्तियं  
 पच्चप्पिणंति ॥ १०० ॥ तएणं से सिद्धत्थे राया जेणेव अट्टणसाला तेणेव उवागच्छइ, उवा-

र वासं च वंथवासं च आभरणवासं च पत्तवासं च पुष्पवासं च फलवासं च बीअवासं च म-  
 ल्हावासं च गंधवासं च चुण्णवासं च वण्णवासं च वसुहारावासं च वासिसु ॥९७॥ तैएणं से सि-  
 द्धत्थे खत्तिए भवणवइवाणमंतरजोइसवेमाणिएहिं देवेहिं तित्थयरजम्मणाभिसेयमहिमाए  
 कयाए संमाणीए पच्चसकालसमयंसि नगरगुत्तिए सद्दवेइ सद्दवित्ता एवं वयासी ॥९८॥  
 -खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! कुंडपुरे नगरे चारगसोहणं करेह, करित्ता माणुम्माणवद्धणं  
 करेह, माणुम्माणवद्धणं करित्ता कुंडपुरं नगरं सडिभतरवाहिरियं आसियसम्मञ्जिओव-  
 लित्तं संघाडगतिगं च उक्कचच्चरचउम्मुहमहापहपहेसु सित्तसुइसंमट्टरत्थं रावणवीहियं मंचा-  
 इमंचकलिअं नाणाविहरागभूसिअञ्जयपडागमंडिअं लाउड्डोइयमहिअं गोसीसंसरसरत्त-  
 चंदणदइरदिन्नपंचंगुलित्तलं उवाचियचंदणकलसं चंदणघडेसुकयतोरणपडिडुवारदेसभागं

१ धण्णवासं च (क० कि०) २ पिअट्ठयाए पिअं निवेएमो, पिअं मे भवउ मउडवज्जं जहामालिअं ओमथं मत्थए घोअइ (क० कि०)

महावीरे जे से गिम्हाणं पढमे मासे दुचे पखे चित्तसुद्धे तस्स णं चित्तसुद्धस्स तेरसी-  
दिवसेणं नवण्हं मासाणं बहुपडिपुणाणं अद्धुमाणं राइदियाणं विइक्कंताणं उच्चट्टाणगएसु  
गहेसु पढमे चंदजोए सोमासु दिसासु वितिमिरासु विमुद्धासु जइएसु सवसउणेसु  
पयाहिणाणुक्खलंसि भूमिसप्पिसि मारुयंसि पवायंसि निप्फन्नमेइणीयंसि कालंसि पमु-  
इयपक्कीलएसु जणवएसु पुधरत्तावरत्तकालसमयंसि हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं जोगसुवा-  
गएणं आरुग्गा आरुग्गं दारयं पयाया ॥ जं रयणिं च णं समणे भगवं महावीरि जाए, सा णं  
रयणी बहूहिं देवेहिं देवीहिं य ओवयंतेहिं उप्पयंतेहिं य उप्पिजलमाणभूआ कहकहग-  
भूआ आवि हुत्था ॥९६॥ जं रयणिं च णं समणे भगवं महावीरि जाए तं रयणिं च णं बहवे  
वेसमणकुंडधारी तिरियजंभगा देवा सिद्धत्थारायभवंणंसि हिरणवासांच सुवण्णवासांच च वय-

१० लमाला० ( क० कि० ) देवुज्जोए एगालोए देवसन्निवाए उप्पिजल० ( क० कि० )

जीवतेहिं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिअं पवइत्तए ॥ ९४ ॥ तएणं सा तिसला खत्ति-  
 याणी ण्हाया कयबलिकम्मा कयकोउयमंगलपायच्छित्ता सवालंकारविभूसिया तं गब्भं  
 नाइसीएहिं नाइउण्हेहिं नाइत्तिहेहिं नाइकडुएहिं नाइकसाइएहिं नाइअंबिलेहिं नाइमडु-  
 रेहिं नाइनिच्चेहिं नाइलुकुखेहिं नाइउल्लेहिं नाइसुक्केहिं सबत्तुगभयमाणसुहेहिं भोयणच्छा-  
 यणगंधमल्लेहिं ववगयरोगसोगमोहभयपरिस्समा जं तरस्स गब्भस्स हिअं मियं पत्थं  
 गब्भपोसणं तं देसे अ काले अ आहारमाहारेमाणी विवित्तमउएहिं सयणासणेहिं पइरि-  
 क्कसुहाए मणोऽणुकूलाए विहारभूमीए पसत्थदोहला संपुण्णदोहला संमाणियदोहला अवि-  
 माणिअदोहला बुच्छिन्नदोहला ववणीअदोहला सुहंसुहेणं आसइ सयइ चिट्ठइ निसीअइ  
 तुयट्ठइ विहरइ सुहंसुहेणं तं गब्भं परिवहइ ॥ ९५ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं

निष्फंदे निरयणे अह्दीणपह्दीणगुत्ते आवि होत्था ॥ ९१ ॥ तएणं तीसे तिसलाए खत्ति-  
 याणीए अयमेयारूवे जाव संकप्पे संसुप्पञ्चित्था-हडे मे से गब्भे, मडे मे से गब्भे, चुए मे  
 से गब्भे, गलिए मे से गब्भे, एस मे गब्भे पुधिं एयइ, इयाणिं नो एयइ त्तिकहु ओहयमण-  
 संकप्पा चिंतासोगसागरसंपविट्ठा करयलपल्हत्थसुही अट्टञ्जाणोवगया भूमीगयदिट्ठिया  
 द्वियायइ, तंपि य सिद्धत्थरायवरभवणं उवरयसुइंगंततीतलतालनाडइअजणमणुअं दीण-  
 विमणं विहरइ ॥९२॥ तएणं से समणे भगवं महावीरे माऊए अयमेयारूवं अब्भत्थिअं  
 पत्थिअं मणोगयं संकप्पं संसुप्पन्नं वियाणित्तां एगदेसेणं एयइ, तएणं सा तिसला खत्ति-  
 याणी हट्टुत्तुट्ठा जाव हयहिअया एवं वयासी ॥९३॥-नो खलु मे गब्भे हडे जाव नो गलिए,  
 मे गब्भे पुधिं नो एयइ, इयाणिं एयइ त्तिकहु हट्टु जाव एवं विहरइ, तएणं समणे भगवं महा-  
 वीरे गब्भत्थे चेव इमेयारूवं अभिगहं अभिगिण्हइ- नो खलु मे कप्पइ अम्मापिउहिं



कोट्टागारेणं पुरेणं अंतोडरेणं जणवएणं जसवाएणं वड्ढित्था, विपुलधणकणगरयणमणि-  
 मोत्तियसंखसिलप्पवालरत्तरयणमाइएणं संतसारसावइज्जेणं पीइसक्कारसमुदएणं अईव  
 २ अभिवाड्ढित्था, तएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अम्मापिऊणं अयमेयारूवे  
 अब्भत्थिए चित्थिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था ॥ ८९ ॥ जप्पभिइं च णं अम्हं  
 एस दारए कुच्छिसि गब्भत्ताए वक्कते, तप्पभिइं च णं अम्हे हिरण्णेणं वड्ढामो सुवण्णेणं  
 धणेणं धन्नेणं रज्जेणं रट्टेणं बलेणं वाहणेणं कोसेणं कुट्टागारेणं पुरेणं अंतोडरेणं  
 जणवएणं जसवाएणं वड्ढामो, विपुलधणकणगरयणमणिमुत्तियसंखसिलप्पवालरत्तरयण-  
 माइएणं संतसारसावइज्जेणं पीइसक्कारेणं अईव २ अभिवड्ढामो, तं जया णं अम्हं एस दारए  
 जाए भविस्सइ, तथा णं अम्हे एयस्स दारगस्स एयाणुरूवं गुण्णं गुणनिप्फन्नं नामाधिज्जं  
 करिस्सामो वड्ढमाणुत्ति ॥ ९० ॥ तएणं समणे भगवं महावीरे माडअणुकंपणट्टाए निच्चले

साहरिण, तप्पभिइं च णं बहवे वेसमणकुंडधारिणो तिरियजंभगा देवा सकवयणेणं से जाइं  
 इमाइं पुरापोराणाइं महानिहाणाइं भवंति, तंजहा-पहीणसामिआइं पहीणसेउआइं पहीण-  
 गुत्तागाराइं, उच्छिन्नसामिआइं उच्छिन्नसेउआइं उच्छिन्नगुत्तागाराइं, गामागरनगरखे-  
 डकव्वडमंडवदोणमुहंपट्टणासमसंवाहसन्निवेसेसु सिंघाडएसु वा तिएसु वा चउकेसु वा  
 चचरेसु वा चउम्मुहेसु वा महापहेसु वा गामट्टाणेसु वा नगरट्टाणेसु वा गामणिद्धमणेसु  
 वा नगरनिद्धमणेसु वा आवणेसु वा देवकुलेसु वा सभासु वा पवासु वा आरामेसु वा  
 उज्जाणेसु वा वणेसु वा वणसंडेसु वा सुसाणसुन्नागारणिकंदरसंतिसेलोवट्टाणभवण-  
 गिहेसु वा सन्निखित्ताइं चिट्ठंति, ताइं सिद्धत्थरायभवणंसि साहरंति ॥ ८८ ॥  
 जं रयणिं च णं समणे भगवं महावीरे नायकुलंसि साहरिए, तं रयणिं च णं नायकुलं  
 हिरण्णेणं वड्डित्था सुवण्णेणं वड्डित्था धणेणं धन्नेणं रत्तेणं वलेणं वाहणेणं कोसेणं

॥८२॥तएणं से सिद्धत्थे खत्तिए सीहासणाओ अब्भुट्टेइ, अब्भुट्टित्ता जेणेव तिसला खत्ति-  
 याणी जवणिअंतरिया तेणेव उवागच्छइ, उवाच्छित्ता तिसलं खत्तियाणीं एवं वयासी ॥८३॥  
 -एवं खलु देवाणुप्पिया ! सुमिणसत्थंसि बायालीसं सुमिणा तीसं महासुमिणा जाव एणं  
 महासुमिणं पासित्ता णं पडिबुज्झंति ॥८४॥ इमे अ णं तुमे देवाणुप्पिए ! चउद्वस महासु-  
 मिणा दिट्ठा, तं उराला णं तुमे जाव-जिणे वा तेलुक्कनायणे धम्मवरचाउरंतचक्कवट्ठी ॥८५॥  
 तएणं सा तिसला खत्तिआणी एअमट्ठं सुच्चा निसम्म हट्टुट्ठु जाव-हयहिअया, करयल-  
 जाव ते सुमिणे सम्मं पडिच्छइ ॥८६॥ पडिच्छित्ता सिद्धत्थेणं रण्णा अब्भणुन्नाया समाणी  
 नाणामणिरयणभत्तिचित्ताओ भद्दासणाओ अब्भुट्टेइ, अब्भुट्टित्ता अतुरिअं अचवलं असं-  
 भंताए अविलंबिआए रायहंससरिसीए गईए जेणेव सए भवणे तेणेव उवागच्छइ, उवाग-  
 च्छित्ता संयं भवणं अणुपविट्ठा ॥८७॥जप्पभिइं चणं समणे भगवं महावीरे तंसि नायकुलंसि

चाउरंतचक्रवद्दी रञ्जवई राया भविस्सइ, जिणे वा तिलोगनायगे धम्मवरचाउरंतचक्र-  
 वद्दी ॥ ७९ ॥ तं उराला णं देवाणुप्पिया ! तिसलाए खत्तियाणीए सुमिणा दिट्ठा, जाव  
 आरुगनुट्ठिदीहाऊकल्लाणमंगल्लकारणा णं देवाणुप्पिआ ! तिसलाए खत्तियाणीए सुमिणा  
 दिट्ठा ॥ ८० ॥ तएणं सिद्धत्थे राया तेसिं सुमिणलक्खणपाढाणं अंतिए एयमट्ठं सोच्चा निस-  
 म्म हट्ठे तुट्ठे चित्तमाणंदिते पीयमणे परमसोमणसिए हरिसवसविसप्पमाणहिअए करयल-  
 जाव ते सुमिणलक्खणपाढगे एवं वयासी ॥ ८१ ॥—एवमेयं देवाणुप्पिया ! तहमेयं देवाणु-  
 प्पिया ! अवितहमेयं देवाणुप्पिया ! इच्छियमेयं० पडिच्छियमेयं० इच्छियपडिच्छियमेयं  
 देवाणुप्पिया ! सच्चे णं एसमट्ठे से जहेयं तुब्भे वयह त्तिकट्ठु ते सुमिणे सम्मं पडिच्छइ, पडि-  
 च्छित्ता ते सुविणलक्खणपाढए विडलेणं असणेणं पुप्फवत्थगंधमल्लालंकारेणं सक्कारेइ स-  
 म्माणेइ, सक्कारित्ता सम्माणित्ता विडलं जीवियारिहं पीइदाणं दलइ, दलइत्ता पडिविसजेइ

देवाणुप्पिया ! तिसलाए खत्तिआणीए चोदिस महासुमिणा दिट्ठा, तं उराला णं देवाणुप्पिया-  
या ! तिसलाए खत्तियाणीए सुमिणा दिट्ठा, जाव मंगल्लुकारगा णं देवाणुप्पिया ! तिसलाए  
खत्तिआणीए सुमिणा दिट्ठा, तंजहा- अत्थलाभो देवाणुप्पिया ! भोगलाभो० पुत्तलाभो०  
सुखलाभो देवाणुप्पिया ! रञ्जलाभो देवाणु० एवं खलु देवाणुप्पिया ! तिसला खत्तियाणी  
नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अच्चट्टुमाणं राइदिआणं वइक्कंताणं, तुम्हं कुलकेउं कुलदीवं  
कुलपधयं कुलवडिंसगं कुलतिलयं कुलकित्तिकरं कुलवित्तिकरं कुलदिणयरं कुलहारं  
कुलनंदिकरं कुलजसकरं कुलपायवं कुलतन्तुसंताणविवच्चणकरं सुकुमालपाणिपायं अहीण-  
पडिपुणपंचिदियसरीरं लक्खणवंजणगुणोववेअं माणुम्माणपमाणपडिपुणसुजायसबंध-  
सुंदरं ससिसोमाकारं कंतं पियदंसणं सुखवं दारयं पयाहिसि ॥७८॥ सेविय णं दारए उम्मु-  
क्खवालभावे विन्नायपरिणयमित्ते जुव्वणगमणुप्पत्ते सूरे वीरे विक्कंते विच्छिन्नविपुलबलवाहणे

सिद्धत्थस्स रण्णो पुरओ सुमिणसत्थाइं उच्चारेमाणा २ सिद्धत्थं खत्तियं एवं वयासी ॥७२॥  
 -एयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं सुमिणसत्थे वायालीसं सुमिणा तीसं महासुमिणा वावत्तरि  
 सव्वसुमिणा दिट्ठु, तत्थ णं देवाणुप्पिया ! अरहंतमायरो वा चक्खवट्ठिमायरो वा अरहं-  
 तंसि ( अं० ४०० ) वा चक्खहरंसि वा गव्भं वक्कममाणंसि एएसिं तीसाए महासुमिणाणं  
 इमे चउद्वस महासुमिणे पासित्ता णं पडिबुज्झंति ॥ ७३ ॥ तंजहा, गयगाहा- ॥ ७४ ॥  
 वासुदेवमायरो वा वासुदेवंसि गव्भं वक्कममाणंसि एएसिं चउद्वसण्हं महासुमिणाणं अन्न-  
 यरे सत्त महासुमिणे पासित्ता णं पडिबुज्झंति ॥७५॥ बलदेवमायरो वा बलदेवंसि गव्भं  
 वक्कममाणंसि एएसिं चउद्वसण्हं महासुमिणाणं अन्नयरे चत्तारि महासुमिणे पासित्ता णं  
 पडिबुज्झंति ॥ ७६ ॥ मंडलियमायरो वा मंडलियंसि गव्भं वक्कममाणंसि एएसिं चउ-  
 द्वसण्हं महासुमिणाणं अन्नयरं एगं महासुमिणं पासित्ता णं पडिबुज्झंति ॥ ७७ ॥ इमे य णं

निसीयति ॥६८॥ तएणं सिद्धत्थे खत्तिए तिसलं खत्तियाणिं जवणिअंतरियं ठावेइ, ठावित्ता  
 पुप्फफलपडिपुण्हत्थे परेणं विणएणं ते सुविणलक्खणपाढए एवं वयासी ॥ ६९ ॥  
 -एवं खलु देवाणुप्पिया ! अज्ज तिसला खत्तियाणी तंसि तारिसगंसि जाव सुत्तजागरा  
 ओहीरमाणी २ इमे एयारूवे उराले चउद्दस महासुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धा ॥ ७० ॥  
 तंजहा, गयगाहा-तं एएसिं चउद्दसण्हं महासुमिणाणं देवाणुप्पिया ! उरालाणं के मन्ने  
 कह्झाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ? ॥ ७१ ॥ तएणं ते सुमिणलक्खणपाढगा सिद्ध-  
 त्थस्स खत्तियस्स अंतिए एयमट्ठं सोच्चा निसम्म हट्ठुट्ठु जाव-हयहियया, ते सुमिणे  
 ओगिण्हंति, ओगिण्हित्ता ईहं अणुपविसंति, अणुपविसित्ता अन्नमन्नेणं सद्धिं संचालंति,  
 संचालित्ता तेसिं सुमिणाणं लद्धट्ठा गहिअट्ठा पुच्छिअट्ठा विणिच्छियट्ठा अभिगयट्ठा

पाढ्या सिद्धत्थस्स खत्तिअस्स कोडुंविअपुरिसेहिं सद्दाविआ समाणा वट्टुत्तुट्टु जाव-  
 हियया ष्हाया कयवलिकम्मा कयकोउअमंगलपायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाइं वत्थाइं  
 प्रयराइं परिहिआ अप्पमहग्घाभरणालंक्रियसरीरा सिद्धत्थयहरिआलिआकयमंगलमुद्दाणा  
 सएहिं २ गेहेहितो निगगच्छंति, निगगच्छित्ता खत्तियकुंडगामं नगरं मज्झंमज्जेणं जेणेव  
 सिद्धत्थस्स रण्णो भवणवरवडिंसगपडिदुवारे, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता  
 भयणवरवडिंसगपडिदुवारे एगओ मिलंति, मिलित्ता जेणेव वाहिरिआ उवट्टाणसाला,  
 जेणेव सिद्धत्थे खत्तिए, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयलपरिगगहिअं जाव  
 कट्टु, सिद्धत्थं खत्तिअं जएणं विजएणं वद्दाविंति ॥ ६७ ॥ तएणं ते सुविणलखणपाढगा  
 सिद्धत्थेणं रण्णा वंदित्रपूईअसक्कारिअसम्माणिआ समाणा पत्तेअं २ पुवन्नत्थेसु भद्दासणेसु

१ अगियवंदित्रमाणिअपूइआ ( क० कि० )



निसीयति ॥६८॥ तएणं सिद्धत्थे खत्तिए तिसलं खत्तियाणिं जवणिअंतरियं ठावेइ, ठावित्ता  
 पुप्फफलपडिपुण्हत्थे परेणं विणएणं ते सुविणलक्खणपाढए एवं वयासी ॥ ६९ ॥  
 -एवं खलु देवाणुप्पिया ! अज्ज तिसला खत्तियाणी तंसि तारिसगंसि जाव सुत्तजागरा  
 ओहीरमाणी २ इमे एयारूवे उराले चउद्दस महासुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धा ॥ ७० ॥  
 तंजहा, गयगाहा-तं एएसिं चउद्दसण्हं महासुमिणाणं देवाणुप्पिया ! उरालाणं के मन्ने  
 कल्ल्याणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ? ॥ ७१ ॥ तएणं ते सुमिणलक्खणपाढगा सिद्ध-  
 त्थस्स खत्तियस्स अंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म हट्टुत्तुट्टु जाव-हयहियया, ते सुमिणे  
 ओगिण्हंति, ओगिण्हित्ता ईहं अणुपविसंति, अणुपविसित्ता अन्नमन्नेणं सद्धिं संचालंति,  
 संचालित्ता तेसिं सुमिणाणं लद्धट्टा गहिअट्टा पुच्छिअट्टा विणिच्छियट्टा अभिगयट्टा

लोए अणेगणनायगंदनायगराईसरतलवरमांडविअकोडविअमंतिमहामंतिगणगंदेवा-  
 रियअमच्चचेडपीढमदनगरनिगमसिट्टिसेणावइसथवाहदूअसंधिवाल सद्धि संपरिवुडे धव-  
 लमहामेहनगए इव गहगणदिप्पंतरिक्खतारागणाण मज्झे ससिव पिअदंसणे नरवई  
 नरिंदे नरवसहे नरसीहे अब्भहिअरायतेअंलच्छीए दिप्पमाणे मज्जणघराओ पडिनिक्खमइ  
 ॥ ६२ ॥ मज्जणवराओ पडिनिक्खमित्ता जेणेव बाहिरिआ उवट्टाणसाला तेणेव उवाग-  
 च्छइ, उवागच्छित्ता सीहासणंसि पुरत्याभिसुहे निसीअइ, निसीइत्ता अप्पणो उत्तरपुर-  
 च्छिमे द्विसीभाए अट्टु भदासणाइं सेअवत्थपच्चुत्थयाइं सिद्धत्थयक्यमंगलोवयाराइं रया-  
 वेइ, रयावित्ता अप्पणो अदूरसामंते नाणामणिरयणमंडिअं अहिअपिच्छणिअं महग्घवर-  
 पट्टणुग्गयं सण्हपट्टमत्तिसयचित्ताणं ईहामिअंसभंतुरगनरमंगरविहगवालगकिन्नररु-

१ पुगुरियमे ( क० कि० )

रुसरभंचमरंकुंजरवणलयपउमलयभत्तिचित्तं अडिंभतरिअं जवणिअं अंछावेइ, अंछावेत्ता  
 नाणामणिरयणभत्तिचित्तं अत्थरयमिउमसूरगुत्थयं सेअवत्थपच्चुत्थअं सुमउअं अंगसुह-  
 फरिसं विसिटुं तिसलाए खत्तिआणीए भद्दासणं रयावेइ ॥ ६३ ॥ रयावित्ता कोडुंविअपु-  
 रिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी ॥ ६४ ॥—खिप्पामेव भो देवाणुप्पिआ ! अट्टुंगमहानि-  
 मित्तंसुत्तत्थधारए विविहसत्थकुसले सुविणलक्खणपाढए सद्दावेइ ॥ तएणं ते कोडुंविअ-  
 पुरिसा सिद्धत्थेणं रणा एवं बुत्ता समाणा हट्टुटुटु जाव-हियया, करयल जाव-पडिसुणंति  
 ॥ ६५ ॥ पडिसुणिता सिद्धत्थस्स खत्तियस्स अंतिआओ पडिनिक्खमंति, पडिनिक्ख-  
 मित्ता कुंडपुरं नगरं मज्झंमज्झेणं जेणेव सुविणलक्खणपाढगाणं गेहाइ, तेणेव उवाग-  
 च्छंति, उवागच्छित्ता सुविणलक्खणपाढए सद्दाविंति ॥ ६६ ॥ तएणं ते सुविणलक्खण-

स्संते सयपागसहस्सपागेहिं सुगंधवरतिल्लमाइएहिं पीणणिञ्जेहिं दीवणिञ्जेहिं मयणिञ्जेहिं  
 विह्णणिञ्जेहिं दप्पणिञ्जेहिं सविंदियगायपल्हायणिञ्जेहिं अब्भंगिए समाणे तिल्लचम्मंसि  
 निउणेहिं पडिपुण्णपाणिपायसुकुमालकोमलतलेहिं पुरिसेहिं अब्भंगणपरिमद्दुधलणकर-  
 णगुणनिम्माएहिं छेएहिं दम्बेहिं पट्टेहिं कुसलेहिं मेहावीहिं जिअपरिस्समेहिं आट्टिसुहाए  
 मंससुहाए तथासुहाए रोमसुहाए चउविहाए सुहपरिकम्मणाए संवाहिए समाणे अवगय-  
 परिस्समे अट्टणसालाओ पडिनिक्खमइ ॥ ६१ ॥ पडिनिक्खमिता जेणेव मज्जणघरे  
 तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता मज्जणघरं अणुपविसइ, अणुपविसिता समुत्तजालाकु-  
 लाभिरामे विचित्तमणिरयणकुट्टिमतले रमणिञ्जे ष्हाणमंडवंसि नाणामणिरयणभत्तिचि-  
 तंसि ष्हाणपीढंसि सुहनिसण्णे पुप्फोदएहि अ गंधोदएहि अ उण्होदएहि अ सुहोदएहि

१ रोमपरिस्समे

अ सुद्धोदएहि अं, कल्लणकरणपवरमञ्जणविहीए मञ्जिए, तत्थ कोउअसएहिं बहुविहेहिं  
 कल्लणगपवरमञ्जणावसाणे पम्हलसुकुमालंगंधकासाइअल्लहिअंगे अंहयसुमहघदूसरयण-  
 सुसंवडे सरससुरभिगोसीसचंदणाणुलित्तगत्ते सुइमालावणगविलेवणे आविद्धमणिसुवण्णे  
 कप्पियहारद्धहारतिसरयपालंबपलंबमाणकडिसुत्तसुकयसोभे पिणद्धगेविञ्जे अंगुलिञ्जग-  
 ललियक्याभरणे वरकडगतुडिअथंभिअभुए आहिअरूवसस्सिरीए कुंडलउञ्जोइआणणे  
 मउडदित्तसिए हारोत्थयसुकयरइअवच्छे सुद्धिआपिंगलंगुलीए पालंबपलंबमाणसुकयप-  
 डउत्तरिञ्जे नाणामणिकणगरयणविमलमहरिहनिउणोचिअमिसिसितविरइअसुसिलिट्टु-  
 विसिट्टुलट्टुआविद्धवीरवलए, किं बहुणा ? कप्परुखवए चेव अलंकिअविभूसिए नरिदे, सको-  
 रिंमल्लदामेणं छत्तेणं धरिञ्जमाणेणं सेअवरचासराहिं उद्धवमाणीहिं मंगलजयसद्धकया-

? नासानीसासवायवज्झचकसुहरवणफरिसजुत्तहयलालापेलवाइरेगधवलकणगखचिअंतकम्मदूसरयणसुसंबुए ( क० कि० )  
 २ एगावलिपिणद्धे इत्यादि क० कि०

धम्मियाहिं लट्ठाहिं कहाहिं सुमिणजागरिअं जागरमाणी पडिजागरमाणी विहरइ ॥ ५६ ॥  
 तएणं सिद्धत्थे खत्तिए पच्चूसकालसमयंसि कौंडुविअपुरिसे सदावेइ, सदाविता एवं  
 वयासी ॥ ५७ ॥—खिप्पामेव भो देवाणुप्पिआ! अज्ज सविसेसं बाहिरिअं उवट्ठाणं सालं  
 गंधोदयसित्तं सुइअसंमज्जिओवलित्तं सुगंधवरपंचवण्णपुप्फोवथारकलिअं कालागुरुपवरकुं-  
 डुरुक्कतुरुक्कड्ढं तथूवमघमघंतंगंधुक्क्याभिरामं सुगंधवरगंधियं गंधवट्ठिभूअं करेह कारवे-  
 ह, करिता कारविता य सीहासणं रयावेह, रयाविता ममेयमाणत्तियं खिप्पामेव पच्चप्पिणह  
 ॥ ५८ ॥ तएणं ते कौंडविअपुरिसा सिद्धत्थेणं रण्णा एवं बुत्ता समाणा हट्ठा जाव हियया  
 करयल जाव कट्टु एवं सामित्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणंति, पडिसुणिता  
 सिद्धत्थस्स खत्तिअस्स अंतिआओ पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमिता जेणेव बाहिरिआ  
 उवट्ठाणसाला तेणेव उवागच्छंति, तेणेव उवागच्छिता खिप्पामेव सविसेसं बाहिरियं

उवट्टाणसालं गंधोदगसित्तं जाव—सीहासणं रयावित्ता जेणेव सिद्धत्थे खत्तिए  
 तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहिंयं दसमहं सिरसावत्तं मत्थए अजलिं  
 कट्ठुं सिद्धत्थस्स खत्तिअस्स तमाणत्तिअं पच्चप्पिणंति ॥ ५९ ॥ तएणं सिद्धत्थे खत्तिए  
 कट्ठं पाउप्पमायाए रयणीए फुल्लुप्पलकमलकोमलुम्मीलियंमि अहापंडुरे पभाए, रत्तासो-  
 गप्पगासकिंसुअसुअसुहगुंजच्चरागबंधुजीवगपारावयचलणनयणपरहुअसुरत्तलोअणजा-  
 सुअणकुसुमरासिहिंगुलनिअरातिरेअरेहंतसरिसे कमलायरंसडबोहए उट्टिअंमि सूरे  
 सहस्सरंस्सिमि दिणयरे तेअसा जलंते, तस्स य करपहरापरच्चंमि अंधयारे बालायवंकु-  
 कुमेणं खचिअ व जीवलोए, सयणिज्जाओ अब्भुट्टेइ ॥ ६० ॥ अब्भुट्टित्ता पायपीढाओ  
 पच्चोरुहइ पच्चोरुहित्ता जेणेव अट्टणसाळा तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता अट्टणसालं  
 अणुपविसइ, अणुपविसित्ता अणेगवायामजेगवणवामद्दणमल्लजुच्चकरणेहिं संते परि-

॥५३॥ उराला णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिट्ठा, कल्लाणा णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा  
 दिट्ठा, एवं सिवा, धन्ना, मंगल्ला, सस्सिरीया, आरुग्ग-तुट्ठि-दीहाउ-कल्लाणं-(अं. ३००)  
 मंगल्ल-कारणा णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिट्ठा, तंजहा, -अत्थलाभो देवाणुप्पिए !  
 भोगलाभो०, पुत्तलाभो० सुक्खलाभो० रज्जलाभो०-एवं खलु तुमे देवाणुप्पिए ! नवण्हं  
 मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धट्टुमाणं राइंदियाणं विइक्कताणं अम्मं कुलकेउं, अम्मं कुलदीवं,  
 कुलपच्चं, कुलवाडिसयं, कुलतिलयं, कुलकित्तिकरं, कुलविच्चिकरं, कुलदिणायरं, कुला-  
 धारं, कुलनंदिकरं, कुलजसकरं, कुलभायवं, कुलविवद्धणकरं, सुकुमालपाणिपायं, अहीण-  
 संपुण्णपंचिंदियसरीरं लक्खणवंजणगुणोववेयं, माणुम्माणप्पमाणपडिपुण्णसुजायसव्वंग-  
 सुंदरंगं, ससिसोमाकारं, कंतं, पियदंसणं, दारयं पयाहिसि ॥ ५२ ॥ सेविअ णं दारए  
 उम्मुकुवालभावे विन्नायपरिणयमित्ते जुव्वणगमणुपत्ते सूरे वीरे विक्रंते विच्छिन्नविउलव-



लवाहणे रञ्जवई राया भविस्सइ ॥५३॥ तं उराला णं तुमे देवाणुप्पिया ! जाव दुच्चंपि तच्चंपि  
अणुवूहइ ॥ तएणं सा तिसला खत्तियाणी सिद्धत्थस्स रण्णो अंतिए एयमट्ठं सुच्चा निसम्म  
हट्टुत्तुट्ठा जाव-हियया करयलपरिगहिअं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजालिंकहु एवं वयासी  
॥५४॥ एवमेयं सामी ! तहमेयं सामी ! अवितहमेयं सामी ! असंदिद्धमेयं सामी ! इच्छिअमेअं  
सामी ! पडिच्छिअमेयं सामी ! इच्छिअपडिच्छिअमेयं सामी ! सच्चेणं एसमट्ठे-से जहेयं तुब्भे  
वयह त्तिकहु ते सुमिणे सम्मं पडिच्छइ, पडिच्छिता सिद्धत्थेणं रण्णा अब्भणुण्णाया समाणी  
नाणामणिरयणभत्तिच्चिताओ भद्दासणाओ अब्भुट्टेइ, अब्भुट्टेत्ता अतुरियमचवलमसं-  
भंताए अविलंबिआए रायहंससरिसीए गईए, जेणेव सए सयणिजे, तेणेव उवागच्छइ,  
उवागच्छिता एवं वयासी ॥ ५५ ॥-मा मे ते उत्तमा पहाणा मंगल्ला सुमिणा दिट्ठा  
अन्नेहिं पावसुमिणेहिं पडिहम्मिस्संति त्तिकहु देवयगुरुजणसंबद्धाहिं पसत्थाहिं मंगल्लाहिं

॥५३॥ उराला णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिट्ठा, कल्लाणा णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा  
 दिट्ठा, एवं सिवा, धन्ना, मंगल्ला, सस्सिरीया, आरुग्ग-तुट्ठि-दीहाड-कल्लाण-(ग्रं. ३००)  
 मंगल्ल-कारगा णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिट्ठा, तंजहा, -अत्थलाभो देवाणुप्पिए !  
 भोगलाभो०, पुत्तलाभो० सुक्खलाभो० रञ्जलाभो०-एवं खलु तुमे देवाणुप्पिए ! नवण्हं  
 मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्दट्टुमाणं राइंदियाणं विइक्कताणं अम्हं कुलक्केउं, अम्हं कुलदीवं,  
 कुलपधयं, कुलवाडिसयं, कुलतिलयं, कुलकित्तिकरं, कुलविणयं, कुलदिणयं, कुला-  
 धारं, कुलनंदिकरं, कुलजसकरं, कुलपायवं, कुलविवद्धणकरं, सुकुमालपाणिपायं, अहीण-  
 संपुण्णपंचिदियसरीरं लक्खणवंजणणुणोववेयं, माणुम्माणप्पमाणपडिपुण्णसुजायसबंध-  
 सुंदरंगं, सस्सिसोमाकारं, कंतं, पियदंसणं, दारयं पयाहिसि ॥ ५२ ॥ सेविअ णं दारए  
 उम्मुक्कवालभावे विन्नायपरिणयमित्ते जुवणगमणुपत्ते सूरे वीरे विक्कते विच्छिन्नविउलव-

कथा०

॥१३॥

नाणामणिकणगरयणभक्तिचित्तंसि भद्रासणंसि निसीयइ, निसीइत्ता आसत्था वीसत्था  
सुहासणवरगया सिद्धत्थं खत्तिअं ताहिं इट्टाहिं जाव संलवमाणी २ एवं क्यासी ॥ ४९ ॥  
एवं खलु अहं सामी? अञ्ज तंसि तारिसगंसि सयणिञ्जंसि वण्णओ जाव पडिबुद्धा, तंजहा  
— गयउसभ० गाहा । तं एएसिं सामी ! उरालाणं चउदसण्हं महासुमिणाणं के मन्ने कल्ल्याणे  
फलवित्तिविसैसे भविरसइ ? ॥ ५० ॥ तएणं से सिद्धत्थे राया तिसलाए खत्तिआणीए  
अंतिए एयमट्टं सुच्चा निसम्म हट्टुट्टुचित्ते आणंदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिस-  
वसविसप्पमाणहियए धाराहयनीवसुरभिकुसुमचंचुमालइयरोमकूवे ते सुमिणे ओगि-  
ण्हेइ, ते सुमिणे ओगिण्हित्ता इहं अणुपविसइ, इहं अणुपविसित्ता अप्पणो साहाविएणं  
मइपुवएणं बुद्धिविण्णाणेणं तेसिं सुमिणाणं अत्थुगहं करेइ, करित्ता तिसलं खत्तिआणि  
ताहिं इट्टाहिं जाव मंगल्लाहिं मियमहुरसस्सिसरीयाहिं वंग्गूहिं संलवमाणे २ एवं क्यासी

णमञ्जे पडिबुद्धा अरविंदलोयणा हरिसपुलइअंगी ॥ एए चउदस सुमिणे, सवा पासेइ  
 तित्थयरमाया । जं रयणिं वक्कमई, कुच्छिअसे महायसो अरहां ॥ ४७ ॥ तएणं सा तिसला  
 खत्तियाणी इमे एयारूवे उराले चउदस महासुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धा समाणी वड्डुत्तु-  
 द्दु-जाव-हियया धाराहयकयवपुप्फगं पिव समूससिअरोमकूवा सुविणुग्गहं करेइ, करित्ता  
 सयणिज्जाओ अब्भुट्टेइ, अब्भुट्टित्ता पायपीढाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता अतुरिअमच-  
 वल्लमसंभंताए अविलंबियाए रायहससरिसीए गईए जेणेव सयणिज्जे जेणेव सिद्धत्थे  
 खत्तिए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सिद्धत्थं खत्तिअं ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं पियाहिं  
 मणुत्ताहिं मणोरमाहिं उरालाहिं कल्लणाणाहिं सिवाहिं धन्नाहिं मंगल्लाहिं सस्सिसरीयाहिं  
 हिययगमणिज्जाहिं हिययपल्हायणिज्जाहिं मिउमहुरमंजुलाहिं गिराहिं संलवमाणी २ पडि-  
 वोहेइ ॥ ४८ ॥ तएणं सा तिसला खत्तिआणी सिद्धत्थेणं रण्णा अठभणुण्णाया समाणी

निच्चं सजलघणविडलजलहरंगञ्जियसद्वाणुणाइणा देवडुडुहिमहारवेणं सयलमवि जीव-  
 लोयं पूरयंतं, कालागुरुपवरकुंदुरुक्कतुरुक्कडञ्जंतधूववासंगउत्तममघमघंतंगंधुद्धुयाभिरामं  
 निच्चालोयं सेयं सेयप्पभं सुरवराभिरामं पिच्छइ सा साओवभोगं वरविमाणपुंडरीयं १२ ॥  
 ॥ ४४ ॥ तओ पुणो पुलगंवेरिंदनीलसासगकक्केयणलोहियक्खमरगयमसारगह्णपवालफ-  
 लिहंसोगंधियहंसगब्भअंजणचंदप्पहवररणेहिं महियलपइट्टिअं, गगणमंडलंतं पभास-  
 यंतं, तुंगं मेरुगिरिसंनिकासं पिच्छइ सा रयणनिकररासिं १३ ॥४५॥ सिहिं च-सा विडलु-  
 अलपिंगलमहुघयपरिसिच्चमाणनिच्चूमधगधगाइयजलंतजालुअलाभिरामं तरतमजोगजु-  
 सेहिं जालपयेरहिं अणुणमिव अणुप्पइणं पिच्छइ जालुअलणगअंबरं व कत्थइ पयंतं अ-  
 इवेगचंचलं सिहिं ॥१४॥४६॥ इमे एयारिसे सुभे सोमे पियदंसणेसुरूवे सुविणे दडूण सय-

१ धूवसारसंगयं ( क० कि० वृत्तौ पाठान्तरम् )

मसरं नाम सरं संरुहाभिरामं १० ॥४२॥ तओ पुणो चंदकिरणरासिसरिससिरिवच्छसोहं  
 चउगंमणपवड्डुमाणजलसंचयं चवलचंचलुच्चायप्पमाणकड्डोल्लोलंततौयं पडुपवणाहयच-  
 दियचवलयागडतरंगरंगंतभंगखोबुभमाणसोभंतनिम्मलुक्कडडम्मीसहसंबंधधावमाणो-  
 नियत्तभासुरतराभिरामं महामगरमच्छत्तिमितिमिगिलनिरुद्धत्तिलित्तियाभिधायकप्पूर-  
 फेणपसरं महानईतुरियवेगससागयभमंगगावत्तगुप्पमाणुच्चलंतपच्चोनियत्तभममाणलोल-  
 सलिलं पिच्छइ खीरोयसायरं सा रयणिंकरसोमवयणा १ १॥४३॥ तओ पुणो तरुणसूरमंडल-  
 समप्पहं दिप्पमाणसोभं उत्तमकंचणमहामणिंसमूहपवरतेयअट्टसहस्सदिप्पंतनहप्पईवं क-  
 गंपयरंलंबमाणसुत्ताससुजलं जलंतदिव्वादामं ईहावि(मि)गंडसभतुरगनरमगरविहगवाल-  
 गकिन्नररुत्सरभचमरंसंसत्तकुजरवणलयपडमलयभत्तिचित्तं गंधवोपवज्जमाणसंपुण्णघोसं

णिञ्जरूपं ८ ॥ ४० ॥ तओ पुणो जच्चकंचणुञ्जलंतरूवं निम्मलजलपुण्णसुत्तमं दिप्पमाणा-  
 सोहं कमलकलावपरिरायमाणं पडिपुण्णसध्वमंगलभेयसमागमं पवररयणपरायंतकमलट्टियं  
 नयणभूसणकरं पभासमाणं सध्वओ चैव दीवयंतं सोमलच्छीनिभैलणं सध्वपावपरिवञ्जिअं  
 सुमं भासुरं सिरिवरं सध्वोउयसुरभिकुसुमआसत्तमल्लुदामं पिच्छइ सा रययपुण्णकलसं ९  
 ॥४१॥ तओ पुणो पुणरवि रविकिरणतरुणबोहियसहस्सपत्तसुरभितरपिजरजलं जलचरंप-  
 हकरपरिहत्थगमच्छपरिभुञ्जमाणजलसंचयं महंतं जलंतमिव कमलकुवलयउप्पलतामरस-  
 पुंडरीयउरुसप्पमाणसिरिसमुदण्णं रमणिञ्जरूपसोहं पमुइयंतभमरणमत्तमहुयरिगणुक्क-  
 रोलि(ह्लि)ञ्जमाणकमलं २५० कायंबगबलाहयचक्ककलहंससारसगधिअसउणगणमिहुणसे-  
 विञ्जमाणसलिलं पउमिणिपत्तोवलगंगजलविंदुनिचयचित्तं पिच्छइ सा हिययनयणकंतं पउ-

पूरुगं समुद्रद्वगपूरुगं दुम्मणं जणं दइअवञ्जिअं पायएहिं सोसयंतं पुणो सोमचारुख्वं  
 पिच्छइ सा गगणमंडलविलाससोमचंक्रममाणतिलगं रोहिणिमणहिअयवह्दहं देवी पुन्न-  
 चंद्रं समुह्लसंतं ६ ॥३८॥ तओ पुणो तमपडलपरिफुडं चैव तेअसा पञ्जलंतरुखं, रत्तासो-  
 गपगासकिंसुअसुअमुहगुंजद्धरागसरिसं कमलवणालंकरणं अंकणं जोइसस्स अंवरतलपई-  
 वं हिमपडलगलगहं गहगणोरुनाथगं रत्तिविणासं उदयत्थमणेसु सुहुत्तसुहदंसणं दुन्निरि-  
 क्खरुखं रत्तिसुद्धंतदुप्पयारपमद्दणं सीअवेगमहणं पिच्छइ मेरुगिरिसययपरियदयं विसालं  
 सूरं रस्सीसहस्सपयलियदित्तसोहं ७ ॥ ३९ ॥ तओ पुणो जच्चकणंगलट्टिपइट्टिअं समूह-  
 नीलरत्तपीयसुक्किह्लसुकुमालुह्लसियमोरपिच्छकयमुद्धयं धयं अहियसस्सिसरीयं फालिअसं-  
 खंककुंददंगरययकलसंपंडुरेण मत्थयत्थेण सीहिण रायमाणं भित्तुं गगणत-  
 लमंडलं चैव ववसिएणं पिच्छइ सिवमउयमारुथलयाहयंकपमाणं अइप्पमाणं जणपिच्छ-



लंबंतकेसहत्थं पउमद्वहकमलवासिणिं सिरिं भगवइं पिच्छइ हिमवंतसेलसिहरे दिसागइं-  
दोरुपीवरकराभिसिच्चमाणिं ४ ॥ ३६ ॥ तओ पुणो सरसकुसुममंदारदामरमणिञ्जभूअं चंप-  
गासोगपुन्नागनागपिअंगुसिरीसमुगगरमह्निआजाइजूहिअंकोह्णकोअकोरिंटपत्तदमणयन-  
वमालिअबउलतिलयवासतिअपउमुप्पलपाडलकुदाइमुत्तसहकारसुरभिगंधि अणुवममणो-  
हरेणं गंधेणं दस दिसाओ वि वासयंतं सवोउअसुरभिकुसुममह्णधवलविलसंतकंतबहुवन्नभ-  
त्तिचित्तं छप्पयमहुअरिभमरणगुमगुमायंतनिलितंगुजंतदेसभागं दामं पिच्छइ नहंगणत-  
लाओ ओवयंतं ५ ॥ ३७ ॥ ससिं च गोखीरफेणंदगरयरयकलसंपंडुरं सुभं हिअयनयण-  
कंतं पडिपुन्नं तिमिरनिकरं चणगुहिरवित्तिमिरकरं पमाणपक्खंतरायलेहं कुसुअंवणविबो-  
हगं निसासोहगं सुपरिमट्टुदप्पणंतलोवमं हंसपडुवन्नं जोइसमुहमंडगं तमारिपुं मयणंसरा-

१ मंदारपरिजातिचंपगविलमचकुंदपाडलजायजूहियसुंगंधपुप्फमालासहकार०

यपीणरइअंसलडक्षयतथुतंत्रनिध्नहं कमलपलाससुकुमालकरचरणकौमलवरंगुलिं कुरु-  
 विद्रावत्तवद्वाथुपुध्वजंत्रं निगूढजाणुं गयवरकरसरिसपीवरोरुं चामीकरइअमेहलाजुत्तकत-  
 विच्छिन्नसोणिचक्रं जच्चंजणभमरजलयपयरउज्जुअसमसंहिअतथुअआइञ्जलडहसुकुमाल-  
 मडअरमणिअरोमराइं नाभीमंडलसुंदरविसालपसत्थजघणं करयलमाइअपसत्थतिवलिय-  
 मञ्जं नाणामणिकणगरयणविमलमहातवणिआभरणभूसणविराइयंगोवंगिं हारविरायंतकु-  
 दमालपरिणद्धजलजलितथणजुअलविमलकलसं आइयपत्तिअविभूसिएणं सुभगजालुञ्जले-  
 णं मुत्ताकलावएणं डरत्थदीणारमालियविरइएणं कंठमणिसुत्तएणं य कुंडलजुअलुइइसंतअं-  
 सोवसत्तसोभंतसप्पभेणं सोभागुणसमुदएणं आणणकुंडुविएणं कमलामलविसालरमणिअ-  
 लोअणं कमलपञ्जलंतकरगहिअमुद्धतोयं लीलावायकयपक्खएणं सुविसदकसिणघणसण्ह-

१ मंतुवंगि क० कि०

सिवं समाणसोहंतसुद्धदंतं वसहं अमिअगुणंसंगलमुहं २ ॥ ३४ ॥ तओ पुणो हारनिकर-  
 खीरसागरससंककिरणदंगरययमहासेलपंडुरंगं ( ग्रं० २०० ) रमणिञ्जिपिच्छणिञ्जं  
 थिरलट्टुपउट्टुवट्टुपीवरसुसिलिट्टुविसिट्टुतिक्खदाढाविडंविअमुहं परिकम्मिअजच्चकमलको-  
 मलपमाणसोहंतलट्टुउट्टुं रत्तुप्पलपत्तमउअसुकुमालतालुनिह्हालियगगीहं मूसगायपवर-  
 कणगताविअआवत्तायंतवट्टुतडियविमलसरिसनयणं विसालपीवरवरोरुं पडिपुन्नविमलखंधं  
 मिउविसयसुहमलक्खणपसत्थविच्छिन्नकेसराडोवसोहिअं ऊसिअसुनिम्मिअसुजायअप्फो-  
 डिअलंगूलं सोमं सोमाकारं लीलयायंतं नहयलाओ ओवयमाणं नियगवयणमइवयंतं पिच्छइ  
 सा गाढतिक्खगनहं सीहं वयणसिरीपट्टवपत्तचारुजीहं ३ ॥ ३५ ॥ तओ पुणो पुन्नचंदव-  
 यणा, उच्चागयठाणलट्टुसंठिअं पसत्थखवं सुपइट्टिअकणगकुम्मसरिसोवमाणचलणं अच्चुन्न-

ओहीरमाणी २ इमेआरूवे उराले जाव चउइस महासुमिणे पासिसाणं पडिबुद्धा, तंजहा-  
 गर्थ-वसह-सीह-अभिसेय-दाम-ससि-दिणयंर इयं कुंभं । पउमसरं-सागरं-विमाण-  
 भवणं-रयणुचयं-सिहिं च ॥ १ ॥ तएणं सा तिसला खत्तिआणी तप्पढमयाए तओअ-  
 चउइंतमूसिअविपुलजलहरहारनिकरखीरसागरससंककिरणद्वगरथयमहासेलपंडुरतरं  
 समागतमहुयरसुगंधदाणावासियकपोलमूलं देवरायकुंजरं (र) वरप्पमाणं पिच्छइ सजलय-  
 गाविपुलजलहरगजियगंभीरचारुवोसं इमं सुमं सबलक्खणकयंविअं वरोरुं १ ॥ ३३ ॥ तओ  
 पुणो धवलकमलपत्तपथराइरेगरूवप्पभं पहासमुदओवहारेहिं सबओ चैव दीवयंतं अइ-  
 सिरिभरपिह्णणाविसप्पंतकंतसोहंतचारुककुहं तणुसुइसुकुमाललोमनिद्वच्छविं थिरसुवद्ध-  
 मंसलोवचिअंलट्टसुविभत्तसुंदरंगं पिच्छइ घणवट्टलट्टुअक्किट्टुविसिट्टुप्पगतिक्खसिंगं दंतं

हृडेति पासित्ताणं पडिबुद्धा, तंजहा—गय० गाहा ॥ ३१ ॥ जं रयणिं चणं समणे भगवं  
 महावीरे देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुच्छीओ तिसलाए खत्तिआणीए वासि-  
 टुसगुत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए साहरिए, तं रयणिं च णं सा तिसला खत्तिआणी तंसि-  
 तारिसगंसि वासघरंसि अब्भितरओ सचित्तकम्मे बाहिरओ दूमिअघट्टमट्टे विचित्तउल्लो-  
 अचिह्लियतले माणिरयणपणासिअंधयारे बहुसमसुविभत्तभूमिभागे पंचवन्नसरससुरभिसुक्क-  
 पुप्फपुंजोवयारकलिए कालायुरुपवरकुंदुक्कतुक्कड्झंतधूमघमघंतंगंधुडुयाभिरामे सुगं-  
 धवरगंधिए गंधवट्टिमूए तंसि तारिसगंसि सयणिञ्जंसि सालिगणवट्टिए उभओ विब्बो-  
 अणे उभओ उन्नए मज्झे णयगंभीरे गंगापुलिणवालुअउद्दालसालिसए ओअविअंखोमि-  
 अडुगुल्लपट्टपडिच्छने सुविरइअरयत्ताणे रत्तंसुयसंबुए सुरम्मे आईणगरूयंबूरनवणीअंतू-  
 लतुल्लफासे सुगंधवरकुसुमचुन्नसयणोवयारकलिए, पुषरत्तावरत्तकालसमयंसि सुत्तजागरा

अंतरा वट्टमाणे हिआणुंकंपएणं देवेणं हरिणेगमिसिणा सक्कवयणसंदिट्ठेणं माहणकुंडग्गा-  
 माओ नयराओ उसभदत्तस्स माहणस्स कोडालसगुत्तस्स भारिआए देवाणंदाए माहणीए  
 जालंधरसगुत्ताए कुच्छीओ खत्तिअणुंडग्गामे नयरे नायाणं खत्तिआणं सिद्धत्थस्स खत्ति-  
 अस्स कासवगुत्तस्स भारिआए तिसलाए खत्तिआणीए वासिट्ठसगुत्ताए पुषरत्तावरत्तका-  
 लसमयंसि हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं अवावाहं अवावाहेणं कुच्छिसि गब्भ-  
 ताए साहरिए ॥ ३० ॥ जं रयणिं चणं समणे भगवं महावीरे देवाणंदाए माहणीए जालं-  
 धरसगुत्ताए कुच्छीओ तिसलाए खत्तिआणीए वासिट्ठसगुत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए साह-  
 रिए, तं रयणिं चणं सा देवाणंदा माहणी सयणिञ्जंसि सुत्तजागरा ओहीरमाणी २ इमेयारूवे  
 उराले कल्लाणे सिवे धन्ने मंगल्ले सस्सिरीए चउद्धस महासुमिणे तिसलाए खत्तिआणीए

अणं देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुच्छिसि गभत्ताए साहरइ, साहरिता जामेव  
 दिसिं पाउठभूए तामेव दिसिं पडिगए ॥ २७ ॥ उक्किट्टाए तुरिआए चवलाए चंडाए जव-  
 णाए उहुआए सिग्घाए दिवाए देवगईए, तिरिअमसंखिजाणं दीवससुद्दाणं मज्झमज्झेणं  
 जोअणसाहरिसएहिं विग्गहेहिं उप्पयमाणे २ जेणामेव सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडिसए  
 विमाणे सक्कसि सीहासणंसि सक्के देविंदे देवराया, तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छिता  
 सक्कस्स देविंदस्स देवरन्नो एअमाणत्तिअं खिप्पामेव पच्चप्पिणइ ॥ २८ ॥ तेणं कालेणं  
 तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे तिन्नाणोवगए आवि हुत्था, तंजहा—साहरिअिस्सामिति  
 जाणइ, साहरिअिमाणे न जाणइ, साहरिएमिति जाणइ ॥ २९ ॥ तेणं कालेणं तेणं सम-  
 एणं समणे भगवं महावीरे जेसे वासाणं तच्चे मासे पंचमे पक्खे आसोअबहुले, तस्सणं  
 अस्सोअबहुलस्स तेरसीपक्खेणं बासीइराइदिएहिं विइक्कंतेहिं तेसीइमस्स राइदिअस्स

गच्छइ, उवागच्छिता आलोए समणस्स भगवओ महावीरस्स पणामं करेइ, करित्ता देवा-  
 णंदाए माहणीए सपरिजणाए ओसोवणिं दलइ, ओसोवणिं दलित्ता असुभे पुग्गले अवहरइ,  
 अवहरित्ता सुभे पुग्गले पक्खिवइ, पक्खिवित्ता अणुजाणउ मे भयवंतिकहु समणं भगवं  
 महावीरं अद्यावाहं अद्यावाहेणं दिवेणं पहावेणं करयलसंपुडेणं गिहइ, समणं भगवं महा-  
 वीरं० गिण्हित्ता जेणेव खत्तिअकुंडगामे नयरे, जेणेव सिद्धत्थस्स खत्तिअस्स गिहे, जेणेव  
 त्तिसला खत्तियाणी, तेणेव उवागच्छइ, तेणेव उवागच्छित्ता त्तिसलाए खत्तिआणीए सप-  
 रिजणाए ओसोअणिं दलइ, ओसोअणिं दलित्ता असुभे पुग्गले अवहरइ, अवहरित्ता सुभे  
 पुग्गले पक्खिवेइ, पक्खिवित्ता समणं भगवं महावीरं अद्यावाहं अद्यावाहेणं त्तिसलाए  
 खत्तिआणीए कुच्छिसि गवभत्ताए साहरइ, जेविअणं से त्तिसलाए खत्तिआणीए गवभे तंपि-



वक्त्रमिता वेडविअसमुग्घाएणं समोहणइ, वेडविअसमुग्घाएणं समोहणित्ता संखिअइ  
 जोअणाइं दंडं निसिरइ, तंजहा—रयणाणं वइराणं वेरुलिआणं लोहिअक्खाणं मसारगह्छाणं  
 हंसगब्भाणं पुलयाणं सोगंधियाणं जोईरसाणं अंजणाणं अंजणपुलयाणं रयणाणं जायरू-  
 वाणं सुभगाणं अंकाणं फलिहाणं रिट्ठाणं अहावायरे पुग्गले परिसाडेइ, परिसाडित्ता  
 अहासुहुमे पुग्गले परिआदियइ ॥ २६ ॥ परियाइत्ता दुच्चंपि वेडविअसमुग्घाएणं समो-  
 हणइ, समोहणित्ता उत्तरवेडविथरूवं विडवइ, विडवित्ता ताए उक्किट्ठाए तुरियाए चव-  
 लाए चंडाए जइणाए उड्डुआए सिग्घाए दिवाए देवगइए वीईवयमाणे २ तिरिअमसं-  
 खिअणं दीवसमुद्दाणं मज्झंमज्जेणं जेणेव जंबुदीवे दीवे, जेणेव भारहे वासे, जेणेव माहण-  
 कुंडग्गामे नयरे, जेणेव उसभदत्तस्स माहणस्स गिहे, जेणेव देवाणंदा माहणी, तेणेव उवा-

जाइकुलवंसेसु साहरावित्तए ॥ २४ ॥ तं गच्छणं तुमं देवाणुप्पिआ ! समणं भगवं महावीरं  
 माहणकुंडगामाओ नयरओ उसमदत्तस्स माहणस्स कोडालसगुत्तस्स भारियाए देवाणं-  
 दाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुच्छिओ खत्तियकुंडगामे नयरे नायाणं खत्तियाणं सिद्ध-  
 त्थस्स खत्तियस्स कासवगुत्तस्स भारियाए तिसलाए खत्तियाणीए वासिट्ठसगुत्ताए कुच्छिसि  
 गब्भत्ताए साहराहि, जेविअणं से तिसलाए खत्तियाणीए गब्भे तंपिअणं देवाणंदाए माह-  
 णीए जालंधरसगुत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए साहराहि, साहरिता ममेयमाणत्तिअं खिप्पामेव  
 पच्चप्पिणाहि ॥ २५ ॥ तएणं से हरिणेगमेसी अग्गीणीयाहिवई देवे सक्केणं देविंदेणं देव-  
 रत्ता एवं बुत्ते समाणे हट्ठे जाव हयहियाए करयल जावत्तिकट्ठु एवं जं देवो आणवेइत्ति  
 आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेइ, पडिसुणिता उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं अवक्कमइ, अ-

वा ३ ॥ २१ ॥ अत्थि पुण एसे वि भावे लोगच्छेरयभूए अणंताहिं उस्साप्पिणीओसाप्पिणीहिं  
 विइक्कंताहिं समुप्पज्जाति, नामगुत्तस्स वा कम्मस्स अक्खीणस्स अवेइअस्स अणिञ्जिणस्स  
 उदएणं, जणं अरिहंता वा चक्कवट्ठी वा बलदेवा वा वासुदेवा वा अंतकुलेसु वा पंतकुलेसु  
 वा तुच्छं किवणं दरिद्वं भिक्खागकुलेसु वा आयाइंसु वा ३, नो चेषणं जोणीजम्मण-  
 निक्खमणेणं निक्खमिंसु वा ३ ॥ २२ ॥ अयं चणं समणे भगवं महावीरे जंबुद्वीवे दीवे भारहे  
 वासे माहणकुंडगामे नयरे उसभदत्तस्स माहणस्स कोडालसगुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए  
 माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए वक्कंते ॥ २३ ॥ तं जीअमेअं तीअपच्चुप्पणम-  
 णागयाणं सक्काणं देविंदाणं देवराइणं अरहंते भगवंते तहप्पगारेहित्तो अन्तकुलेहित्तो पंतं  
 तुच्छं किवणं दरिद्वं वणीमगं जाव माहणकुलेहित्तो तहप्पगारेसु उग्गकुलेसु वा भोग-  
 कुलेसु वा राइण्णं नायं खत्तियं इक्खागं हरिवं अन्नयरेसु वा तहप्पगारेसु विसुद्ध-

कुंडलगामे नयरे नाथाणं खत्तियाणं सिद्धत्थस्स खत्तियस्स कासवगुत्तस्स भारियाए  
 तिससलाए खत्तिआणीए वासिट्ठसगुत्ताए कुञ्छिसि गवभत्ताए साहरावित्तए । जेवियणं  
 से तिससलाए खत्तियाणीए गवभे तंपियणं देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए  
 कुञ्छिसि गवभत्ताए साहरावित्तएत्तिकट्टु एवं संपेहेइ, एवं संपेहिता हरिणेगमेसि अंग्गा-  
 णीयाहिवइं देवं सदावेइ, सदावेत्ता एवं वयासी ॥ २० ॥ एवं खलु देवाणुप्पिआ ! न एअं  
 मूअं, न एअं भवं, न एअं भविस्सं, जणं अरिहंता वा चक्कवट्ठी वा वलदेवा वा वासुदेवा  
 वा अंतं पंतं कियणं दरिइं तुच्छं भिक्खांगं, आथाइंसु वा ३, एवं खलु अरि-  
 हंता वा चक्कं वलं वासुदेवा वा उगगकुलेसु वा भोगं राइन्नं नायं खत्तियं  
 इक्खांगं हरियंसकुलेसु वा अन्नयरेसु वा तहप्पगारेसु विसुद्धजाइकुलवंसेसु आथाइंसु

बखमिसु वा निक्खमंसति वा निक्खमिस्संति वा ॥ १८ ॥ अयं च णं समणे भगवं महावीरे  
 जंबुद्वीवे दीवे भारहे वासे माहणकुंडगामे नयेरे उसभदत्तस्स माहणस्स कोडालसगुत्तस्स  
 भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए वक्कंते ॥ १९ ॥ तं  
 जीअमेअं तीअपच्चुप्पन्नमणागयाणं सक्खाणं देविंदाणं देवरायाणं, अरहंते भगवंते तहप्प-  
 गारेहितो अन्तकुलेहितो पंत० तुच्छ० दरिद्र० भिक्खाग० किवणकुलेहितो तहप्पगारेसु  
 उगगकुलेसु वा भोगकुलेसु वा रायन्न० नायखत्तियहरिवंसकुलेसु वा अन्नयेरेसु वा तहप्प-  
 गारेसु विसुद्धजाइकुलवंसेसु वा साहरावित्तए, तं सेयं खलु ममवि समणं भगवं महावीरं  
 चरमत्तित्थयरं पुवत्तित्थयरनिद्धिं माहणकुंडगामाओ नयरओ उसभदत्तस्स माहणस्स  
 कोडालसगुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुच्छीओ खत्तिय-

देवा वा अंतकुलेसु वा पंतकुलेसु वा तुच्छकुलेसु वा दरिद्रकुलेसु वा किवणकुलेसु वा  
 भिक्खागकुलेसु वा माहणकुलेसु वा, आयाइंसु वा, आयाइंस्संति वा ॥ १६ ॥  
 एवं खलु अरहंता वा चक्रवट्टी वा बलदेवा वा वासुदेवा वा, उगगकुलेसु वा भोगकुलेसु वा  
 राइणकुलेसु वा इक्खगकुलेसु वा खत्तियकुलेसु वा हरिवंसकुलेसु वा अन्नयरेसु वा तहप्प-  
 गारेसु विमुह्वाइकुलवंसेसु आयाइंसु वा आयाइंस्संति वा ॥ १७ ॥ अत्थि  
 पुण एसे वि भावे लोगच्छेरयभूए अणंताहिं उस्सपिणीओसप्पिणीहिं विइकंताहिं समुप्पज-  
 इ, (अं. १००) नामगुत्तस्स वा कम्मस्स अवखीणस्स अवेइअस्स अणिञ्जिणस्स उदएणं  
 जणं अरहंता वा चक्रवट्टी वा बलदेवा वा वासुदेवा वा, अंतकुलेसु वा पंतकुलेसु वा तुच्छं  
 दरिद्रं भिक्खागं किवणं, आयाइंसु वा आयाइंस्संति वा, कुच्छिसि गब्भ-  
 ताए वक्कमंसिं सु वा वक्कमंति वा वक्कमिस्संति वा, नो चेषणं जोणीजम्मणनिक्खमणेणं नि-

ताणं सरणं गई पइट्टा अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं विअट्टच्छउमाणं, जिणाणं जावयाणं  
 तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोअगाणं, सव्वण्णूणं सव्वदरिसीणं, सिवमयलम-  
 रुअमणंतमक्खयमद्वाबाहमपुणरावत्तिसिद्धिगइनामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं जि-  
 यभयाणं ॥ नमुत्थुणं समणस्स भगवओ महावीरस्स आइगरस्स चरमतित्थयरस्स पुव्व-  
 तित्थयरनिद्धिट्ठस्स जाव संपाविउकामस्स ॥ वंदामि णं भगवंतं तत्थगयं इहगए, पासइ  
 मे भगवं तत्थगए इहगयंति कट्टु समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता  
 सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे सन्निसन्ने ॥ तएणं तरस्स सक्कस्स देविंदस्स देवरन्नो अय-  
 मेआरूवे अब्भत्थिए चित्थिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्थां ॥ १५ ॥ न खलु  
 एयं भूअं, न एयं भवं, न एयं भविस्सं, जं णं अरिहंता वा चक्कवट्ठी वा बलदेवा वा वासु-

वरिद्विरिद्वृजगनिउणोवि(वचि)अमिसिमिसितमणिरयणमंडिआओ पाडयाओ ओसुअइ,  
 ओमुइत्ता एगमाडिअं उत्तरासंगं करेइ, करित्ता अंजलिमडलिअगहत्थे तित्थयराभिसुहे  
 मत्तट्टु पयाइं अणुगच्छइ, सत्तट्टुपयाइं अणुगच्छित्ता वामं जाणुं अंचेइ, अंचित्ता दाहिणं जाणुं  
 धरणिअलंसि साहट्टु तिक्खुत्तो मुद्वाणं धरणियलंसि निवेसेइ, निवेसित्ता ईसिं पच्चुन्नमइ,  
 पच्चुणमिसित्ता कडगतुडिअथंभिआओ मुआओ साहरेइ, साहरित्ता करयलपरिग्गहिअं  
 दम्मनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्टु एवं वयासी ॥ १४ ॥ नसुत्थु णं अरिहंताणं भग-  
 वंताणं, आइगराणं तित्थयराणं सयंसंबुद्वाणं, पुरिसुत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवरपुंडरी-  
 याणं पुरिसवरगंधहत्थीणं, लोणुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगपईयाणं लोगपज्जी-  
 अगराणं, अभयदयाणं चक्खुदयाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं,  
 धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउंरतचक्खवट्ठीणं, दीवो



तीतलतालतुडियघणसुइंगपडुपडहवाइयरवेणं दिवाइं भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरइ  
 ॥ १३ ॥ इमं च णं केवलकप्पं जंबुद्वीवं दीवं विडलेणं ओहिणा आभोएमाणे २ विहरइ,  
 तत्थणं समणं भगवं महावीरं जंबुद्वीवे दीवे भारहे वासे दाहिणडुभरहे माहणकुंडगामे  
 नयरे उसभदत्तस्स माहणस्स कोडालसगुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंधर-  
 सगुत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए वक्कंतं पासइ, पासित्ता हट्टुट्टुचित्तमाणंदिए णंदिए परमा-  
 नंदिए पीअमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए धाराहयनीवसुरभिकुसुम-  
 चंचुमालइयऊससियरोमकूवे विकसियवरकमलनयणवयणे पयलियवरकडगतुडियकऊर-  
 मउडकुंडलहारविरायंतवच्छे पालंबपलंबमाणघोलंतभूसणधरे ससंभमं तुरिअं चवलं  
 सुरिंदे सीहासणाओ अब्भुट्टेइ, अब्भुट्टित्ता पायपीढाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहिता वेरुलिय-

लोगाहिवई वृत्तीसविमाणसयसहस्साहिवई एरावणवाहणे सुरिंदे अरयंत्रवत्थधरे आल-  
 इअमालमउडे नवहेमचारुचित्तचलकुंडलविलिहिअमाणगह्णे महिड्डिए महजुइए  
 महावले महायसे महाणुभावे महासुखे भासुरबुंदी पलंबवणमालधरे सोहम्मै कप्पे सो-  
 हम्मवडिसिए विमाणे सुहम्माए सभाए सकंसि सीहासणंसि, से णं तत्थ वत्तीसाए विमा-  
 णवाससयसाहस्सीणं, चउरासीए सामाणिअसाहस्सीणं, तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं,  
 चउण्हं लोणपालाणं, अट्टण्हं अण्णमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अ-  
 णीआणं, सत्तण्हं अणीआहिवईणं, चउण्हं चउरासीए<sup>१</sup> आथरक्खवेदवसाहस्सीणं, अन्नेसिं  
 च बहूणं सोहम्मकप्पवासीणं वैमाणिआणं देवाणं देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं  
 भट्टित्तं महत्तरगतं आणाईसरसेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे महयाहयनट्टुगीयवाइअतं-

१ वडंसए १-२ णं

सुपरिनिट्टिए आविभविस्सइ ॥ ९ ॥ तं उराला णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिट्ठा, जाव  
 आरुगतुट्ठिदीहाउयसंगह्खकह्खणकारणा णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिट्ठत्ति कट्ठु भुञ्जो  
 भुञ्जो अणुवूहइ ॥ १० ॥ तएणं सा देवाणंदा माहणी उसभदत्तस्स अंतिए एअमट्ठं सुच्चा  
 निसम्म हट्ठुतुट्ठ जाव हियया जाव करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं  
 कट्ठु उसभदत्तं माहणं एवं वयासी ॥११॥ एवमेयं देवाणुप्पिआ ! तहमेयं देवाणुप्पिआ !  
 अवितहमेयं देवाणुप्पिआ ! असंदिच्चमेयं देवाणुप्पिआ ! इच्छियमेअं देवाणुप्पिआ ! पडि-  
 च्छिअमेअं देवाणुप्पिआ ! इच्छियपडिच्छियमेअं देवाणुप्पिआ ! सच्चे णं एसमट्ठे, से जहेयं  
 तुब्भे वयहत्ति कट्ठु ते सुमिणे सम्मं पडिच्छइ, पडिच्छित्ता उसभदत्तेणं माहणेणं सच्चिं  
 उरालां माणुस्सगाइं भोगभोगाइं भुजमाणी विहरइ ॥ १२ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं  
 सक्के देविं दे देवराया वज्जपाणी पुरंदरे सयक्कउ सहस्सक्खे सधवं पागसासणे दाहिणड्ढु-

कह्लाणा सिवा धन्ना मंगह्ला सस्सिआ आरोगत्तुट्टिदीहाडकह्लाणमंगह्लकाराणं तुमे  
 देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिट्ठा, तंजहा—अत्थलाभो देवाणुप्पिए ! भोगलाभो देवाणुप्पिए !  
 पुत्तलाभो देवाणुप्पिए ! सुक्खलाभो देवाणुप्पिए ! एवं खलु तुमं देवाणुप्पिए ! नवण्हं  
 मासाणं बहुपडिपुत्ताणं अद्धमाणं राइदिआणं विइक्कंताणं सुकुमालपाणिपायं अहीणंप-  
 डिपुत्तापंचिदियसरीरं लक्खणवज्जणगुणोववेअं माणुम्माणपमाणपडिपुत्तासुजायसवंगसु-  
 दरंगं ससिसोमाकारं कंतं पिअदंसणं सुखवं देवकुमारोवमं दारयं पयाहिसि ॥ ८ ॥

सेविअ णं दारए उम्मुक्कवालभावे विन्नायपरिणयमित्ते जुवणगमणुपत्ते, रिउव्वेअ—ज-  
 उव्वेअ—सामवेअ—अथवणवेअ—इतिहासंपंचमाणं निधंदुद्धाणं संगोवंगाणं सरहस्साणं  
 चउण्हं वेआणं सारए पारए धारए, सडुत्तंतविसारए, संखाणे सिक्खाणे सि-  
 क्खाकप्पे वागारणे छंदे निरुत्ते जोइसामयणे अन्नेसु अ बहुसु वंभणएसु परिवायएसु नएसु

वेइ, वद्धावित्ता सुहासणवरगया आसत्था वीसत्था करयलपरिगहियं दसनहं सिरसावत्तं  
 मत्थए अंजलिं कहु एवं वयासी ॥ ५ ॥ एवं खलु अहं देवाणुप्पिआ ! अज्ज सयणिज्जंसि  
 सुत्तजागरा ओहीरमाणी २ इमेआरुवे उराले जाव सस्सिरीए चउइस महासुमिणे पा-  
 सित्ताणं पडिबुद्धा, तंजहा, गय-जाव-सिहिं च ॥ ६ ॥ एएसिं णं उरैलाणं जाव चउ-  
 दसण्हं महासुमिणाणं के मन्ने कड्डाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ? तएणं से उसभदत्ते  
 माहणे देवाणंदाए माहणीए अंतिए एअमट्टं सुच्चा निसम्म हट्टुट्टु जाव हिअए धाराहय-  
 कलंबुअंपिव समुस्ससियरोमकूवे सुमिणुगहं करेइ, करित्ता ईहं अणुपविसइ, अणुपविसि-  
 ता अप्पणो साभाविणं मइपुव्वएणं बुद्धिविन्नाणेणं तेसिं सुमिणाणं अत्थुगहं करेइ,  
 करित्ता देवाणंदं माहणिं एवं वयासी ॥ ७ ॥ ओरालाणं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिट्ठा,

१-२ महासण १-२ सुहासणवरगया क० १-२ देवाणुप्पिआ ! उ०

दामाहणी सयणिजंसि सुत्तजागरा ओहीरमाणी २ इमेआरूवे उराले कळ्याणे सिवे धन्ने  
 मंगळे सस्तिरीए चउदस महासुमिणे पासित्ताणं पडिबुद्धा, तंजहा, गर्य-वसह-सीह-  
 अभिसैअ-दामं-ससि-दिणयंर-क्षयं-कुंभं । पउमसरं-सागरं-विमाणभवर्ण-स्यणुच्चर्य  
 -सिहिं चें ॥ १ ॥—॥ ४ ॥ तएणं सा देवाणंदा माहणी इमे एयारूवे उराले कळ्याणे सिवे  
 धणणे मंगळे सस्तिरीए चउदस महासुमिणे पासित्ताणं पडिबुद्धा समाणी, हट्टुट्टुच्चित्तमा-  
 णंदिआ पीअमणा परमसोमणसिआ हरिसवसविसप्पमाणहियया धाराहयकलंबुगं पिव  
 समुस्ससिअरोमकूवा सुमिणुगहं करेइ, सुमिणुगहं करित्ता सयणिजाओ अब्भुट्टेइ,  
 अब्भुट्टित्ता अतुरिअमचवलमसंभंताए अविलंविआए रायहंससरिसीए गईए, जेणेव  
 उमभदत्ते माहणे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता उमभदत्तं माहणं जएणं विजएणं वद्धा-

१-२ कथं वसुक्कांगिणि

ससहस्सेहिं ऊणिआए पंचहत्तरिवासेहिं अद्धनवमेहि य मासेहिं सेसेहिं-इक्कवीसाए  
तित्थयरेहिं इक्खागकुलसमुप्पन्नेहिं कासवगुत्तेहिं, दोहि य हरिवंसकुलसमुप्पन्नेहिं  
गोअमसगुत्तेहिं, तेवीसाए तित्थयरेहिं विइक्कंतेहिं, समणे भगवं महावीरे चरंमतित्थयरे  
पुव्वतित्थयरनिदिट्ठे, माहणकुंडगामे नयरे उसभदत्तरस्स माहणस्स कोडालसगुत्तरस्स  
भारिआए देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि हत्थुत्तराहिं  
नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं आहारवक्कंतीए भववक्कंतीए सरीरवक्कंतीए कुच्छिसि गब्भत्ताए  
वक्कंते ॥ ३ ॥ समणे भगवं महावीरे तिन्नाणोवगए आविहुत्था-चइस्सामिसि जाणइ,  
चयमाणे न याणइ, चुएमि ति जाणइ ॥ जं र्यणिं च णं समणे भगवं महावीरे देवाणं-  
दाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए वक्कंते, तं र्यणिं च णं सा देवाणं-

गव्माओ गव्मं साहरिए २ हत्थुत्तराहिं जाए ३ हत्थुत्तराहिं मुंडे भवित्ता अगाराओ  
 अणगारिअं पवइए ४ हत्थुत्तराहिं अणते अणुत्तरे निवाघाए निरावरणे कसिणे पडि-  
 पुद्वे केवल्लवरनाणदंसणे समुप्पद्वे ५ साइणा परिनिष्ठुए भयवं ६ ॥ २ ॥ तेणं कालेणं तेणं  
 समाणं समणे भगवं महावीरे जे से गिम्हाणं चउत्थे मासे अट्टमे पक्खे आसाढसुद्धे  
 तम्मणं आसाढसुद्धस्स छट्ठीपक्खेणं महाविजयपुफुत्तरपवरपुंडरीयाओ महाविमाणा-  
 ओ वीसंसागरोवमट्टिइयाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता  
 इहेव जंबुद्वीवे द्वीवे भारहे वासे दाहिणडुभरहे इमीसे ओसप्पिणीए सुसमसुसमाए  
 समाए विइक्कंताए १ सुसमाए समाए विइक्कंताए २ सुसमडुसमाए समाए विइ-  
 कंताए ३ दुसमसुसमाए समाए बहुविइक्कंताए-सागरोवमकोडाकोडीए वायालीसंवा-

१-३ साए



श्रेष्ठि-देवचन्द्र लालभाई-जैनपुस्तकोद्धार-ग्रन्थाङ्कः—१६  
श्रीदशाश्रुतस्कन्धे, श्रीपर्युषणाकल्पाख्यं स्वामिश्रीभद्रबाहुविरचितम्-

## श्रीकल्पसूत्रम्.



ॐ श्रीवर्द्धमानाय नमः ॥ ॐ ॥ अहं ॥ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरि-  
याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सधसाहूणं ॥ एसो पंचनसुक्कारो, सधपावप्पणासणो,  
मंगलाणं च सधेसिं, पढमं हवइ मंगलं ॥ १ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं  
महावीरे पंचहत्थुत्तरे हुत्था, तंजहा, हत्थुत्तराहिं चुए-चइत्ता गब्भं वक्कंते?, हत्थुत्तराहिं

१ सूत्रद्वयमेतदीयं संख्यातम्

गगीतकृत्यनातिगगोक्तकृत्यभग्यादनशमा कृत्यपादपोपमानताऽस्य नातिशयोक्तिमस्तीकरोति । तदेवमवश्यप्रादुर्भावनीयस्यास्य प्रादुर्गोवि यद्यपि  
 रष्टचम आदिनाम ५ अनेकान्तगामि प्रतिवान्यमं अनुपुरात्रामं चावश्यकतामाकलय्यास्माभिरप्यत्रायतितमासागमश्रवणश्रावणसहाय्यवितरण-  
 नात्मभिरसगप्रवन्नेर्मुद्रापयितुं षोडशशतीय-प्राचीनशुद्धतमसावसूरिकसद्युत्तिकपुस्तकानुसारेण विशोध्य, केवलं दृढतमपत्रेषु वर्धतममुद्रणारूपदी-  
 ययेष्टमभीमकक्षरेर्मुद्रितत्वाद् भविष्यत्यादरो गहनीयो महाशयानामन, इदमेव चात्र निवन्धनं सर्वेषां वाङ्मयानामेकजातीयेष्वेव श्रेष्ठतमेषु  
 षेषु मुद्रणे । येननं न श्रेष्ठियर्थेदेवचन्द्रवितीर्णतदात्मजगुलावचन्द्रव्यवस्थापिततदङ्गचाविद्युन्मती ( बीजकोर ) परिचुंहितलक्षद्रम्ममितै-  
 तश्राव्यागारीयसुरित्वयादागतन्यायाद्भीभव सर्वेषु मुद्र्यमाणेषु पुस्तकेषु तथाऽस्मिन्नपि स्थापितं तदेवावलम्ब्याणः ऋष्टकम् । चार्धिकं  
 खन्वदस्या मुक्तौ प्रत्यादिद् मुद्रयित्वामाणायामाविर्भावयिष्यामः सज्जनानां पुरत इति विरम्यतेऽस्माभिरधुनेतः इति निवेदयाम आनन्दसागराः  
 षणने वीरभंगव् २४४० श्रावणमुद्रनतुर्व्याम् ॥

नमः श्रीगणधरेन्द्राय.

## श्रीकल्पसूत्रस्योपोद्घातः ।



समादीयतां सज्जनमनश्चमत्कृतिकारकपवित्रचारित्रैः सुमनोभिः सुमनस्ततिनतचरणसरोजैर्निर्णीशिताशेषस्त्वसार्थतत्त्वविचारविलोकदोषपोषोद-  
यैः षष्ठपट्टपूर्वाचलार्यमभिः श्रुतकेवलिभिः श्रीमद्भिर्गवद्भिर्भद्रबाहुस्वामिभिः प्रागपि प्रतिपर्युषणं कर्षणीयं कृष्टकषायबीजैराजवंजवीभावविभाव-  
नमग्नसंसारवासनैर्मुनिमतल्लिकाभिः कल्पाय मङ्गलाय चोद्भृत्प्रात्मप्रवादानावाप्तयथार्थनाम्न आत्मप्रवादादौदंयुगीनाल्पमेघआयुर्वारणादिगुणात्मार्थि-  
जनानूनकल्याणकोटिकल्पनालम्भविष्णु कल्पसूत्रणसूत्रधारायमाणं श्रीकल्पसूत्रं दशाश्रुतस्कन्धक्षणच्छेदसूत्राष्टमाध्ययनतया न्यासीकृतं पुत्रसृ-  
तिजव्याधिविकर्षितशुभसङ्कल्पेन ध्रुवसेननृपेणानन्दपुरे समहं सभासमक्षं वाचयितुमारब्धं तदनु सङ्घसमक्षमनुसंवत्सरमर्वाक् सौवत्सरिकप्रतिक्र-  
मणात्पञ्चमिरहोभिः कर्षणीयं कर्मततिकषणकल्पनातीतसामर्थ्यं । तत्र प्रथमं वाच्यं जिनचरिताख्यं द्विशत्या साष्टाविशया, द्वितीयं स्थविराव-  
लीलक्षणं त्रयस्त्रिंशत् आचार्याणां परम्पराप्रविष्टानां सूत्राणामेकषष्ट्या सामाचारी तु चातुर्मासीकल्पानुशीलनीया निर्मन्थानां निर्मन्थीनां  
च तृतीयवाच्यत्वेनाभिमतता सूत्रचतुःषष्ट्या सूत्रितेति देवगुरुधर्मविषयकशुभभावनाप्रकर्षोत्पादकतद्द्वर्णनास्वरूपोपलम्भाविगीतगुरुषपरम्प-

| Name.                        | Author.                 | Number of Verses. |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Avachuri Lasha               | Shree Mahi Meru         | 700               |
| Avachuri                     | (not known)             | 2200              |
| Niryukti                     | Shree Bhadra Bāhu Swāmi | 95                |
| Nirukta                      | Shree Vinaya Chandra    | 158               |
| Tippana                      | Shree Prithivi Chandra  | 640               |
| Sandeha Vishvaushadhi Vritti | Shree Jina Prabha       | 3041              |

Out of these we have ere now published Kalpa Subodhika of Shree Vinaya Vijaya Maho-  
pādhyāya, as our seventh Volume.

We are thankful to Puniasa Shree Ānand S'gar Gani for correcting the proof-sheets of this  
work, and to Puniasa Shree Siddhi Vijaya Gani, Puniasa Shree Ānand S'gar Gani, Puniasa Shree  
Kiddhi Muni, and Sha Maganbhai Dharamchand Javeri, for supplying us with the manuscripts.

325, JAVERI BAJAR,  
BOMBAY,  
August 1914.

NAGINBHAI GHELABHI JAVERI,  
for the Trustees of

The Sheth Devachand Lalbhai Pustakodddhar Fund.

श्रेष्ठि-देवचन्द्र लालभाई—जैनपुस्तकोद्धार—ग्रन्थाङ्कः १८.

श्रीदशाश्रुतस्कन्धे, श्रीपर्युषणाकल्पाख्यं श्रीभद्रबाहुस्वामिविरचितम्—

## श्रीकल्पसूत्रम्,

युगप्रधानकालिकाऽऽचार्यकथासंयुक्तम्.

विख्यातिकारकः—शाह नगीनभाई घेलाभाई—जव्हेरी, असैकः कार्यवाहकः ।

इदं पुस्तकं मुम्बय्यां शाह नगीनभाई घेलाभाई जव्हेरी बाजार इत्यनेन 'निर्णयसागर'मुद्रणास्पदे कोलभाटवीथ्यां

२३ तमे मन्दिरे रामचन्द्र येसू शेडगेद्वारा मुद्रापितं प्रकाशितं च ।

प्रथमसंस्कारे प्रति १०००. [ All rights reserved. ] मोहमयीपत्तने.

वीरसंवत् २४४०. विक्रमसंवत् १९७०. काइष्टस्य सन् १९१४.

पृथं ८ आणकाः ।

॥ श्री जिनाय नमः ॥

॥ श्रीविधिपदक (अंचल) गह्वस्थापक श्रीआर्यरक्षितसूरिगुरुभ्यो नमः ॥

— अथ श्रीकल्पसूत्र मूला ॥ —

— छपाची प्रसिद्ध करनार —

श्री विधिपदक (अंचल) गच्छीय मुनिमंडलाग्रेश्वर मुनिमहाराज श्री १००८ श्री गौतमसागरजी महाराजना सदुपदेश्यती  
स्यपावेन्या अंचलगह्वस्थापक श्री आर्यरक्षितसूरि पुस्तकोद्धार खाता तरफशी कच्छ अंजारतला शा. गोमपंद धारशी.  
शोधक-मुनि धर्मसागरजी.

आवृत्ति पहेली.

थिकम सक्त् १९८२.

प्रत २००

गौरनिर्माण समय २५२२ प्राणण गुर १५

श्री जेल भास्करोदय प्रिन्टिंग प्रेम—जामनगर.

अंचलगच्छस्थापक आर्यरक्षितस्वरि पुस्तकोद्धारखाताना

पडतर किंसते अपाता पत्राकारे तैयार जैन ग्रंथो

उपदेशचिंतामणि-सटीक (कर्ता जयशेखरसूरि) (भाषांतरसहित) कुल पृष्ट २४००--(चारे भाग साथे मोकलवामां आवे छे)

किं. रु. २०

श्रीआदिनाथजीनो रास ( कर्ता दर्शनसागर उपाध्यायजी ) पृष्ट ८००...

... ..

” ३

श्रीपालराजानो रास--( कर्ता न्यानसागरजी ) अर्थसहित-पृष्ट ६०० . ...

... ..

” २

वर्धमानपद्मसिंहचरित्र--( भाषांतरसहित ) .... ”

... ..

” २

”

”

”

बुक बांधेली

” २॥

कल्पसूत्र-मूळ-वारसो-सुपररोयल उंचा जाडा कागळमां वारपेजी मापमां

अंचलगच्छनी महोदी पटावली-गुजराती टाइपमां डेमी आठपेजी मापमां--( छपाय छे )

अगाडथी किमत रु. ४ पाळळथी

( टपाल खर्च जुटुं समनवुं. )

मळवानुं ठेकाणुं.--पंडित हीरालाल हंसराज.--जामनगर--( काठीयावाड )

॥ श्री जिनाय नमः ॥

॥ श्रीविधिपक्षगह्वाधिराजश्रीआर्यरक्षितगुरुच्यो नमः ॥

॥ अथ श्रीकल्पसूत्र प्रारभ्यते ॥

( मूल-चारसो )

॥ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आचरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सबसा-  
दूणं, एसो पंच नसुक्कारो, सबपावप्पणासणो, मंगलाणं च सब्वेसिं, पढमं दोइ मंगलं ॥ १ ॥ तेणं  
रुअयेणं तेणं समएणं समणे भगवं मइवीरे पंचइहुत्तरे दोढा ॥ तं जइ ॥ इहुत्तराहिं चुए चइत्ता गअं  
वअंते, इहुत्तराहिंं गअाअं गअं साइरिए, इहुत्तराहिं जाए, इहुत्तराहिंं मुंढे नवित्ता अगाराअं अण-  
गारिअं पवइए, इहुत्तराहिंं अणंते अणुत्तरे निगाथाए निरावरणे कसिणे पडिपुणे केवलवरनाणदंसणे



समुप्यन्ने, साश्या परिनिव्वुए भयवं ॥२॥ तेषं कालिणं तेषं समएणं समणे नगवं महावीरे जे से  
 गिम्हाणं चउठे मासे अठमे पखे आसाढसुऊे तस्स णं आसाढसुऊस्स ठठीपखेणं महाविजयपु-  
 प्फुत्तरपवरपुंडरीयाले महाविमाणाले वीसं सागरोवमच्छिद्याले आउखएणं नवखएणं ठिइखएणं  
 अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुहीवे दीवे नारहे वासे दाहिणहृत्तरहे इमीसे उंसप्पिणीए सुसमसु-  
 समाए समाए विइकंताए, सुसमाए समाए विइकंताए, सुसमइसमाए समाए विइकंताए दूसम-  
 सुसमाए समाए बहुविइकंताए, सागरोवमकोडाकोडीए बायालीसवाससहस्सेहिं जणिआए पंच-  
 हत्तरीए वासेहिं अरुनवमेहिं य मासेहिं सेसेहिं इक्कीसाए तिहयरेहिं इस्कागकुलसमुप्यन्नेहिं  
 कासवगुत्तेहिं, दोहि य हरिवंसकुलसमुप्यन्नेहिं गोथमसगुत्तेहिं, तेवीसाए तिहयरेहिं विइकंतेहिं समणे  
 नगवं महावीरे चरमत्तिहयरे पुव्वत्तिहयरनिद्धिंठे माइणकुंडगामे नयरे उंसभदत्तस्स माइणस्स को-  
 डाससगुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए माइणीए जालंधरसगुत्ताए पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि हहुत्तराहिं  
 नखत्तेणं जोगमुवागएणं आहारवक्कंतिए नववक्कंतिए सरीरवक्कंतिए कुळिसि गप्पत्ताए वक्कंते ॥ २ ॥

समणे नगधं महावीरे तिष्ठानोत्रगण आबिहुता. अइस्सामिति जाणइ, चयमाणे न जाणइ. चुणमिति जाणइ. जंरयणिं च णं समणे भगवं महावीरे देवाणंदाए माहणीए जाळंधरसगुत्ताए कुठिंसि गप्पत्ताए अकंते, नंरयणिं च णं सा देवाणंदा माहणी सयणिजंसि सुत्तजागरा उहीरमाणी (२) इमे एयारूवे उरा-  
 स्से कख्खाणे सिवे धन्ने संगह्वे सस्सिरीए चउइस महासुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धा ॥३॥ तं जहा ॥ गय  
 वसइ मीइ अन्निसे-अ दाम ससि दिणयरं ऊयं कुंतं ॥ पउमसर सागर विमा-ण नवण रयणुच्चय  
 सिद्धिं च ॥ १ ॥ ४ ॥ तए णं सा देवानंदा माहणी इमे एयारूवे उराळे जावं चउइस्स महासुमिणे  
 पासित्ता णं पडिबुद्धा समाणी इठठुठचित्तमाणंदिआ पीइमणा परमसोमणसिआ हरिसवसविसप्प-  
 माणदिअया धाराइयकयंउपुप्फंगंपिव समुस्ससिअरोमकूवा सुमिणुगहं करेइ ॥ सुमिणुगहं करित्ता  
 सयणिजाउ अण्युठेइ (३) ता अतुरिअमचवल्लमसंउताए अविलंथिआए रायहंससरिसीए गइए  
 जेणेव उसजदत्ते माहणे तेणेव उवागहइ, उवागठित्ता उसभदत्तं माहणं जएणं विजएणं वळावेइ,  
 वळावित्ता उवासणवरगया आसळा वीसळा सुहासणवरगया करयलपरिगहियं दसत्तहं सिरसावत्तं

महए अंजलिं कट्टु एवं वयासी. ॥५॥ एवं खलु अहं देवाणुप्पिअ ! अज्जा सयणिज्जांसि सुत्तजागरा  
 उहीरमाणी (२) इमे एयारूवे उराले जाव सस्सिरीए चउदसमहासुमिणे पासित्ता णं पन्निबुद्धा ॥६॥  
 तं जहा ॥ गय जाव सिहिं च ॥७॥ एएसि णं देवाणुप्पिअ ! उरालाणं जाव चउदसएहं महासुमि-  
 णाणं के मणे कट्ठाणे फलवित्तिविसेसे नविस्सइ ? ॥ तए णं से उसत्तदत्ते माहणे देवाणंदाए माहणीए  
 अंतिए एअमठं सुच्चा निसम्म हट्टतुहजावहिअए धाराइयकयंवपुफगंपिव समुस्ससिअरोमकूवे  
 सुमिणुग्गहं करेइ-करित्ता इहं अणुपविसइ, इहं अणुपविसित्ता अप्पणो साहाविएणं मइपुवएणं  
 बुद्धिभिन्नाणेणं तेसिं सुमिणाणं अबुग्गहं करेइ, अबुग्गहं करित्ता देवाणंदं माहणीं एवं वयासी  
 ॥ ७ ॥ उराला णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिट्ठा, कट्ठाणा णं जाव सस्सिरीआ आरोग-  
 तुट्ठिदीहाउकट्ठाणमंगलकारगा णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिट्ठा, ॥ तं जहा ॥ अब्बलाभो देवा-  
 णुप्पिए, भोगत्ताओ देवाणुप्पिए, पुत्तलाभो देवाणुप्पिए, सुक्कलाभो देवाणुप्पिए-एवं खलु तुमं दे-  
 वाणुप्पिए नवएहं मासाणं षट्ठुपडिपुत्ताणं अरुत्तमाणं राइंदिआणं विइक्कंताणं सुकुमालपाणिपायं अ-

द्दीणपडिपुन्यं चिदियसरीरं सखणवंजणगुणोववेअं माणुम्माणपमाणपफिपुनसुजायसवंगसुंदरंगं स-  
 सिसोसागारं कंतं पिअदंसणं सुखवं देवकुमारोवमं दारयं पयादिसि ॥ए॥ से वि अ णं दारए उम्मु-  
 म्मास्रनावे विन्नायपरिणयमित्ते जोवणगमणुपत्ते रिउवेअ-जजुवेअ-सामवेअ-अथवणवेअ-इतिहा-  
 सपंचमाणं निघंटुवहाणं संगोवंगाणं सरहस्साणं चउण्हं वेआणं सारए, वारए, धारए, सडंगवी, सडित्तं-  
 तविमारए, संखाणे सिखाणे सिखाकप्पे वागरणे उंदे निरुत्ते जोइसामयणे अल्लेसु अ बहुसु वंचणा-  
 एसु परिवायएसु नएसु सुपरिनिट्टिए आवि जविस्सइ ॥१०॥ तं उराला णं तुमे देवाणुप्पिए सुमिणा दि-  
 डा, जाव आत्तगतुट्टिदीहाउयमंगल्लकल्लाणकारगा णं तुमे देवाणुप्पिए सुमिणा दिट्ट-त्ति कट्टु बुज्जो  
 बुज्जो थणुबूइइ ॥११॥ तए णं सा देवाणंदा साइणी उसभदत्तस्स माइणस्स अंतिए एअमडं सुच्चा  
 निसम्म इट्टतुट्टजावहियया करयलपरिगहियं दसनहं सिरसावत्तं मइए अंजलिं कट्टु उलत्तदत्तं माइ-  
 णं णं पयामी ॥१२॥ एअमेयं देवाणुप्पिएअ, तइमेयं देवाणुप्पिएअ, अवितइमेयं देवाणुप्पिएअ, असंदिद्ध-  
 मेयं देवाणुप्पिएअ, इहियमेयं देवाणुप्पिएअ, पडिहियमेयं देवाणुप्पिएअ, इहियपडिहियमेयं देवाणुप्पिएअ,

सञ्चे णं एस अट्ठे से जहेयं तुप्पे वयह-त्ति कहु ते सुमिणे सम्मं पडिह्ठइ (२) ता उसजदत्तेणं माहणेणं सद्धिं उरात्ताइं माणुस्सगाइं भोगजोगाइं जुंजमाणा विहरइ ॥ १३ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं सक्के देविंदे देवराया वज्जपाणि पुरंदरे सयक्कज सहस्सखे मघवं पागसासणे दाहिणह्ठुल्लोगाहि वइ बत्तीसविमाणसयसहस्साहि वइ एरावणवाहणे सुरिंदे अरयंवरवत्तधरे आलइअमालमउडे नवहेमचारुचित्तचं- चलकुंडलविलिह्ठिज्जमाणगद्धे महिह्ठिए महजुइए महाबले महाणुभावे महासुखे जासु- रबोदि पलंबवणमालधरे सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडिसए विमाणे सुहम्मए सभाए सक्कंसि सीहा- सणंसि, से णं तत्त बत्तीसाए विमाणवाससयसाहस्सीणं, चउरासीए सामाणिअसाहस्सीणं ता- यत्तीसाए तायत्तीसगाणं, चउण्हं लोगपालाणं अट्ठण्हं अगमहिस्सीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परि- साणं, सत्तएहं अणीआणं, सत्तण्हं अणीआहि वइणं, चउण्हं चउरासीणं आयरक्कदेवसाहस्सीणं, अत्तेसिं च बहूणं सोहम्मकप्पवासीणं वेमाणिआणं देवाणं देवीण य आहि वच्चं पोरेवच्चं सामित्तं न्हित्तं महत्तरगतं आणाईसरसेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे महयाहयनह्ठगीयवाइयतंतीतत्ततालतु-

डियवणमुइंगपटुपट्टवइयवेणं दिवाइं जोगभोगाइं बुंजेमाणे विहरइ. इमं च णं केवलकप्पं  
 जंजुवीवं दीवं विट्ठेणं उट्ठिणा आत्तोपमाणे (२) विहरइ. तत्त णं समणं जगवं महावीरं जंजु-  
 वीवे दीवे तारइे चासे दाहिणहृत्तरइे माइणकुंरुगामे नयरे उसत्तदत्तस्स माइणस्स कोडाइलतगुत्तस्स  
 तारियाए देवाणंदाए माइणीए जालंधरसगुत्ताए कुठ्ठिसि गप्पत्ताए वक्कते पासइ-पासिता इठत्तु-  
 इचित्तमाणंदिए पीअमाणे परमसोमणस्सिए इरिसवसविसप्पमाणहियए धाराइयकयंवन्नुरहिक्क-  
 सुमंचंजुमालइयऊसवियरोमकूवे विअसियवरकमलाणणतयणे पयखियवरकरुगतुप्पियकेऊरमउ-  
 रुकुंरुत्तद्दारविरायंतवत्ते पालंवपलंवमाणवोलंतभूसणधरे ससंभमं तुरिअं चवलं सुरिदे सीहासणाउ-  
 यप्पुठ्ठेइ, (२) ता पायपीढाउ पच्चोरुइइ (२) चा वेरुखियवरिठ्ठरिठ्ठजणनिउणोत्तविअमिसि-  
 मिसिंतमणिरयणमंडिआउ पाउयाउ उमुअइ, (२) ता एगसाडिअं उत्तरासंगं करेइ, (२) ता अंजखि-  
 मउसिअथग्गइत्ते तिहयराजिमुहे सत्तठ्ठपयाइं अणुगह्वइ-अणुगह्विता वामं जाणुं अंचेइ दाहिणं  
 जाणुं धरणितलंसि साइहु तिखुत्तो सुआणं धरणितलंसि निवेसेइ-निवेसिता इसिं पच्चुत्तमइ, (२)

ता कडगतुडिअथंनिआड जुआड साहरेइ (१) ता करयलपरिगहिअं दसनहं सिरसावत्तं मञ्ज-  
 ष अंजलिं कट्टु एवं वयासी. ॥१५॥ नमुहुणं अरिहंताणं जगवंताणं आइगराणं तिह्यराणं सयंसंबुद्धाणं  
 पुरिसुत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवरपुंडरीयाणं पुरिसवरगंधहठीणं लोयुत्तमाणं लोणनाहाणं लोण-  
 हियाणं लोणपईवाणं लोणपल्लोअगराणं अमथदयाणं चकुदयाणं मगदयाणं सरणदयाणं जीवद-  
 याणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाडरंतचक्कव-  
 डीणं दीवोताणं सरणं गइपइठा अप्पडिह्यवरनाणंदंसणधराणं विश्चइडउम्माणं जिणाणं जावयाणं  
 तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहियाणं सुत्ताणं मोअगाणं सबन्नूणं सब्बदरिसीणं सिवमयल्लमरुअमणंतम-  
 रकथमद्वाबाहमपुणरावत्तिसिद्धिग इनामधेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जियभयाणं नमुहुणं  
 समणस्स जगवडं महावीरस्स पुब्बतिह्यरनिद्धिठस्स जाव संपाविउकामस्स वंदामि णं जगवंतं  
 तहगयं इहगए, पासड मे जगवं तहगए इहगयं-त्ति कट्टु समणं जगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, (२)  
 ता सीहासणवरंसि पुरहाजिमुहे सन्निसणे ॥ तए णं तस्स सक्कस्स देविंदस्स देवरत्तो अयमेआ-

स्वे अप्रतिष्ठा चित्तिष्ठा मणोगण संकल्पे समुष्पजिष्ठा ॥१६॥ न लज्जु एयं भूयं न एयं प्रथं,  
न एयं भविस्सं, जं नं अरिहंता वा, चक्रवर्ती वा, वासुदेवा वा, अंतकृलेसु वा, पंतकुलेसु वा,  
नुनकृलेसु वा, दरिद्रकृलेसु वा, किष्णकृलेसु वा, भिक्षागकृलेसु वा, माहृणकृलेसु वा, आयाइंसु वा,  
आयाइंति वा, आयाइस्संति वा ॥ १७ ॥

एवं त्वज्जु अरिहंता वा, चक्रवर्ती वा, बलदेवा वा, वासुदेवा वा, उगकृलेसु वा, राज्ञ-  
कृलेसु वा, इक्षागकृलेसु वा, स्वत्तियकृलेसु वा, हरिवंसकृलेसु वा, अश्रयरेसु वा, तहृष्यगारेसु विसु-  
जाइकृषवंसेसु आयाइंसु वा (३) ॥१७॥ अत्रि पुण एसेवि चावे लोगछेरयभूप अणंताहिं उस्सपिणीउ-  
सपिणीहिं विडंनंताहिं समुष्पज्जाइ-(ग्रंथा० १००) नामगुत्तस्स कम्मस्स अखीणस्स अवेइअस्स अ-  
णिज्जिन्नस्स उदपणं, जं नं अरिहंता वा, चक्रवर्ती वा, बलदेवा वा, वासुदेवा वा, अंतकृलेसु वा, पंतकु-  
लेसु वा, नृपकृलेसु वा, दरिद्रकृलेसु वा, भिक्षागकृलेसु वा, किष्णकृलेसु वा, माहृणकृलेसु वा, आयाइंसु  
वा (३) कुत्रिसि गप्पताए वक्कमिंसु वा, वक्कमंति वा, वक्कमिस्संति वा, नो चेवणं जोणीजम्मणनिकम-



षेणं निखमिसु वा, निखमिसंति वा, ॥ १ए ॥ अयं च णं समणे भगवं महा-  
 वीरे जंबुद्वीवे दीवे भारद्दे वासे माहणकुंडगामे नयरे उसन्नदत्तस्स माहणस्स कोडालसगुत्तस्स  
 भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुब्भिसि गप्पत्ताए वक्कंते ॥ २० ॥ तं जीअमेअं  
 तीअपच्चुप्पन्नमणायणं सक्काणं देविंदाणं देवरायाणं, अरिहंते भगवंते तहप्पगारोहिंतो अंतं  
 पंतं तुह्णं दरिं निखां किवं माहं तहप्पगारेसु जगं जोगं रायं नायं अन्नं तहप्प-  
 गारेसु विसुख्खजाइकुलवंसेसु वा जाव रज्जसिरिं कारेमाणे पाक्षेमाणे साहरावित्तए तं सेयं  
 खलु मसवि समणं जगवं महावीरं चरमतिहयरं पुव्वतिहयरनिदिठं माहणकुंडगामानं नयरालं रु-  
 समदत्तस्स माहणस्स कोडालसगुत्तस्स जारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुब्भिनं  
 खत्तियकुंडगामे नयरे नायाणं खत्तियाणं सिद्धहस्स खत्तियस्स कासवगुत्तस्स जारियाए तिस-  
 क्षाए खत्तियाणीए वासिठसगुत्ताए कुब्भिसि गप्पत्ताए साहरावित्तए-जेवि य णं से तिसक्षाए खत्ति-  
 याणीए गप्पे तंपि य णं देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुब्भिसि गप्पत्ताए साहरावित्तए-त्तिकट्टु

एवं संपेदेद्, (२) ता हरिणेगमेसि पाइत्ताणीयाद्विवद् देवं सहावेद्, (२) ता एवं त्रयासी ॥२१॥  
 एवं खलु देवाणुष्विथ! न एअं भूअं, (३) जं नं अरिहंता वा, चक्रं त्रसं वासुं अंतं पंतं  
 क्रिषं दरिं तुष्टं निरकां माहणकुलेसु वा, आयाइंसु वा, (३) एवं खलु अरिहंता वा, चक्रं  
 वसं वानुं उगं जोगं राइन्नं नायं खत्तिं इकां हरिवंसकुलेसु वा अन्नयरेसु वा तदप्पगारेसु  
 विन्दुजाइकुलवसेसु आयाइंसु वा (३) ॥२२॥ अत्ति पुण एसेवि भावे लोगठेरयभूए अणंताहिं उ-  
 म्मस्सिपणीउम्सस्सिपणीहिं विइक्कंताहिं समुप्पजाइ नामगुत्तस्स वा कम्मस्स अक्कीणस्स अवेइअस्स अ-  
 णिज्जिन्नस्स उदणं, जं नं अरिहंता वा चक्रवट्ठी वा वलदेवा वा वासुदेवा वा अंतं पंतं तुष्टं किंत्वं  
 दरिं निरकां माहं आयाइंसु वा (३) कुठिंसि गप्पत्ताए वक्कमिंसु वा (३) नो चेत्रणं जोणीजम्मणनि-  
 र्कमणेणं निरकमिंसु वा (३) ॥२३॥ अयं च णं समणे भगवं महावीरे जंबुद्वीवे दीवे चारुदे वा-  
 से माहणकुंडगामे नयरे उसन्नदत्तस्स माहणस्स कोडालसगुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए माह-  
 णीए जालंभरसगुत्ताए कुठिंसि गप्पत्ताए वक्कंते ॥ २४ ॥ तं जीअमेअं तीअपच्चुप्पन्नमणागयाणं

सक्त्राणं देविंदाणं देवरायाणं, अरिहंते जगवंते तद्दृप्पगारेहितो अंतकुक्षेहितो पंत० तुह्ण० दरिह्ण०  
 क्विव० वणीमग० माहणकुक्षेहितो तद्दृप्पगारेसु उगकुक्षेसु वा जोग० रायन्न० नाय० खत्ति० इक्का०  
 हरिवं० अन्नयरेसु तद्दृप्पगारेसु विसुद्धजाइकुलवंसेसु साहरावित्तए ॥ १५ ॥ तं गह्व तुमं देवाणु-  
 प्पिअ! समणं जगवं महावीरं माहणकुंडगामात् नयरात् उसन्नदत्तस्स माहणस्स कोफालसगुत्त-  
 स्स जारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुब्बिले खत्तियकुंडगामे नयरे नाथाणं खत्तिया-  
 णं सिद्धत्तस्स खत्तियस्स कासवगुत्तस्स जारियाए तिसलाए खत्तियाणीए वासिठसगुत्ताए कुब्बिसि  
 गप्पत्ताए साहराहि, जेवि य णं से तिसलाए खत्तियाणीए गप्पे तं पि अ णं देवाणंदाए माहणी-  
 ए जालंधरसगुत्ताए कुब्बिसि गप्पत्ताए साहराहि-साहरित्ता ममेयमाणत्तिअं खिप्पामेव पच्चप्पि-  
 णाहि ॥ २६ ॥ तए णं से हरिण्णेगमेसी पायत्ताणीयाहिवई देवे सक्केणं देविंदेणं देवरत्ता एवं बुत्ते  
 समाणे ह्ठत्तुठ-जाव ह्ठहियए करयल्ल-जाव त्तिकट्टु जं देवो आणावेइत्ति आणाए विणएणं  
 वयणं पडिसुणेइ-पडिसुणित्ता उत्तरपुरह्ठिमं दिसीभागं अक्कमइ, (१) ता विउविअसमुग्घाएणं

समोदणइ, समोदणित्ता संखिजाइं जोअणाइं दंडं निस्सरइ. तं जहा-रयणाणं वयराणं वेरुलिआणं  
 खोद्विअस्काणं मसारगह्वाणं इंसगप्रणं पुलयाणं सोगंधियाणं जोईरसाणं अंजणाणं अंजणपुत्र-  
 याणं जायरूवाणं सुजगाणं अंकाणं फखिहाणं रिठ्ठाणं अहावायरे पुग्गले परिसाहेइ, परिसाडित्ता अ-  
 दासुइमे पुग्गले परिआणइ ॥२९॥ (२) ता हुच्चंपि वेउविअसमुग्घाएणं समोदणइ, (१) ता उत्तरवेउ-  
 वियं रूवं त्रिउवइ, (२) ता ताए उक्किठाए तुरिआए चवळाए चंफाए जयणाए उद्धूआए सि-  
 ग्घाए ठेआए दिवाए देवगइए वीईवयमाणे (१) तिरिअमसंखिजाणं दीवसमुद्दाणं मज्जं मज्जेणं  
 जेणेव जंबुदीवे दीवे, जेणेव चारहेवासे, जेणेव माहणकुंडगामे नयरे, जेणेव उसभदत्तस्स मा-  
 इणस्स गिइे, जेणेव देवाणंदा माहणी, तेणेव उवागहइ, उवागहित्ता आलोए समणस्स भगवले  
 महावीरस्स पणामं करेइ, पणामं करित्ता देवाणंदाए माहणीए सपरिजणाए उसावणिं दलइ, दलित्ता  
 अस्सुत्ते पुग्गले अचहरइ, (२) ता सुत्ते पुग्गले पस्खिवइ (१) ता “अणुजाणउ मे जयवं” त्तिकहु,  
 समणं जगवं महावीरं अवावाइं अवावाहेणं दिवेणं पहावेणं करयलसंपुडेणं गिहइ, (२) ता जेणेव

सक्काणं देविंदाणं देवरायाणं, अरिहंते जगवंते तहप्पगारेहितो अंतकुल्लेहितो पंतं तुह्णं दरिद्धं  
 किवं वणीमगं माहणकुल्लेहितो तहप्पगारेसु उगकुल्लेसु वा जोगं रायन्नं नायं खत्तिं इक्कां  
 हरिवं अन्नयरेसु तहप्पगारेसु विसुद्धजाइकुल्लवंसेसु साहरावित्तए ॥ १५ ॥ तं गह्ण तुमं देवाणु-  
 प्पिअ! समणं जगवं महावीरं माहणकुंडगसाअं नयरालं उसत्तत्तस्स माहणस्स कोयालससुत्त-  
 स्स नारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंधरससुत्ताए कुह्णिलं खत्तियकुंडगमे नयरे नायाणं खत्तिया-  
 णं सिद्धत्तस्स खत्तियस्स कासवगुत्तस्स नारियाए तिसलाए खत्तियाणीए वासिठससुत्ताए कुह्णिसि-  
 गप्पत्ताए साहराहि, जेवि य णं से तिसलाए खत्तियाणीए गप्पे तं पि अ णं देवाणंदाए माहणी-  
 ए जालंधरससुत्ताए कुह्णिसि गप्पत्ताए साहराहि-साहरित्ता ममेयमाणत्तिअं खिप्पामेव पच्चप्पि-  
 णाहि ॥ २६ ॥ तए णं से हरिण्णेगमेसी पायत्ताणीयाहि वई देवे सक्केणं देविंदाणं देवरत्ता एवं बुत्ते  
 समाणे हठत्तुठ-जाव हठ्ठहियए करयल-जाव त्तिकट्टु जं देवो आणावेइत्ति आणाए विणएणं  
 वयणं पडिसुण्णेश-पम्पिसुण्णित्ता उत्तरपुरह्णिमं दिसीभागं अक्कमइ, (१) ता विउविअसमुग्घाएणं

समोद्गणइ, समोद्गणित्ता संखिजाइं जोश्रणाइं दंडं निस्सरइ. तं जहा-रयणाणं वयराणं वेरुखिआणं  
 खोद्विअरुकाणं मसारगह्वाणं हंसगप्राणं पुखयाणं सोगंधियाणं जोईरसाणं अंजणाणं अंजणपुत्र-  
 याणं जायरूत्राणं सुन्नगाणं अंकाणं फखिहाणं रिछाणं अहावाचरे पुगले परिसाहेइ, परिसाडित्ता अ-  
 हासुहुमे पुगले परिआएइ ॥२७॥ (२) ता हुच्चं पि वेउविअसमुघाएणं समोद्गणइ, (२) ता उत्तरवेउ-  
 वियं रूवं विउवइ, (२) ता ताए उक्किछाए तुरिआए चवखाए चंफाए जयणाए उद्धूआए सि-  
 ग्घाए तेआए दिवाए देवगइए वीईवयमाणे (२) तिरिअमसंखिजाणं दीवसमुहाणं मज्जं मज्जेणं  
 जेणेव जंबुदीवे दीवे, जेणेव चारहेवासे, जेणेव माहणकुंडगामे नयरे, जेणेव उसभदचस्स मा-  
 इणस्स गिहे, जेणेव देवाणंदा माहणी, तेणेव उवागहइ, उवागहित्ता आलोए समणस्स भगवउ  
 महावीरस्स पणामं करेइ, पणामं करित्ता देवाणंदाए माहणीए सपरिजणाए उसावणिं दलइ, दलित्ता  
 असुजे पुगले अत्रहरइ, (२) ता सुजे पुगले पखिवइ (२) ता “अणुजाणउ मे जयवं” त्तिकइ,  
 समणं जगवं महावीरं अवाचाइं अवावाहेणं दिवेणं पहावेणं करयलसंपुडेणं गिहइ, (२) ता जेणेव

खत्तिञ्चकुंरुगामे नयरे, जेषेव सिद्धुब्दस्स खत्तियस्स गिहे, जेषेव तिसखाखत्तियाणी, तेणेव उवागह्द, तेणेव उवागह्त्तिता तिसखाए खत्तिञ्चाणीए सपरिजणाए उसावणिं दलइ, दलित्ता अमुत्ते पुग्गळे अवहरइ, अवहरित्ता सुत्ते पुग्गळे पखिवइ, पखिवित्ता समणं जगवं महावीरं अवाभाहं अवावाहेणं दिवेणं पइवेणं तिसखाए खत्तियाणीए कुळिसि गप्पत्ताए साहरइ, जेवि य णं से तिसखाए खत्तिआणीए गप्पे तं पि य णं देवाणंदाए माहणीए जालंधरसयुत्ताए कुळिसि गप्पत्ताए साहरइ, साहरित्ता जामेव दिसिं पाउप्पुए तामेव दिसिं पग्गिगए ॥ १७ ॥ ताए उक्किष्ठाए तुरिआए उच्छूआए चवलाए चं-डाए जयणाए सिग्घाए दिवाए देवगइए, तिरिअमसंखिजाणं दीवसमुद्दाणं मज्जं मजेणं जोयणसयसा-हस्सिएहिं विग्गहेहिं उप्पयमाणे (१) जेषामेव सोहम्ममे कप्पे सोहम्मवन्निंसाए विमाणे सक्कंसि सीहास-णं सिसक्के देविं दे देवराया तेणामेव उवागह्दइ, (२) ता सक्कस्स देविं दस्स देवरत्तो तमाणच्चिञ्चं खिप्पामेव पच्चप्पिणइ ॥ २९ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे जगवं महावीरे जे से वासाणं तच्चे मासे पंचमे पक्के आसोअबहुले, तस्स णं आसोअबहुलस्स तेरसीपक्केणं वासीइइदिएहिं विइक्कतेहिं तेसीइ-

मस्य राईन्द्रिअस्स अंतरा वट्टमाणस्स, हिअणुकंपएणं देवेणं हरिणेगमेसिणा सक्कवयणसंदिठ्ठेणं  
 माहणकुंइगामाउं नयरालं उसजदत्तस्स माहणस्स कोडालसगुत्तस्स जारिअए देवाणंदाए माहणीए  
 जालंधरसगुत्ताए कुळितं खत्तिअणं नयरे नायाणं खत्तिअणं सिद्धहस्स खत्तिअस्स कासवगुत्तस्स  
 भारिअए तिसलाए खत्तिअणीए वासिठसगुत्ताए पुवरत्तावरत्तकालसमयंसि इहुत्तराहिं नकत्तेणं  
 जोगमुवागएणं अवावाहं अवावाहेणं दिव्वेणं पहाव्वेणं कुळिसि गप्पत्ताए साहरिए ॥३०॥ तेणं कालेणं  
 तेणं समएणं समणे जगवं महावीरे तिन्नाणोवगए अविहुत्ता साहरिअस्सामिति जाणइ, साहरि-  
 जमाणे न जाणइ, साहरिएसिति जाणइ ॥ जं रयणिं च एणं समणे भगवं महावीरे देवाणंदाए मा-  
 हणीए जालंधरसगुत्ताए कुळितं तिसलाए खत्तिअणीए वासिठसगुत्ताए कुळिसि गप्पत्ताए माहरिए,  
 तं रयणिं च णं सा देवाणंदा माहणी सयणिजंसि सुत्तजागरा उहीरमाणी (२) इमे एयारूवे उराले  
 कट्ठाणे सिन्ने धन्ने मंगद्वे सस्सिरीए जाव चउइस महासुमिणे तिसलाए खत्तिअणीए इड्ढेति पा-  
 सिता णं पडिबुद्धा, तं जहा-गय वसइ गाहा ॥ ३१ ॥



जं रयणिं च णं समणे भगवं महावीरे देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुब्बिन् तिस-  
 लाए खत्तिआणीए वासिठसगुत्ताए कुब्बिसि गप्पत्ताए साहरिए, तं रयणिं च णं सा तिसला खत्तिआ-  
 णी तंसि तारिसगंसि वासधरंसि अप्पितरत्तं सच्चित्तकम्मे बाहिरत्तं दूमिअघट्टमढे विच्चित्तलद्धोअचि-  
 द्वियत्तत्ते मणिरयणपणासिअंधयारे बहुसमसुविभत्तभूमिजागे पंचवन्नसरससुरहिमुक्कपुप्फपुंजोवया-  
 रकलिए कालागुरुपवरकुंडुरक्कतुरुक्कत्तं धूवमघमधंतं गंधुयात्रिासे सुगंधवरगंधिए गंधवट्टिभूए  
 तंसि तारिसगंसि सयणिजंसि साखिणवट्टिए उन्नत्तं विब्बोअणे उन्नत्तं लन्नए मजे णयगंजीरे  
 गंगापुलिणवालुआवहालसालिसए उवचिअखोमिअदुगुह्वपट्टपफिह्वेत्ते सुविरइअरयत्ताणे रत्तंसुय-  
 संवुढे सुरम्मे आइणगरूयबूरनवणीअतून्नत्तुह्वफासे सुगंधवरकुसुमचुन्नसयणोवयारकलिए पुवरत्ता-  
 वरत्तकाखसमयंसि सुत्तजागरा उह्हीरमाणी (२) इमे एअारूवे उराले जात्र चउहस महासुमिणे  
 पासित्ता णं पडिबुद्धा, तं जहा-गय १ वसह २ सीह ३ अत्रिसे-यथ ५ दाम ५ असि ६ दिणयरं  
 ७ ऊयं ८ कुंजं ए ॥ पउमसर १० सागर ११ विमा-ए त्रवण ११ रयणुच्चय १३ सिहिं च १४

॥ ३२ ॥ तए णं सा तिसलावत्तिआणी तप्पढमयाए चउइंतमूसिअगखिअविपुलजलहरहारनिक-  
 रखीरसागरससंककिरणदगरयरययमहासिलपंचुरं समागयमहुयरसुगंधदाणवासियकपोलमूलं देव-  
 रायकुंजरप्पमाणं पिह्वइ सजलघणविपुलजलहरगज्जियगंजीरचारुघोसं इत्तं सुत्तं सबलखणक-  
 यंधिअं वरोहं ॥ १ ॥ ३३ ॥ तत्तं पुणो धव्वलकमलपत्तपयराइरेगरूवप्पत्तं पहासमुदत्तवहारोहिं सबल-  
 चेव दीवयत्तं अइसिरिजरपिह्वणाविसप्पंतकंतसोहंतचारुककुहं तएसुसुकुमाललोमनिऋत्तविं थिर-  
 सुयऋमंसलोवचियलठसुविचत्तसुंदरंगं पिह्वइ घणवट्टलठउक्किह्वतुप्पगतिकसिंगं दंतं सिवं समा-  
 णसोहंतसुऋदंतं वसहं अमिअगुणमंगलमुहं । १ ॥ ३४ ॥ तत्तं पुणो हारनिकरखीरसागरससंक-  
 किरणदगरयरययमहासिलपंचुरंगं (ग्रं० २००) रमणिज्जपिह्वणिज्जंथिरलठपउट्टं वट्टपीवरसुसिलिह्वविसि-  
 द्दतिकदाढाविडंविअमुहं परिकम्मिअजच्चकमलकोमलपमाणसोहंतलठउठं रत्तुप्पलपत्तमउअसुकुमा-  
 लतालुनिह्वालियगजीहं मूसारागयपवरकणगताविअआत्रत्तायंतवट्टतडियविमलसरिसनयणं विसालपी-  
 वरवरोहं पडिपुन्नविमलत्वं मिउविसयसुहुमलखणपसह्वविह्विन्नकेसराडोवसोहिअं उसिअसुनिम्मिअ-

सुजायआप्फोमिअलंगुलं सोमं सोमाकारं लीलायंतं नह्यलात् उवयमाणं नियगवयणमश्चयंतं पिबेइ  
 सा गाढतिखगनहं सीहं वयणसिरीपद्ववपत्तचारुजीहं ॥ ३ ॥ ३५ ॥ तल पुणो पुन्नचंदवयणा उ-  
 च्चागयठाणलट्टसंठिअं पसत्तरूवं सुपइट्टिअकणगमयकुम्मसरिसोवमाणचलणं अच्चुन्नयपीणरइ-  
 अमंसलउवचियतणुतंबनिरुनहं कमलपलाससुकुमालकरचरणं कोमलवरंगुलिं कुरुविंदावत्तवट्टाणुपु-  
 वजंधं निगूढजाणुं गयवरकरसरिसपीवरोरुं चामीकरइअमेहलाजुत्तं कंतविह्विन्नसोणिचकं जच्चंज-  
 णत्तमरजलयपयरउज्जुअसमसंहिअतणुअआइजालडहसुकुमालमउअरमणिज्जरोमराइं नात्तीमंरुलसुं-  
 दरविसालपसत्तजघणं करयलमाइअपसत्तितिवलियमज्जं नाणामणिकणगरयणविमलमहातवणिज्जाभ-  
 रणभूसणविराइयमंगुवंगिं हारविरायंतकुंदमालपरिणद्धजलजलंततथणजुअलविमलकलसं आइयपत्ति-  
 अविभूसिणं सुत्तगजाबुज्जलेणं मुत्ताकलावणं उरत्तदीणारमालविरइएणं कंठमणिसुत्तएणं कुंरुलजुं-  
 अबुद्धसंतअंसोवसत्तसोभंतसप्पत्तेणं सोभागुणसमुदएणं आणएकुडुंविएणं कमलामलविसालरमणिं  
 ज्जलोअणिं कमलपज्जलंतकरगहिअमुक्कतोयं लीलावायकयपक्कएणं सुविसदकसिणघणसल्लवंतंके-

सङ्घं पञ्चमद्वकमलवासिणिं सिरिं जगवइं पिह्वइं हिमवंतसेलसिहरे दिसागइंदोरुपीवरकराभि-  
 सिधमाणि ॥४॥३६॥ तउ पुणो सरसकुसुममंदारदामरमणिज्जजूअं चंपगासोगपुम्मागनागपिअंगुसिरी-  
 ससुग्गरमद्विआजाइजूहिअंकोह्वकोज्जकोरिंपत्तदमणयनवमाखिअवउलतिलयवासंतिअपठमुप्पल-  
 पाडलळंदाइसुत्तसहकारसुरजिगंधिं अणुवममणोहरेणं गंधेणं दस दिसाउवि वासयंतं सबोउअसुर-  
 जिअसुममह्वधवलविलसंतकंतवहुवन्नजत्तिचित्तं उप्पयमहुअरीजमरणगुमगुमायंतनिदित्तुंजंतदे-  
 खभागं दामं पिह्वइं नचंगणतलाउ उवयंतं ॥ ५ ॥ ३७ ॥ ससिं च गोखीरफेणदगरययकलसंपंडुरं  
 सुजं द्विअयनयणकंतं पफिपुन्नं तिमिरनिकरघणगुहिरवितिमिरकरं पमाणपखंतरायवेहं कुमुअवण-  
 विबोइगं निसासोइगं सुपरिमट्टदप्पणतलोवमं हंसपडुवअं जोइसमुहमंरुगं तमरिपुं मयणसरापूरगं  
 ससुरदगपूरगं दुम्मणं जणं दइअवजिअं पाएहिं सोसयंतं पुणो सोमचारुखं पिह्वइं सा गगण-  
 मंरुलविसालसोमचंरुम्ममाणतिलयं रोहिणीमणह्विअवद्वहं देवी पुन्नचंदं समुद्वसंतं ॥ ६ ॥ ३८ ॥  
 तउ पुणो तमपरुल्लपरिफुनं चैव तेअसा पज्जलंतखं रत्तासोगपगासकिंसुअसुअमुहगुंजळरागस-

रिसं कमलवणासंकरणं अंकणं जोडसस्स अंबरतलपईवं हिमपरुलगलगहं गहगणोरुनायगं रत्ति-  
विणासं उदयढमणेसु मुहुत्तं सुहदंसणं डुन्निरिस्करूवं रत्तिमुळंतदुप्पयारप्पमहणं सीअवेगमहणं  
पिह्वइ मेरुगिरिसथयपरिअट्टयं विसाढं सूरं रस्सीसहस्सपयलियदित्तसोहं ॥ १ ॥ ३ए ॥ तउ पुणो  
जच्चकणगलट्टिपइत्थिअं समुहनीलरत्तपीयसुक्खिलसुकुमालुद्धसियमोरपिह्वकयमुळुयं थयं अहियसस्सि-  
रीयं फलिअसंखंककुंददगरयरयकलसंपंशुरेण म्भयत्थेण सीहेण रायमाणेण रायमाणं त्रित्तुं गग-  
णतलमंरुलं चेव ववसिएणं पिह्वइ सिवमउयमारुयलथाहयकंपमाणं अइप्पमाणं जणपिह्वणिज्जरूवं  
॥ ८ ॥ ४० ॥ तउ पुणो जच्चकंचणुज्जलंतरूवं निम्मलजलपुन्नमुत्तमं दिप्पमाणसोहं कमलकलावपरि-  
रायमाणं पफिपुन्नसवमंगलत्थेयसमागमं पवररयणपरिरायंतकमलट्टियं नयणभूसणकरं पभासमाणं  
सवउ चेव दीवयंतं सोमलह्ठीनिन्नेलणं सवपावपरिवज्जिअं सुचं चासुरं सिरिवरं सवोउयसुरच्चिकु-  
सुमआसत्तमह्वदामं पिह्वइ सा रययपुन्नकलसं ॥ ए ॥ ४१ ॥ तउ पुणो पुणरवि रविकिरणतरुणवो-  
हियसहस्सपत्तसुरभितरपिंजरजलं जलचरपहकरपरिह्वगमहपरिञ्जुज्जमाणजलसंचयं महंतं जलंत-

मिथ कमलकृत्रलय उपप्लतामरसपुंडरीतरुसप्पमाणसिरिसमुदपूणं रमणिज्जरुवसोहं पमुश्यंतजमर-  
गणमत्तमदुयरिगणुक्रोद्विज्जमाणकमलं कायंत्रगवलाहयचक्ककलहंससारसगविश्रसजणगणसिदुण-  
सेविज्जमाणसद्विदं पजसिणिपत्तोवल्लगजलविंदुनिचयचित्तं पिहइ सा द्वियनयणकंतं पजमसरं नाम  
सरं सररुहान्तिरामं ॥ १० ॥ ४२ ॥

तउ पुणो चंदकिरणारिससिरिवहसोहं चजगमणपवहुमाणजलसंशयं चवसचंचलुञ्चायप्पमा-  
णकह्वोलखोलंततोयं पमुपवणाहयचद्वियचवलपागडतरंगंतत्रंगखोबुप्रमाणसोत्रंतनिम्मदुक्कडउ-  
म्मीसइसंबंधयावमाणवनियत्तजासुरतरान्तिरामं महामगरमह्मतिमित्तिमिगिलनिरुद्धतिल्लितिलिया-  
भिधायकप्पूरफेणपसरं महानईतुरियवेगसमागयत्तमंगवत्तगुप्पमाणुष्वदंतपच्चोनियत्तजममाण-  
लोत्तसल्लिखं पिहइ खीरोयसायरं सा रयणिकरसोममयणा ॥ ११ ॥ ४३ ॥ तउ पुणो तरुणसूरमंफल-  
समप्पहं दिप्पमाणसोत्रं उत्तमकंचणमहामणिसमूहपवरतेयश्रष्ठसइस्सदिप्पंतनइप्पईधं कणगपयर-  
लंथमाणमुत्तासमुज्जलं जलंतदिव्वदामं ईहामिगउसजतुरगनरमगरविह्वगबालगकिन्नररुहसरत्तच-

मरसंसत्कुंजरवणलयपलमलयत्रित्चित्तं गंधवोपवज्जमाणसंपुन्नघोसं निच्चं सजलघणविउलजलहर-  
 गजियसहाणुणाइणा देवडुंडुहिमहारवेणं सयलमवि जीवलोयं पूरयंतं काढागुरुपवरकुंदुरुकतुरुक-  
 डज्जमाणधूववासंगउत्तममघमधंतगंधुडुयात्रिरामं निच्चालोयं सेयं सेयप्पन्नं सुरवरात्रिरामं पिच्चइ  
 सा सालवभोगं वरविमाणपुंडरीयं ॥ १२ ॥ ४४ ॥ तड पुणो पुलगवेरिदनीलसासगकक्केयणलोहि-  
 यक्कमरगयमसारगह्वपवालफलिहसोगंधियहंसगप्पअंजणचंदप्पहवररयणेहिं महियलपइठिअं गग-  
 णमंरुलंतं पभासयंतं तुंगं मेरुगिरिसन्निगासं पिच्चइ सा रयणनिकररासिं ॥ १३ ॥ ४५ ॥ सिहिं च सा  
 विउलुज्जलपिंगलमहुधयपरिसिच्चमाणनिद्धुमधगधगाइयजलंतजालुज्जलात्रिरामं तरतमजोगजुत्तेहिं  
 जालापयरेहिं अन्नुन्नमिव अणुप्पइन्नं पिच्चइ जालुज्जलणगअंबरंव कहइ पयंतं अइवेगचंचलं सिहिं  
 ॥ १४ ॥ ४६ ॥ इमे एयारिसे सुत्ते सोमे पियदंसणे सुरूवे सुमिणे दट्टुण सयणमज्जे पडिबुद्धा अरविंदलो-  
 यणा हरिसपुल्लइअंगी एए चउदस सुमिणे सवा पासेइ तिहयरमाया जं रयणिं वक्कमइ कुब्बिसि  
 महायसो अरिहा ॥ ४७ ॥ तए णं सा तिसलाखत्तियाणी इमे एयारूवे उराखे चउदस महासुमिणे

पासिता एं पडिबुद्धा समाणी इट्टुट्ट-जाव-हियया धाराइयकथंभपुप्फगंपिव समुस्ससिअरोमकूवा  
मुमिणुगहं करेइ, करित्ता सयणिज्जाउ अयुठ्ठेइ, (२) ता पायपीढाउ पच्चोरुइइ, (२) ता अतुरि-  
अमभवससंजंताए अविखंविधाए रायहंससरिसीए गइए जेणेव सयणिजे जेणेव सिद्धे खत्तिए  
तेणेव उवागह्णइ, (२) ता सिद्धं खत्तिअं ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं मणुन्नाहिं मणोरमाहिं  
उरासाहिं कद्धाणाहिं सिवाहिं धन्नाहिं मंगलाहिं सस्सिरीयाहिं हिययगमणिजाहिं हिययपल्हायणि-  
ज्जाहिं मिअमहुरमंजुलाहिं गिराहिं संलवमाणी (२) पक्खीदेइ ॥ ४७ ॥ तए णं सा तिसला  
खत्तिआणी सिद्धेणं रत्ता अप्पणुन्नाया समाणी नाणामणिकणगरयणत्तिचित्तंसि जद्दासणंसि  
निसीयइ, निसीइत्ता आसत्ता वीसत्ता सुहासणवरगया सिद्धं खत्तिअं ताहिं इट्ठाहिं जाव संलव-  
माणी (२) एवं वयासी ॥ ४८ ॥ एवं खलु अहं सामी ! अज्ज तंसि तारिसगंसि सयणिजंसि  
( वणाउ ) जाव-पडिबुद्धा, तं जहा-गयवसहगाहा तं एणंसि सामी ! उराजाणं चउदसण्हं म-  
दासुमिणाणं के मत्ते कद्धाणे फलवित्तिविसेसे जविस्सइ ? ॥ ४९ ॥ तए णं से सिद्धे राया तिस-



स्नाप्य लक्ष्मिआणीम् अंति एष्यमन्तं सुध्वा निसम्म हृदयुह-जाव-द्वियम् धाराहयनीवसुरभिक्षुसुमचं-  
 चुमासशयोमकूवे ते सुमिणे उगिण्डइ, उगिण्डइ, ईहं अणुपविसिदा ईहं अणुपविसिदा अणुपविसिदा  
 साहाविषणं मशुवणं बुद्धिविष्णुणं तेषि सुमिणां अणुगणं करेइ (२) ता तिसदं लक्ष्मि-  
 आणं ताहिं इच्छाहिं जाव मंगलाहिं मिथमहुरसस्सिरीयाहिं वगुहिं संभवमाणे (३) एवं वयासी  
 ॥ ५१ ॥ उरासाणं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिष्ठा, कक्षाणा णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा  
 दिष्ठा, एवं सिवा, धन्ना, मंगल्ला, सस्सिरीया, आरुग-तुष्ठी-दीहाउ-कक्षाणा-( ग्रंथा० ३०० )  
 मंगल्ल-कारगा णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिष्ठा, अन्नसाजो देवाणुप्पिए ! जोगसाजो दे०, पुत्त-  
 साजो दे०, सुखलाभो दे०, रज्जलाभो दे०, एवं खलु तुमे देवाणुप्पिए ! नवल्लं मासाणं वहुपडिपु-  
 ण्णाणं अरुहमाणं राशंदियाणं विष्कंताणं अमहं कुलकेउं, अमहं कुलदीवं, कुलपवयं, कुलवडिसयं,  
 कुलकित्तिकरं, कुलवित्तिकरं, कुलधारं, कुलनंदिकरं, कुलजसकरं, कुलपायवं, कुल-  
 विवरुणकरं, सुकुमालपाणिपायं, अहीणपफिपुन्नपंचिदियसरीरं, लक्षणवंजणगुणोववेयं, माणुम्मा-

णप्पमाणपडिपुन्नसुजायसवंगसुंदरंगं, ससिसोमागारं, कंतं, पियदंसणं, सुरूवं दारयं पयाहिसि ॥५१॥  
 सेवि अ णं दारणं उम्मुक्कवाडभावे विनायपरिणयमित्ते जुवणगमणुपत्ते सूरे वीरे विकंते विह्विन्न-  
 विउलवलवाइणे रज्जवई राया जविस्सइ ॥ ५३ ॥ तं लं राला णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिठा  
 डुच्चं पि तच्चं पि अणुवूइइ, तणं सा तिसलाखत्तियाणी सिरूहस्स रत्तो अंतिए एयमठं सुच्चा निस्सम्म  
 इठतुट्ट-जाव-हियया करयलपरिगहिअं दसनहं मत्तए अंजलिं कट्टु एवं वयासी ॥५४॥ एवमेयं  
 सामी, तहमेयं सामी, अवितहमेयं सामी, असंदिरूमेयं सामी, इह्विअमेयं सामी, पडिह्विअमेयं  
 सामी, इह्विअपडिह्विअमेयं सामी, सामी सच्चेणं एस अठे-से जहेयं तुप्पे वयइ त्तिकट्टु ते सुमिणे  
 सम्मं पक्किहइ, (२) चा सिरूहेणं रत्ता अप्पणुत्ताया समाणी नाणामणिरयणत्तित्ताले जवा-  
 सणात्ते अप्पुठेइ, (३) चा अतुरियमचवलमसंचंताए अविंलंविआए रायहंससरिसीए गइए, जेणेव  
 सए सयणिल्ले, तेणेव उवागहइ, (२) चा एवं वयासी ॥ ५५ ॥

मा मे एए उत्तमा पहाणा मंगला सुमिणा दिठा, अत्तेहिं पावसुमिणेहिं पडिह्विसंसंति त्तिकट्टु

देवगुरुजनसंबन्धाहिं पसन्नाहिं मंगलाहिं धम्मिमयाहिं कहाहिं सुमिणजागरिअं जागरमाणी पडिजागर-  
 माणी विहरइ ॥५६॥ तए णं सिद्धहे खत्तिए पच्चूसकालसमयंसि कोडुंबिअपुरिसे सदावेइ, (१) ता  
 एवं वयासी ॥५७॥ खिप्पामेव भो देवाणुप्पिआ! अज्ज सविसेसं बाहिरिअं उवट्ठाणसालं गंधोदय-  
 सित्तं सुइसंमज्जिर्त्तवलित्तं सुगंधवरपंचवन्नपुष्पोषवारकुंदुरुक्कतुरुक्कडज्जंतधूव-  
 मधमधंतगंधुद्धूयान्निरामं सुगंधवरगंधियं गंधवट्ठिभूअं करेइ कारवेइ य करित्ता कारवित्ता य सी-  
 हासणं रयावेइ, (२) ता ममेयमाणत्तियं खिप्पामेव पच्चप्पिणह ॥ ५८ ॥ तए णं ते कोडुंबिअ-  
 पुरिसा सिद्धहेणं रत्ता एवं वुत्ता समाणा इट्ठतुठ-जाव-हिअया जाव अंजलिं कट्टु “ एवं सामि ”  
 त्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणंति, (३) ता सिद्धहस्स खत्तिअस्स अंतिआलं पडिनिक्कमंति,  
 (२) ता जेणेव बाहिरिआ उवट्ठाणसाळा तेणेव उवागहंति, उवागहत्तिता खिप्पामेव सविसेसं  
 बाहिरियं उवट्ठाणसालं गंधोदयसित्तं सुइं जाव-सीहासणं रयावित्ति, (२) ता जेणेव सिद्धहे  
 खत्तिए तेणेव उवागहंति, (२) ता करयलं जाव महए अंजलिं कट्टु सिद्धहस्स खत्तिअस्स त-

माणत्तिअं पञ्चप्पिपणंति ॥ ५ए ॥ तए णं सिरुठ्ठे खत्तिए कद्धं पाउप्पभाए रयणीए फुल्लुप्पलकम-  
सकोमसुम्ममीलियंमि अहापंचुरे पभाए रत्तासोगप्पगासकिंसुअसुअसुइगुंजद्धरागबंधुजीवगपारावय-  
नल्लणनयणपरहुअसुरत्तलोअणजासुअक्कुसुमरासिहिं गुल्लनिअराइरेइंतसरिसे कमलायरसंरुत्तिवो-  
इए उठ्ठिअंमि मूरे सहस्सरस्सिमि दिणयरे तेअसा जलंते, तस्स य करपहरापरच्छंमि अंधयारे  
वालायवकुंकुमेणं खत्तिअव जीवलोए सयणिज्जालं अश्रुठ्ठेइ ॥६०॥ (१) ता पायपीढालं पच्चोरुइइ  
(२) ता जेणेव अट्टणसाला तेणेव उवागल्लइ, (२) ता अट्टणसालं अणुपविसइ, (२) ता अणेग-  
वायामजोगवगणवामइणमद्वजुक्करोणेहिं संते परिस्संते सयपागसइस्सपागेहिं सुगंधवरतिद्धमाइ-  
एहिं पीणणिज्जेहिं दीवणिज्जेहिं मयणिज्जेहिं विहणिज्जेहिं दप्पणिज्जेहिं सविंदियगायपट्टहायणिज्जेहिं  
अप्रंगिए समाणे तिद्धचम्मंसि निजणेहिं पडिपुन्नपाणिपायसुकुमालकोमलतलेहिं अप्रंगणपरिमह-  
णुवज्जणकरणगुणनिम्माएहिं वेएहिं दक्केहिं पट्टेहिं कुसखेहिं मेहाविहिं जिअपरिस्समेहिं पुरिसोहिं  
अठ्ठिसुहाए मंससुहाए तथासुहाए रोमसुहाए चउविहाए सुहपरिकम्मणाए संवाहणाए संवा-

द्विए समाणे अवगयपरिस्समे अट्टणसालाउ पडिनिक्कमइ ॥ ६१ ॥ ( १ ) ता जेणेव मज्जणघरे  
तेणेव उवागहइ, ( २ ) ता मज्जणघरं अणुपविसइ ( ३ ) ता समुत्तजात्ताकुलाच्चिरामे विचित्तम-  
णिरयणकुट्टिमतत्ते रमणिल्ले ण्हाणमंरुवंसि नाणामणिरयणत्तिचित्तंसि ण्हाणपीठंसि सुहनिसन्ने  
पुप्फोदएहि अ, गंधोदएहि अ, उल्लोदएहि अ, सुहोदएहि अ, सुद्धोदएहि अ, कद्धाणकरण-  
पवरमज्जणविहीए मज्जिए तह कोउअसएहिं बहुविहेहिं कद्धाणगपवरमज्जणावसाणे पम्हलसुकुमाल-  
गंधकासाइअबूहिअंगे अहयसुमहघट्टसरयणसुसंबुडे सरससुरनिगोसीसचंदणाणुलित्तगत्ते सुइ-  
मालावन्नगविलेंवणे आविद्धमणिसुवन्ने कप्पिअहाररुद्धारतिसरयपालंबपालंबमाणकटिसुत्तसुकय-  
सोहे पिणरुगेविजे अंगुलिज्जगल्लियकयात्तरणे वरकरुगतुडिअथंत्तिअत्तुए अहिअरुवसस्सि-  
रीए कुंरुल्लउज्जोइआणणे मउरुदित्तसिए हारुत्तियसुकयरइअवहे सुदिआपिंगलंगुलीए पालंबपालं-  
बमाणसुकयपडउत्तरिजे नाणामणिकणगरयणविमलमहरिहंनिउणोवचिअमिसिसिमिसितविरइअ-  
सुसिद्धिविसिद्धलट्टआविद्धवीरवलए, किं बहुणा कप्परुक्कएविव अलंकिअविभूसिए नरिंदे, स-



कोरंटमह्वदामेणं वृत्तेणं धरिज्जामाणेणं सेयवरचामराहिं उधुवमाणीहिं मंगलजयसङ्कयालोए  
 अणेगगणनायगदंरुनायगराईसरतलवरमानंविअकोडुंविअमंतिमहामंतिगणगदोवारियअमच्चचेड-  
 पीढमइनगरनिगमसिद्धिसेणावइसब्बवाहूअसंधिवालसाद्धिं संपरिवुडे धवलमहामेहनिगए इव  
 गइगणदिप्पंतरिखतारागणामज्जे ससिव पिअदंसणे नरवई नरिंदे नरवसहे अत्तहिअरायतेअ-  
 ल्लणीए दिप्पमाणे मज्जाणघअले पन्निखिमइ ॥ ६१ ॥ मज्जाणघराले पन्निखिमिता जेणेव वाहि-  
 रिया उवट्ठाणसाखा तेणेव उवागहइ, (१) ता सीहासणंसि पुरब्बान्निमुहे निसीअइ, (२) ता  
 ॥ ६३ ॥ अप्पणो उत्तरपुरछिमे दिसीजाए अट्टभदासणाइं सेअवठपच्चुब्बयाइं सिद्धकयमंगलोव-  
 याराइं रयावेइ (२) ता अप्पणो अट्टरसामंते नाणामणिरयमंफिअं अहिअपिह्बणिज्जं महग्घवरपट्टण-  
 म्भयं सण्हपट्टभत्तिसयचित्तताणं ईहामिअउसभतुरगतरमगरविइगवालगकिंत्तररुत्तरत्तचमरकुं-  
 जरवणस्यपउसलयभत्तिचित्तं अप्पितरिअं जवणिअं अंठावेइ, (२) ता नाणामणिरयणत्तित्तिचित्तं  
 अउरयमिउमसूरगोळयं सेअवठपच्चुब्बअं अंगसुहफरिसं विसिहं तिसदाए खत्तिआणीए चद्दासणं

रयावेइ, (१) ता कोडुंबिअपुरिसे सदावेइ, (२) ता एवं वयासी ॥ ६४ ॥ खिप्पामेव जो देवाणु-  
 प्पिआ ! अट्टंगमहानिमित्तसुत्तहधारए विविहकुसहससे सुविणलखणपाढए सदावेइ ॥ तए णं ते  
 कोडुंबिअपुरिसा सिद्धेणं रत्ता एवं बुत्ता समाणा इट्टतुट्ठ-जाव-दियया करयल जाव पम्पिसुणंति,  
 (२) ता ॥ ६५ ॥ सिद्धहस्स खत्तियस्स अंतिआलं पम्पिनिकमंति, (२) ता कुंरुपुरं नयरं मज्जे  
 मज्जेणं जेणेव सुविणलखणपाढगाणं गेहाइं तेणेव उवागहंति (२) ता सुविणलखणपाढए सदा-  
 विति ॥ ६६ ॥ तए णं ते सुविणलखणपाढगा सिद्धहस्स खत्तियस्स कोडुंबिअपुरिसेहिं सदाविआ  
 इट्टतुट्ठ-जाव-दियया एहायकयबलिकम्मा कयकोउअमंगलपायहिंता सुद्धप्पवेसाइं मंगलाइं व-  
 छाइं पवराइं परिहिआ अप्पमहग्घाभरणालं कियसरीरा सिद्धहयहरिआलिआ कयमंगलमुद्धाणा स-  
 एहिं (२) गेहेहिंतो निगहंति, (२) ता खत्तियकुंडगामं नगरं मज्जेणं जेणेव सिद्धहस्स रत्तो  
 जवणवरवडिसगपडिडुवारे तेणेव उवागहंति (२) ता भवणवरवडिसगपडिडुवारे एगलं मिलंति,  
 (२) ता जेणेव बाहिरिआ उवट्ठाणसात्ता जेणेव सिद्धे खत्तिए तेणेव उवागहंति (२) ता कर-

यत्न-जात्र अंजलिं कटु सिद्धत्रं खत्तिञ्चं जएणं विजएणं वद्धाविति ॥ ६७ ॥ तए णं ते सुवि-  
 णलखणपाढगा सिद्धत्रेणं रत्ना वंदिअपूर्ईअसक्कारिअसम्माणिआ समाणा पत्तेअं (१) पुवन्नत्तेसु  
 नदासणेसु निसीयंति ॥ ६८ ॥ तए णं सिद्धत्ते खत्तिए तिसदं खत्तियाणिं जवणिअंतरियं ठा-  
 वेइ, (२) ता पुक्कफलपम्पिपुन्नइत्ते परेणं विणएणं ते सुविणलखणपाढए एवं वयासी  
 ॥ ६९ ॥ एवं खत्तु देवाणुप्पिया! अज्ज तिसला खत्तियाणी तंसि तारिसगंसि-जाव सुत्तजागरा  
 उहीरमाणी (२) इमे एयारूवे चउइस महासुमिणे पासित्ता णं पम्पिबुद्धा ॥ ७० ॥ तं जहा-गय-  
 वसइगाहा ॥ तं तेसिं चउइसएणं महासुमिणाणं देवाणुप्पिया उरालाणं के मन्ने कद्धाणे फलवित्ति-  
 वित्सेसे जविस्सइ ॥ ७१ ॥ तए णं ते सुमिणलखणपाढगा सिद्धत्तस्स खत्तिअस्स अंतिए, एयमठं  
 सुधा निसम्म इठतुठ-जाव-इठ्ठहियया, ते सुमिणे सम्मं उगिएहंति (२) ता ईहं अणुपविसंति,  
 (२) ता अन्नमन्नेणं सद्धिं संलाविति, (२) ता तेसिं सुमिणाणं बद्धा गहिअट्टा पुब्बिअट्टा वि-  
 णिष्ठियट्टा अजिगयट्टा सिद्धत्तस्स रत्तस्स पुरउ सुमिणसट्टाई, उच्चारेमाणा (२) सिद्धत्तं खत्तियं एवं



वयासी ॥ ७२ ॥ एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं सुमिणसहे बायालीसं सुमिणा, तीसं महासुमिणा,  
 बावत्तरिं सव्वसुमिणा दिट्ठा, तव्व णं देवाणुप्पिया ! अरहंतमायरो वा चक्कवट्टिमायरो वा अरहंतंसि  
 (अं० ४००) वा चक्कहरंसि वा गप्पं वक्कममाणंसि, एएसिं तीसाए महासुमिणाणं इमे चउद्वस महा-  
 सुमिणे पासित्ता णं पडिबुज्जंति, ॥ ७३ ॥ तं जहा-गयवसहगाहा ॥ ७४ ॥ वासुदेवमायरो वा  
 वासुदेवंसि गप्पं वक्कममाणंसि, एएसिं चउद्वसएहं महासुमिणाणं अन्नयरे सत्त महासुमिणे पासित्ता  
 णं पफ्फिबुज्जंति, ॥ ७५ ॥ बलदेवमायरो वा बलदेवंसि गप्पं वक्कममाणंसि, एएसिं चउद्वसएहं  
 महासुमिणाणं अन्नयरे चत्तारि महासुमिणे पासित्ता णं पफ्फिबुज्जंति ॥ ७६ ॥ मंरुलीयमायरो वा  
 मंरुलीयंसि गप्पं वक्कममाणंसि, एएसिं चउद्वसएहं महासुमिणाणं अन्नयरं एगं महासुमिणं पासित्ता  
 णं पफ्फिबुज्जंति ॥ ७७ ॥ इमे य णं देवाणुप्पिया ! तिसलाए खत्तिआणीए चउद्वस महासुमिणा  
 दिट्ठा, तं उराला णं देवाणुप्पिया ! तिसलाए खत्तियाणीए सुमिणा दिट्ठा, जाव मंगलकारगा  
 णं देवाणुप्पिया ! तिसलाए खत्तिआणीए सुमिणा दिट्ठा, तं अहलाम्भो देवाणुप्पिया, जोगलान्जो दे०,

पुत्रस्रानो दे०, मुखझाजो दे०, रज्जलाजो दे०, एवं खलु देवाणुष्विया ! तिसला खत्तियाणी नवएह  
 मासाणं बहुपडिपुत्राणं अद्भुतमाणं राइदिआणं विदकंताणं, तुम्हं कुलकेउं कुलदीवं कुलवप्पिसयं  
 कुलपत्रयं कुलतिलयं कुलकित्तिकरं कुलवित्तिकरं कुलाधारं कुलजसकरं कुलपायवं कुल-  
 तंतुसंताणविवहणकरं सुकुमालपाणिपायं अहीणपत्तिपुत्रपंचिदियसरीरं लखणवंजणगुणोववेअं  
 माणुमाणपुपमाणपडिपुत्रसुजायसवंगसुंदरं ससिसोसागारं कंतं पियदंसणं सुखुवं दारयं पयाहिसि  
 ॥ ३७ ॥ सेवि य णं दारए उम्मुक्कवालभावे विन्नायपरिणयमित्तेइजोव्वणगमणुप्पत्ते सूरे वीरे विक्कं ते  
 विन्निन्नविपुलवलवाहणे चउरंतचक्कवदी रज्जवई राया चविस्सइ, जिणे वा तिलुक्कनायगे धम्मवर-  
 चाउरंतचक्कवदी ॥ ३८ ॥ तं उरालाणं देवाणुष्विया ! तिसलाए खत्तियाणीए सुमिणा दिठा, जाव आ-  
 लगतुठिदिहाऊकह्वाणमंगह्वाकारगा णं देवाणुष्विया ! तिसलाए खत्तियाणीए सुमिणा दिठा ॥ ३९ ॥  
 तप णं सिरुत्ते राया तेसि सुमिणलखणपाढाणं अंतिए एथमहं सुच्चा निसम्म इठतुठ-जाव-  
 द्विअए करयल-जाव ते सुमिणलखणपाढगे एवं वयासी ॥ ४१ ॥ एवमेयं देवाणुष्विया ! तइ-

मेयं देवाणुपिपश्चा ! अवितहमेयं दे०, इहियमेयं दे०, पडिहियमेयं दे०, इहियपडिहियमेयं दे०,  
 सच्चेणं एस अहे से जहेयं तुझे वयहत्ति कहु, ते सुमिणे सम्मं पडिहइ (१) ता ते सुमिणलक-  
 णपाढगे विउलेणं असणेणं पुप्फवहगंधमद्दालंकारेणं सक्कारेइ सम्माणेइ, (१) ता विउलं जीवि-  
 यारिहं पीइदाणं दसइ, (२) ता 'पडिविसजेइ ॥७१॥ तए णं सिद्धे खत्तिए सीहासणाउं अप्पु-  
 डेइ, (१) ता जेणेव तिसला खत्तिआणी जवणिअंतरिया तेणेव उवागहइ, (२) ता तिसलं खत्ति-  
 याणिं एवं वयासी ॥ ७२ ॥ एवं खलु देवाणुपिपए ! सुमिणसहंसि बायालीसं सुमिणा तीसं महा-  
 सुमिणा जाव एगं महासुमिणं पासित्ता णं पफिबुज्जंति ॥ ७३ ॥ इमे य णं तुमे देवाणुपिपए ! चउ-  
 इस महासुमिणा दिट्ठा, तं उराला णं तुमे देवाणुपिपए ! सुमिणा दिट्ठा, जाव जिणे वा तेलुक्कनायगे  
 धम्मवरचारंतवक्कवही ॥७५॥ तए णं सा तिसला खत्तिआणी एयमहं सुच्चा निसम्म इइतुइ-जाव-  
 हियया करयस-जाव ते सुमिणे सम्मं पडिहइ (१) ता ॥ ७६ ॥ सिद्धेणं रत्ता अप्पणुत्ताया स-  
 माणी नाणामणिरयणभत्तिचित्तानं जहासणाउं अप्पुडेइ, (१) ता अतुरिअं अचवलं असंनंताए

अद्विजंषिआप रायहंससरिसीए गइए जेणेव सए जत्रणे तेणेव उवागहइ, (२) ता सयं जत्रणं  
 थ्याणुपविद्या ॥ ७९ ॥ जप्पजिइं च णं समणे भगवं महावीरे तंसि नायकुलंसि साहरिए, तप्पजिइं  
 च णं बहवे थेसमणकुंडधारिणो तिरियजंभगा देवा सक्कथयेणं से जाइं इमाइं पुरा पोरणाइं म-  
 द्दानिहाणाइं जवंति. तं जहा-पहीणसामिआइं, पहीणसेउआइं, पहीणगोत्तागाराइं, उह्विन्नसामि-  
 थ्याइं, उह्विन्नसेउआइं, उह्विन्नगोत्तागाराइं. गामागरनगरखेरुकक्कवरुमंवंदौणमुहपुरपट्टणासमसं-  
 धाहसत्रिवेसेसु, सिंघाडएसु वा, तिएसु वा, चउक्केसु वा, चअरेसु वा, चउम्मुहेसु वा, महापहेसु  
 वा, गामट्टाणेसु वा, नगरट्टाणेसु वा, गामनिळमणेसु वा, नगरनिळमणेसु वा, आवणेषु वा, देव-  
 कुत्तेसु वा, सजासु वा, पवासु वा, आरामेसु वा, उज्जाणेसु वा, वणेषु वा, वणसंहेसु वा, सुसाण-  
 मुन्नागरगिरिकंदरसंसित्तिखोवट्टाणत्रवणगिहेसु वा, सनिखित्ताइं चिठंति, ताइं सिळ्ळारायजव-  
 णंसि साहरंति ॥ ७७ ॥ जं रयणिं च णं समणे जगवं महावीरे नायकुलंसि साहरिए, तं रयणिं  
 च णं तं नायकुलं द्विरणेणं बह्विन्ना, सुवसेणं बह्विन्ना, धनेणं, धनेणं, रजेणं, रजेणं, बसेणं, बाहणेणं,

कोसेणं कोट्टागारेणं पुरेणं अंतेउरेणं जणवएणं जसवाएणं वट्ठिन्ना, विपुल्लधणकणगरयणमणिसो-  
 न्तियसंखसिलप्पवालरत्तरयणमाइएणं संतसारसावइजेणं पीइसक्कारसमुदएणं अईव (२) अज्जिव-  
 ट्ठिन्ना ॥ तए णं समणस्स जगवलं महावीरस्स अस्मापिज्जेणं अयमेयारूवे अप्पत्तिए चिंतिए पत्तिए  
 मणोगए संकप्पे समुप्पज्जिन्ना ॥ ७ए ॥ जप्पभिइं च णं अम्हं एस दारए कुब्भिसि गप्पत्ताए वक्कंते,  
 तप्पत्तिइं च णं अम्हे हिरणेणं वट्ठामो, सुवन्नेणं वट्ठामो, धन्नेणं, रज्जेणं, रट्ठेणं, बद्धेणं,  
 वाहणेणं, कोट्टागारेणं, पुरेणं अंतेउरेणं, जणवएणं वट्ठामो, विपुल्लधणकणगरयणमणिसोत्तियसंख-  
 सिलप्पवालरत्तरयणमाइएणं संतसारसावइजेणं पीइसक्कारेणं अईव (२) अज्जिवट्ठामो-तं जया णं  
 अम्हं एस दारए जाए जविस्सइ तथा णं अम्हे एयस्स दारगस्स एयाणुरूवं गुणनिप्पन्नं नाम-  
 धिज्जं करिस्सामो वरुमाणत्ति ॥ ८० ॥ तए णं समणे जगवं महावीरि माउअणुकंपणट्टाए निच्चले  
 निप्फंदे निरेयणे अट्ठीणपट्ठीणयुत्ते आविहोत्ता ॥ ८१ ॥ तए णं से तिसलाए खत्तियाणीए अय-  
 मेयारूवे जाव संकप्पे समुप्पज्जिन्ना. हट्ठे मे से गप्पे, मडे मे से गप्पे, चुए मे से गप्पे, गल्लिए

मे मे गप्ते, पस मे गप्ते पुविं एयइ, इयाणिं नो एयइ त्ति कट्टु, उह्यमणसंकप्पा चिंतासोगसा-  
 गरसंपविट्ठा, करयसपल्हत्तमुही, अट्टप्राणोन्नगया, भूमीगयदिट्ठिया, क्रियाअइ तंपि य सिद्धत्तरायव-  
 रत्तवणं उवरयमुङ्गंतंतीतलतालनारुड्ज्जणमणुज्जं दीणविमणं विहरइ ॥ ए२ ॥ तए णं से समणे  
 भगवं महावीरे माऊए अयमेयारूवं अप्रत्तिअं पत्तिअं मणेगयं संकप्यं समुप्पन्नं वियाणित्ता एग-  
 देसेणं एयइ ॥ तए णं सा तिसखा खत्तियाणी इट्टुत्तुह--जाव-इठ्ठहिअया एवं वयासी ॥ ए३ ॥ नो  
 खलु मे गप्ते इडे, जाव नो गखिए एस मे गप्ते पुविं नो एयइ-इयाणिं एयइत्ति कट्टु इठ्ठ-तुठ्ठ  
 एवं विहरइ ॥ ए४ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे गप्ते चेव इममेयारूवं अत्तिगहं अत्तिगिएहइ,  
 नो खलु मे कप्पइ अम्मापिठ्ठिं जीवंतेहिं सुंटे जवित्ता अगारवासले अणगरिअं पवइत्तए ॥  
 तए णं सा तिसखा खत्तियाणी एहाया कयवसिकम्मा कयकोउयमंगलपायत्तिता सवालंकारविभू-  
 सिया तं गप्पं नाइसीएहिं, नाइउत्तेहिं, नाइकत्तएहिं, नाइकसाइएहिं, नाइ अंवि-  
 खेहिं, नाइमदुरेहिं, नाइनिद्धेहिं, नाइउत्तेहिं, नाइउत्तेहिं, नाइसुक्केहिं, सबत्तुत्तयमाणसुहेहिं, भोय-

णाहायणगंधमद्वेहिं, ववगयरोगसोगमोहभयपरिस्समा, जं तस्स गप्पस्स द्वियं मिथं पढं गप्पपोसणं तं देसे अ काले अ आहारमाहारेमाणी विवित्तमउएहिं सयणासणेहिं, पइरिक्कसुहाए मणाणुकूलाए विहारभूमीए पसहदोहला संपुन्नदोहला संमाणियदोहला अविमाणिअदोहला बुहिनदोहला ववणीअदोहला सुहं सुद्वेणं आसइ सयइ चिछइ निसीअइ तुयइइ विहरइ, सुहं सुद्वेणं तं गप्पं परिवइइ ॥एथ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जे से गिम्हाणं पढमे मासे, दुच्चे पखे चित्तसुद्धे तस्स एं चित्तसुद्धस्स तेरसीदिवसेणं नवएहं मासाणं बहुपक्किपुष्पाणं अद्धठमाणं राइंदियाणं विइक्कं ताणं, उच्चछाणगएसु गद्वेसु, पढमे चंदजोगे, सोमासु दिसासु वित्तिमिरासु विसुद्धासुं जइएसु सवसउणेसु पयाहिणाणुकूलेसि भूमिसप्पंसि मारुथंसि पवायंसि निष्फन्नमेइणीयंसि काळंसि, पमुइयपक्की-द्विएसु जणवएसु, पुवरत्तावरत्तकालसमयंसि, इहुत्तराहिं नक्कत्तेणं वंदेणं जोगमुवागणं आरोगा आरोगं दारयं पयाया ॥ ए६ ॥ जं रयाणिं ष णं समणे महावीरे जाए, सा रयाणी बहूहिं देवेहिं देवीहि य उवयंतेहिं उप्पयंतेहिं उप्पिजलमाणभूआ कहकइगभूया आविहुढा ॥ ए७ ॥ जं

ग्यणि च णं समणे नगवं महावीरे जाए, तं रयाणिं च णं बहवे वेसमणकुंरुधारी तिरियजंजगा  
 देवा सिद्धतरायनवणंसि द्विरणवासं च सुवणवासं च वयरवासं च बहवासं च आजरणवासं च,  
 पत्तवासं च पुष्पवासं च फलवासं च वीअवासं च मल्लवासं च गंधवासं च चुन्नवासं च वणवासं च वसु-  
 द्वारवासं च वासिसु ॥एण॥ तए णं से सिद्धे खसिए प्रवणवइवाणमंतरजोइसवेसाणिएहिं देवेहिं  
 तिअरज्जम्मणाजिसेयमहिमाए कयाए समाणीए, पच्चूसकाखसमयंसि नगरगुत्तिए सइवेइ, (२)  
 ता एधं वयासी ॥ एए ॥ खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! कुंरुपुरे नयरे चारगसोइणं करेइ, (२)  
 ता माणुम्माणवद्धणं करेइ, माणुम्माणवद्धणं करित्ता कुंरुपुरं नयरं सप्पितरवाहिरियं आसिय-  
 संसज्जित्तं सिंघारुगतिगचउक्कचच्चरचउम्मुइमहापहपेइसु सित्तसुइसंमठरठंतरावणवीहियं  
 मंचाइमंचकल्लियं नाणाविइरागजूसिअज्जयपफागमंडियं लाउद्धोईयमहियं गोसीसत्तरस-  
 रत्तचंदणदइरदिन्नपंचगुलित्तं उवचियबंधणकल्लसं, चंदणधरुसुकयतोरणपफिडुवारदेसत्तागं आस-  
 तोसत्तविपुलवट्टवघारियमल्लदामकलावं पंचवन्नसरससुरहिमुक्कपुप्फपुंजोवयारकल्लिअं कालागुरुपव-



रकुंदुरुक्ततुरुक्तज्जंतध्रुवमघमघंतगंधुद्रुआजिरामं सुगंधवरगंधिअं गंधवद्विभूअं नरुनहृगज-  
 ह्वमह्वमुठियवेलंबगपवगकहृगपाढगलासगआरुक्कगलंबंखतूणइह्वतुंबवीणियअणेगतालायराणुच-  
 रिअं करेहृ कारवेहृ य, (१) ता य नूअसहृस्सं मुसलसहृस्सं च उस्सवेहृ, उस्सविता ममेयमाण-  
 त्तियं पच्चपिणहृ ॥ १०० ॥ तए णं ते कोडुंषियपुरिसा सिरुह्णेणं रत्ता एवं वुत्ता समाणा हृठतुठ-  
 जाव-हिअथा करयल-जाव-पकिमुणित्ता खिप्पामेव कुंडपुरे नयरे चारगसोहृणं जाव उस्सविता. जे-  
 णेव सिरुह्णे राया तेणेव उवागह्वंति (२) ता करयल-जाव कहु सिरुह्णस्स रत्तो तमाणत्तियं पच्चपिणंति  
 ॥ १०१ ॥ तए णं से सिरुह्णे राया जेणेव अट्टणसाला तेणेव उवागह्वइ, (२) ता जाव सधोरोहृणं सबपुप्फ-  
 गंधवहमह्वालंकारविभूसाए सधतुडिअसइनिनाएणं महया इहीए, महया जुइए, महया बसेणं, महया  
 वाहृणेणं, महया समुदएणं, महया वरतु रिअजमगसगप्पवाइएणं संखपणवनेरिजह्वरिखरमुहिहु-  
 रुक्कुरजमुइंगडुंहुहिनिघोसनाइयरवेणं, उस्सुकं उकरं उक्किहं अदिजं अमिज्जं अजकप्पवेसं अ-  
 दंडकोदंडिअं अधरिमं गणिआवरनाडइज्जकलियं अणेगतालायराणुचरिअं अणुडुअमुइंगं, (अं० ५००)

अमिलायमसूदामं पमुद्दअपक्कीखियसपुरजणजाणवयं दस दिवसं ठिइवडियं करेइ ॥१०२॥ तए णं से सिउत्ते राया दसाहियाए ठिइवडियाए बहमाणीए सइए अ साहस्सिए अ सयसाहस्सिए अ जाए अ दाए अ जाए अ दलमाणे अ, दवावेमाणे अ, सइए अ साहस्सिए अ, सयसाहस्सिए य लंजे पडिहुमाणे अ पडिहुवेमाणे अ एवं विहरइ ॥१०३॥ तए णं समणस्स जगवउं महावीरस्स अस्सापियरो पढमे दिवसे ठिइवडियं करेति, तइए दिवसे चंदसूरदंसणिअं करेति, ठठे दिवसे धम्मजागरियं जागेरंति, इकारसमे दिवसे विइक्कंते निवत्तिए असुइजम्मकम्मकरणे, संपत्ते बारसाहे दिवसे, विउलं असणं पाणं खाइमं साइमं उवक्कडाविति, (२) ता मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरिजणं नायखत्तिए अ आमंतेरइति, आमंतेरित्ता तउं पहा एहाया कयवलिकम्मा कयकोउयमंगलपायत्तिता सुद्धप्पावेसाइं मंगह्वाइं पवराइं वत्ताइं परिहिया अत्पमहग्घाजणालंकियसरीरा जोअणवेलाए भोअणमंडवंसि सुहासणवरगया तेणं मित्तनाइनियगसंबंधिपरिजणेणं नाएहिं य खत्तिएहिं सद्धिं तं विउलं असणं (४) आसाएमाणा विसाएमाणा परिजुंजेमाणा परिजाएमाणा एवं वा विहरंति ॥ १०४ ॥ जिमिअ-

द्रुत्तुत्तरागयावि अ एं समाणा आयंता चुस्का परमसुइभूआ तं मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरि-  
 यणं नायए खत्तिए अ विउद्वेणं पुप्फफद्दगंधवढ्ढमद्दालंकारेणं सक्करेंति समाणेंति, सक्कारित्ता संमा-  
 णित्ता तस्सेव मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरियणस्स नायाण य खत्तिआण पुरउं एवं वयासी  
 ॥ १०५ ॥ पुव्विंपि णं देवाणुप्पिया ! अम्हं एयंसि दारगंसि गप्पं वक्कंतंसि इमे एयारूवे अप्पत्तिए  
 चिंतिए जाव समुप्पज्जिहां-जप्पत्तिइं च णं अम्हं एस दारए कुव्विसि गप्पत्ताए वक्कंते तप्पत्तिइं च  
 णं अम्हे हिरत्तेणं वद्दामो, सुवन्नेणं वद्दामो, धणेणं रत्तेणं जाव सावइत्तेणं पीइसक्कारेणं  
 अईव (२) अत्तिवद्दामो, सामंतरायाणो वसमागया य ॥ १०६ ॥ तं जया णं अम्हं एस दारए  
 जाए भविस्सइ, तथा णं अम्हे एयस्स दारगस्स इमं एयाणुरूवं गुप्पं गुणनिप्पन्नं नामधिज्जं करि-  
 स्सामो वरूमाणत्ति-ता अम्हं अज्जा मणोरइसंपत्ती जाया, तं होउ णं अम्हं कुमारे वरूमाणे  
 नामेणं ॥ १०७ ॥ समणे भगवं महावीरे कासवसुत्तेणं, तस्स णं तउं नामधिज्जा एवमाहिज्जंति. तं  
 जहा-अम्मापिउसंतिए वरूमाणे, सहसमुइआए समणे, अयत्ते भयत्तेरवाणं-परिसहोवसग्गाणं-खं-

तिष्ठमे-परिममाणं पालए-धीमं अरइरइसदे-दविए-वीरिअसंपन्ने-देवेहिं से णामं कथं समणे  
 जगवं महावीरे ॥ १०८ ॥ समणस्स णं जगवले महावीरस्स पिआ कासवगुत्तेणं, तस्स णं तले नाम-  
 धिजा एवमाहिज्जंति, तं सिद्धेइ वा, सिजसेइ वा, जसंसेइ वा ॥ समणस्स णं जगवले महा-  
 वीरस्स माया वासिठगुत्तेणं, तीसे तले नामधिजा एवमाहिज्जंति, तं तिसलाइ वा, विदेइदि-  
 त्ताइ वा, पीडकारिणीइ वा ॥ समणस्स णं जगवले महावीरस्स पित्तिले सुपासे जिठे जाया नंदि-  
 वरूणे, भगिणी सुदंसणा, भारिया जसोआ कोफिन्नागुत्तेणं ॥ समणस्स णं भगवले महावीरस्स धूआ  
 कासवगुत्तेणं, तीसे दो नामधिजा एवमाहिज्जंति, तं अणोज्जाइ वा, पियदंसणाइ वा ॥ सम-  
 णस्स णं जगवले महावीरस्स नत्तुई कोसिअगुत्तेणं, तीसे दो नामधिजा एवमाहिज्जंति, तं सेस-  
 चई वा जसवई वा ॥ १०९ ॥ समणे जगवं महावीरे दस्के दस्सपइन्ने पडिख्खे आलिणे जइए  
 विणीए नाए नायपुत्ते नायकुलचंदे विदेहे विदेइदिन्ने विदेइसूमाले तीसं वासाइं वि-  
 देइंसि कहु अम्मपिउहिं देवत्तगएहिं गुरुमहत्तरएहिं अप्पणुत्ताए सम्मत्तपइन्ने पुणरवि लोअंतिएहिं

जीअकप्पिएहिं देवेहिं ताहिं इठाहिं जाव वग्गूहिं अणवरयं अजिनंदमाणा य अग्गिअववसहा, एवं वयासी-॥ ११० ॥ “जय (२) नंदा, जय (२) भद्रा, भद्रं ते, जय (२) खत्तिअवरवसहा, बुद्धाहिं भगवं लोगनाह सयलजगज्जीवहिं पवत्तेहिं धम्मतिठं” हियसुह निस्सेयसकरं सबलोए सव्वजीवाणं भविस्सइ. चिकहु जय (२) सहं पउंजइ ॥ १११ ॥ पुर्व्विपि णं समणस्स जगवले महावीरस्स माणुस्सगाले गिहत्थधम्माले अणुत्तरे आभोइए अणुत्तरे हुहा-तए णं समणे भगवं महावीरे तेणं अणुत्तरेणं आजोइएणं नाणदंसणेणं अप्पणो निक्कमणकालं आजोइ (२) ता चिच्चा हि-रणं, चिच्चा सुवणं, चिच्चा धणं, चिच्चा रज्जं, चिच्चा रठं, एवं बलं-वाइणं-कोसं-कोठागारं, चिच्चा पुरं, चिच्चा अंतेउरं, चिच्चा जणवयं, चिच्चा विपुलधणकणगरमणिमोत्तियसंखसिलप्पवात्तरयण-माइयं संतसारसावइज्जं, विह्वइत्ता, विगोवइत्ता, दाणं दायारेहिं परिजाइत्ता, दाणं दाइयाणं परिजाइत्ता, ॥ ११२ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जे से हेमंताणं पढमे मासे पढमे पखे मग्गसिरबहुले तस्स णं मग्गसिरबहुलस्स दसमीपखेणं पाईणगामिणीए छायाए पोरि-

मीण अजिनिवट्टाण् पमाणपत्ताए, सुवएणं दिवसेणं विजणं सुहुत्तेणं मुहुत्तेणं चंदप्पत्ताए सीविआए सदे-  
वमणुआसुराण् परिजाए समणुगम्ममाणमगे संखियचक्खियलंगलिअमुहमंगलियवद्धमाणपूसमाण-  
घंटियगणेहिं, ताहिं इत्ताहिं जाव वगूहिं अभिनंदमाणा य अभिहुवमाणा य एवं वयासी ॥१२३॥  
“ जय (२) नंदा, जय (२) जदा, जइं ते, अजगोहिं नाणदंसणचरितोहिं अजियाइं जिणाहिं  
इंदियाइं जिअं च पात्तेहिं समणधम्मं, जियविघोवि अ वसाहिं तं देव सिद्धिमज्जे, निह्णाहिं  
रागदोसमत्ते तवेणं, धिइधणिअवद्धकठे मदाहिं अठकम्मसत्तू, प्राणेणं उत्तमेणं सुक्केणं अप्प-  
मनो हराहिं आराहणपडागं च वीर तेजुक्करंगमप्पे, पात्रय वितिमिरमणुत्तरं केवलवरनाणं, गह्व य  
मुखं परं पयं जिणवरोवइष्टेण मगेण अकुफिलेण हंता परिसहचमुं, जय (२) खत्तिअवरवसहा  
वहूइं दिवसाइं वहूइं पखाइं वहूइं मासाइं वहूइं लऊइं वहूइं अयणाइं वहूइं संवहराइं, अभीए परीस-  
दोवसग्गाणं खंतिखमे जयजेरवाणं, धम्मं ते अविघं भवउ ” त्तिकहु जय (२) सहं पउंजति ॥१२४॥  
तए णं समणे भगवं महावीरे नयणमालासहस्सेहिं पिड्डिज्जमाणे (२), वयणमालासहस्सेहिं अजि-

शुभमाणे (१), हियमालासहस्सेहिं, उन्नंदिज्जमाणे (१) मणोरहमालासहस्सेहिं विह्विप्पमाणे (२) कंतिरूवगुणेहिं पब्बिज्जमाणे (२) अंगुलिमालासहस्सेहिं दाइज्जमाणे (१) दाहिणहत्थेण बहूणं नरनारिसहस्साणं अंजलिमासासहस्साइं पडिह्ठमाणे (१) चवणपंतिसहस्साइं समइक्कमाणे (२) तंतीतलतालतुडियगीयवाइअरवेणं महुरेण य मणहुरेणं जय (१) सइघोसमीसिएणं मंजु- मंजुणा घोसेण य पडिबुप्रमाणे (१), सविह्वीए सवज्जुईए सवबलेणं सववाहणेणं सवसमुदएणं स- वायरेणं सवविभूईए सवविभूसाए सवसंचमेणं सवसंगमेणं सवपगइएहिं सवनारुएहिं सवताला- यरेहिं सवावरोहेणं सवपुफ्फगंधमद्धालंकारविभूसाए सवतुडियसहसन्निनाएणं महया इह्वीए महया जुईए महया बलेणं महया वाहणेणं महया समुदएणं महया वरतुडियजमगसमगप्पवाइएणं संखपणवपडहंनेरीज्जरीखरमुहिहुहुक्कहुंहुहिनिगघोसनाइयरवेणं कुंरुपुरं नयरं मज्जंमज्जेणं निग- हइ, निगह्वित्ता जेषेव नायसंडवणे उज्जाणे जेषेव असोगवरपायवे तेणेव उवागह्वई (१) ता ॥ ११५ ॥ असोगवरपायवस्स अहे सीयं ठावेइ, (२) ता सीयाउ पच्चोरुहइ, (२) ता सयमेव

आनरणमध्वाक्षंकारं उमुच्यद्, (१) ता सयमेव पंचमुष्टियं क्षोत्रं करेद्, (२) ता छट्टेणं जत्तेणं  
 अपाणणं इष्टुचराहिं नखत्तेणं चंदेणं जोगमुवागएणं एगं देवदूसमादाय एगे अवीए मुंढे  
 नवित्ता अगाराउ अणगारिअं पवइए ॥ ११६ ॥ समणे जगवं महावीरि संवहुरं साहियं मासं  
 चीवरभारी हुडा, तेणं परं अचेखए पाणिपडिगहिए ॥ ११७ ॥ समणे जगवं महावीरि साइरेगाइं  
 दृवालसवासाइं निचं बोसठकाए चियत्तदेहे जे केइ उवसग्गा उप्पजंति, ॥ तं जहा-दिवा वा, मा-  
 णुस्सा वा, तिरिखजोणिया वा, अणुलोमा वा, पडिलोमा वा ते उप्पत्ते सम्मं सहइ खमइ तित्तिखइ  
 अडियासेइ ॥ ११८ ॥ तए णं समणे जगवं महावीरि अणगारे जाए इरियासमिए जासासमिए एस-  
 णासमिए आयाणजंरुमत्तनिखेवणासमिए उच्चारपासवणकेखसिंघाणजह्वपरिघावणियासमिए म-  
 णसमिए वयसमिए कायसमिए मणगुत्ते वयगुत्ते कायगुत्ते गुत्ते गुत्तिंदिए गुत्तवंचयारि अकोहे अमाणे  
 अमाण अलोहे संते पसंते उवसंते परिनिवुढे अणासवे अममे अकिंचणे छिन्नगंथे निरुवत्सेवे, कंसपाई  
 इवमुक्कनोए, संखो इव निरंजणे, जीवे इव अप्पनिहयगई, गगणमिव निरावंचणे, वाउव अप्पनिवुढे,



सारथसखिलंव सुद्धहियए, पुखरपत्तंव निरुवलेवे, कुम्मो इव गुत्तिदिए, खगिविसाणं व एगजाए,  
 विहग इव विप्पमुक्के, नारंरुपखकी इव अप्पमत्ते, कुंजरो इव सौंडीरे, वसजो इव जायथामे, सिंही इव उ-  
 द्दरिसे, मंदरो इव अप्पकंपे, सागरो इव गंजीरे, चंदो इव सोमलेसे, सूरु इव दित्ततेए, जच्चकणगं व जा-  
 यरुवे, वसुंधरा इव सव्वासाविसहे, सुहुअहुआसणे इव तेयसा जलंते, नडि णं तस्स भगवंतस्स कल्लइ  
 पफिबंधे नवइ-से य पफिबंधे चउविहे पन्नत्ते, तं जहा-दवउ, खित्तउ, कालउ, जावउ । दवउ  
 सच्चित्ताचित्तमीसिएसु दवेसु. खित्तउ गामे वा, नधरे वा, अरसे वा, खित्ते वा, खले वा, घरे वा, अंगणे वा,  
 नहे वा. कालउ समए वा, आवलिआए वा, आणपाणुए वा, थोवे वा, खणे वा, लवे वा, मुहुत्ते वा अहो-  
 रत्ते वा, पखे वा, मासे वा, उऊ वा, अथणे वा, संवहरे वा, अन्नयरे वा, दीहकालसंजोए. प्रा-  
 वउ कोहे वा, माणे वा, मायाए वा, लोन्ने वा, भाए वा, हासे वा, पिजे वा, दोसे वा, कलहे वा,  
 अप्पखाणे वा, पेसुन्ने वा, परपरिवाए वा, अरइ वा, मायामोसे वा, मिहादंसणसद्धे वा. (अं ६००)  
 तस्स णं नगवंतस्स नो एवं नवइ ॥ से णं नगवं वासावासं वज्जं अठ गिम्हहेमंलिए मासे गामे

पुगगाइए नगरे पंचराइए वासीचंदणसमाणकल्पे समतिणमणिलेदुकंचणे समसुहडुस्के इहलोग-  
 परलोगअधपफिवळे, जीवियमरणे निरवकंअखे, संसारपारगामी कम्मसत्तुनिग्घायणठाए अण्चुठिए  
 पयं च णं विहरइ ॥ ११९ ॥ तस्स णं भगवंतस्स अणुत्तरेणं नाणेणं, अणुत्तरेणं इंसणेणं, अणुत्तरेणं  
 चरित्तेणं, अणुत्तरेणं आजाएणं, अणुत्तरेणं विहारेणं, अणुत्तरेणं वीरिएणं, अणुत्तरेणं अजावेणं, अणु-  
 त्तरेणं मइवेणं, अणुत्तरेणं लाघवेणं, अणुत्तराए खंतीए, अणुत्तराए सुत्तीए, अणुत्तराए सुत्तिए, अणु-  
 त्तरेणं तुठीए, अणुत्तरेणं सच्चसंजमतवसुचरिअसोवइअफलनिवाणमग्गेणं, अणुत्तरेणं भावेमाणस्स  
 दुवाअससंवहराइं विइक्कंताइं ॥ तेरसमस्स संवहुरस्स अंतरा वट्टमाणस्स, जे से गिम्हाणं दुच्चे मासे,  
 चउते पखे, वइसाइसुद्धे तस्स णं वइसाइसुद्धस्स दसमीपखेणं पाईणगामिणीए ठायाए पो-  
 रिसीए अभिनिविद्याए पमाणपत्ताए सुवएणं दिवसेणं विजएणं सुहुत्तेणं जंभियगामस्स नगरस्स  
 वहिया उल्लुवालुयाए नईए तीरे वेयावत्तस्स चेइअस्स अइरसामंते सामागस्स गाहावइस्स कठ-  
 करणंसि सालपायवस्स अहे गोदोइियाए उक्कडिअनिसिजाए आयावणाए आयावेमाणस्स तठेणं

भस्तेणं अपाणएणं हृत्तराहिं नरुक्तेणं जोगमुवागएणं जाणंतरिआए वट्टमाणस्स अणंते अणुत्तरे  
निवाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुन्ने केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने ॥ १२० ॥ तए णं समणे जगवं  
महावीरे अरहा जाए, जिणे, केवलीसवन्नू, सब्दरिसी, सदेवमणुआसुरस्स लोगस्स परिआयं  
जाणइ पासइ सब्दलोए सब्दजीवाणं आगइं गइं ठिइं चवणं उववायं तक्कं मणो माणसियं सुत्तं  
कडं पडिसेवियं आविकम्भं रहोकम्भं अरहा अरहस्सजागी तं तं कालं मणवयकायजोगे वट्टमा-  
णाणं सब्दलोए सब्दजीवाणं सब्दजावे जाणमाणे पासमाणे विहरइ ॥ १२१ ॥ तेणं कालेणं तेणं स-  
मएणं समणे जगवं महावीरे अठ्ठियग्गासं निस्साए पढसं अंतरावासं वासावासं उवागए, चंपं  
च पिठ्ठचंपं च निस्साए तउ अंतरावासे वासावासं उवागए, वेसादिं नगरिं वाणियग्गामं च नि-  
स्साए दुवालस अंतरावासे वासावासं उवागए, रायगिहं नगरं नाढंदं च बाहिरियं निस्साए  
चउइस अंतरावासे वासावासं उवागए, उ मिहिलाए, दो ढदिआए, एणं आढंजिआए, एणं  
सावडीए, एणं पणिअभुमीए, एणं पावाए सप्पिमाए ह्ठिवालस्स रत्तो रज्जुगसभाए अपह्ठिसं अंतरा-

यानं वायावानं उवागए ॥ १२२ ॥ तत्थ एं जे से पावाए मप्पिमाए इत्थिवालस्स रत्तो रज्जुगसभाए  
 अपत्तिमं अंतरावानं वासावासं उवागए ॥ १२३ ॥ तस्स णं अंतरावासस्स जे से वासाणं चउत्ते  
 मांयं सत्तमं परके कत्तिथ्यवहुत्ते तस्स णं कत्तिअत्रहुलस्स पन्नरसीपरकेणं जा सा चरमा रयणी  
 नं रयणिं च णं समणे भगवं महावीरि कालगए विट्ठंते समुजाए छिन्नजाइजरासरणबंधणे सिद्धे,  
 बुद्धे, पुत्ते अंतगडे परिनिवुत्ते सबहुक्कप्पहीणे चंदे नामे से दुच्चे संवहुरे, पीइवरुणे मासे, नं-  
 दिवरणे परके, अग्गिबेसे नामं से दिवसे, उवसमेत्ति पव्वुच्चइ, देवाणंदा नामं सा रयणी निर-  
 तिप्ति पव्वुच्चइ, अच्चे लवे, सुहुत्ते पाए, ओवे सिद्धे, नागे करणे, सबड्डसिद्धे सुहुत्ते, साइणा नख-  
 नेगं जोगमुवागएणं कालगए विट्ठंते जाव सबहुक्कप्पहीणि ॥ १२४ ॥ जं रयणिं च णं समणे  
 नगवं महावीरि कालगए जाव सबहुक्कप्पहीणि, सा णं रयणी बहूहिं देवेहिं देवीहिं य उवयसा-  
 णेहिं उप्पयमाणेहिं य उज्जोविआ आविहुत्ता ॥ १२५ ॥ जं रयणिं च णं समणे भगवं महावीरि  
 कालगए जाव सबहुक्कप्पहीणे सा णं रयणी बहूहिं देवेहिं देवीहिं य उवयमाणेहिं उप्पयमाणेहिं

य उर्षिपजलगमाणभूआ कहकहगभूआ आविहुहा ॥ १२६ ॥ जं रथणिं च णं समणे जगवं म-  
 हावीरे कालगए जाव सबडुखकप्पहीणे तं रथणिं च णं जिट्टस्स गोअमस्स इदभूइस्स अणगारस्स  
 अंतेवासिस्स नायए पिज्जबंधणे बुद्धिन्ने अणंते अणुत्तरे जाव केवलवरनाणंदंसेणे समुप्पन्ने ॥ १२७ ॥  
 जं रथणिं च णं समणे जगवं महावीरे कालगए जाव सबडुखकप्पहीणे, तं रथणिं च णं नव मल्लई  
 नव लेहई कासीकोसलगा अट्टारसवि गणरायाणो असावासाए पाराभोअं पोसहोत्रवासं पट्टविंसु  
 गए से ज्ञावुज्जोए दव्वुज्जोअं करिस्सामो ॥ १२८ ॥ जं रथणिं च णं समणे भगवं महावीरे का-  
 लगए जाव सबडुखकप्पहीणे, तं रथणिं च णं खुदाए भासरासी नाम महग्गहे दोवाससहस्सट्ठिई  
 समणस्स जगवले महावीरस्स जस्मनरक्तं संकंते ॥ १२९ ॥ जप्पभिइं च णं से खुदाए ज्ञासरासी  
 महग्गहे दोवाससहस्सट्ठिई समणस्स भगवले महावीरस्स जस्मनखत्तं संकंते, तप्पभिइं च णं  
 समणाणं निग्गंथाणं निग्गंथीण य नो उदिए (१) पूआसक्कारे पवत्तइ ॥ १३० ॥ जया णं से खुदाए ज्ञास-  
 रासी महग्गहे दोवाससहस्सट्ठिई जाव जस्मनखत्ताले विइक्कंते भविस्सइ, तथा णं समणाणं नि-

गंधाणं निगंधीण य उदिण (२) पूआसक्कारे जीवस्सइ ॥ १३१ ॥ जं रयणिं च णं समणे भगवं  
 मद्दावीरे कालगए जाव सत्रदुहवप्यही णे तं रयणिं च णं कुंशुअणुद्धरी नाम समुप्पत्ता, जा द्विया  
 अचल्लमाणा उउमत्ताणं निगंधाणं निगंधीण य नो चचक्कुफासं हवमागह्वइ. जा अट्टिया चलसाणा  
 उउमत्ताणं निगंधाणं निगंधीण य चक्कुफासं हवमागह्वइ ॥ १३२ ॥ जं पासित्ता व-  
 ह्ति निगंधेहिं निगंधीहिं य तत्ताइं पच्चक्कायाइं-से किमाहु घंते ! अज्जाप्पच्चिइं संजमे डुरागाहे  
 नविस्सइ ॥ १३३ ॥ तेणं काक्षेणं तेणं समएणं समणस्स भगवते महावीरस्स इंद्रबूइपासुक्काते  
 चउइम समणसाइस्सीते उक्कोसिआ समगसंपया हुत्ता ॥ १३४ ॥ समणस्स जगवते महावीरस्स  
 अजचंदग्गापामुक्काते उत्तीसें अजियासाइस्सीते उक्कोसिया अजियासंपया हुत्ता ॥ १३५ ॥ सम-  
 णस्स भगणं संवत्तयगपामुक्काणं समणोवासगाणं एगा सयत्ताइस्सीते अउणसत्तिं च सहस्सा उ-  
 ष्ठीविया समणोवासगाणं संपया हुत्ता ॥ १३६ ॥ समणस्स भगणं सुलसारेवइपामुक्काणं समणोवा-  
 सिआणं निन्नि सयत्ताइस्सीते अट्टारस्स सहस्सा उक्कोसिया समणोवासियाणं संपया हुत्ता ॥ १३७ ॥

समणस्स भग० तिन्नि सया चउइसपुवीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं सध्वक्खरसन्निवाईणं जिणोविब  
 अवितहं वागरमाणं उक्कोसिआ चउइसपुवीणं संपया हुब्बा ॥ १३८ ॥ समणस्स जग० तेरस  
 सया उहिनाणीणं अइसेसपत्ताणं उक्कोसिया उहिनाणिसंपया हुब्बा ॥ १३९ ॥ समणस्स जग०  
 सत्त सया केवलनाणीणं संचिन्नवरनाणदंसणधराणं उक्कोसिया केवलवरनाणिणं संपया हुब्बा  
 ॥ १४० ॥ समणस्स जग० सत्त सया वेउवीणं अदेवाणं देविट्ठिपत्ताणं उक्कोसिया वेउविसंपया  
 हुब्बा ॥ १४१ ॥ समणस्स जग० पंच सया विउल्लमईणं अट्ठाइजेसु दीवेसु दोसु अ समुद्देसु स-  
 न्नीणं पज्जत्तगाणं पंचिंदियाणं मणेगए भावे जाणमाणं उक्कोसिआ विउल्लमईणं संपया हुब्बा ॥ १४२ ॥  
 समणस्स जग० चत्तारि सया वाईणं सदेवमणुआसुराए परिसाए वाए अपराजियाणं उक्कोसिया  
 वाइसंपया हुत्था ॥ १४३ ॥ समणस्स जग० सत्त अंतेवासिसयाइं सिद्धाइं जाव सध्वदुक्खप्पहीणाइं  
 चउदस अज्जियासयाइं सिद्धाइं ॥ १४४ ॥ समणस्स जग० अट्ठसया अणुत्तरोववाइयाणं गइक्कहा-  
 णाणं ठिइक्कहाणाणं आगमेसि जद्दाणं उक्कोसिआ अणुत्तरोववाइयाणं संपया हुत्था ॥ १४५ ॥  
 समणस्स जग० दुविहा...

अंतगुरुभूमि हुत्था, तं जहा-जुगंतगडभूमि य, परियायंतगरुभूमि य, जाव तच्चाळ पुरिसजुगाळ  
जुगंतगडभूमि चउवासपरियाए अंतमकासी ॥ १४६ ॥ तेणं काळिणं तेणं समएणं समणे भगवं  
महावीरे तीसं वासाइं अगारवासमप्रे वसित्ता, साइरेगाइं दुवालसवासाइं छउमत्थपरियागं पा-  
उणित्ता, देअूणाइं तीसं वासाइं केवल्लिपरियागं पाउणित्ता, वायाळीसं वासाइं सामन्नपरियागं पाउ-  
णित्ता, वावत्तरिवासाइं सवाउयं पाळइत्ता, खीणे वेयणिजाउनामयुत्ते इमीसे उंसप्पिणीए दुसत्तसुत्त-  
माए समाए बहु विइकंताए तिहिं वासेहिं अरून्नवमेहि य मासेहिं सेसेहिं पावाए मप्पिनाए इत्थि-  
नात्तस्स रत्तो रज्जुयसत्ताए एगे अवीए ठेठेणं अत्तेणं अपाणएणं साइणा नस्सत्तेण जोगमुवागएणं  
एवमुत्तहालसमयंसि संपत्तिअंकनिसत्ते पणपन्नं अप्रयणाइं कट्ठाणफलविवागाइं, पणपन्नं अह्मयणाइं  
पावफलविवागाइं, छत्तीसं च अपुट्टवागरणाइं वागरित्ता पहाणं नाम अप्रयणं विभावेमाणे (१)  
काळगए विइकंते समुज्जाए छिन्नजाइजरामरणबंधणे सिद्धे बुद्धे मुत्ते अंतगडे परिनिब्बुद्धे सबडुक्क-  
प्पहीणे ॥१४७॥ समणस्स भगवत्तं महावीरस्स जाव सबडुक्कप्पहीणस्स नव वाससयाइं विइकंताइं,



दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे संवहरे काले गहइ इइ दीसइ ॥ १४८ ॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए पंचविसाहे हुत्था, तं जहा-विसाहाहिं  
 चुए-चइत्ता गप्पं वक्कते, विसाहाहिं मुंढे भवित्ता अगाराळ अणगारिअं पवइए,  
 विसाहाहिं अणंते अणुत्तरे निवाघाए निरावरणे कसिणे पक्खिपुणे केवलवरनाणदंसणे समुपन्ने, विसा-  
 हाहिं परिनिव्वुए' म १४ए ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए जे से गिमहाणं  
 पढमे मासे पढमे पक्के चित्तवहुत्ते-तस्स णं चित्तवहुत्तस्स चत्तथीपक्केणं पाणयाळ कप्पाळ वीसं  
 सागरोवमठ्ठियाळ अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुद्वीवे दीवे जारहे वासे वाणारसीए नयरीए आससे-  
 णस्स रत्तो वासाए देवीए पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि विसाहाहिं नक्कतेणं जोगमुवागएणं आहारवक्कं-  
 तीए भववक्कंतीए सरीरवक्कंतीए कुब्बिसि गप्पत्ताए वक्कते ॥१५०॥ पासे णं अरहा पुरिसादाणीए  
 तिम्राणेवगए आविहुत्ता, तं जहा-चइस्सामिसि जाणइ, चयमाणे न जाणइ, चुएमिसि जाणइ,

तेनं चैव अत्रिवात्रेणं सुविणदंसणविहाणेणं सर्वं-जात्र-निश्चगं गिहं अणुपविष्ठा जात्र सुहं-  
 बुद्धेणं तं गप्रं परिवहइ ॥ १५१ ॥ तेषं काक्षेणं तेषं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए जे से  
 द्वेयंनानं दुचे मासे तचे पस्के पोसवहुले तस्स णं पोसवहुलस्स दसमीपस्केणं नवएहं मासाणं  
 वटुपडिपुन्नाणं अरुहमाजं राइदिआजं विइकंताणं पुवरत्तावरत्तकालसमयंसि विसाहाहिं नखत्तेणं  
 जोगमुवागएणं आरोग्गारोगं दारयं पयाया ॥ १५२ ॥ जं रयणिं च णं पासे अरहा पुरिसादाणीए  
 ज्ञाप, सा णं रयणी बहुहिं देवेहिं देवीहिं य जात्र उप्पिजलमाणभूआ कहकहगभूआ आविहुवा  
 ॥ १५३ ॥ सेसं तद्धेव, नवरं जम्मणं पासान्जिलावेणं ज्ञाणिश्चवं, जात्र तं होउ णं कुमारे पासे नामेणं  
 ॥ १५४ ॥ (ग्रंथा० ७८०) पासे णं अरहा पुरिसादाणीए दक्खे दक्खपइन्ने पडिरूवे अद्धीणे जइए  
 विणीए, तीसं वासाइं अगारवासमश्चे वसित्ता पुणरवि लोयंतिएहिं जिश्चकप्पिएहिं देवेहिं ताहिं  
 इष्ठाहिं जात्र एवं वयासी ॥ १५५ ॥ जय (२) नंदा, जय (२) जहा, जवं ते जात्र जय (२)  
 सर्वं पठंजंति ॥ १५६ ॥ पुर्विपि णं पासस्स अरहउ पुरिसादाणीयस्स माणुस्सगाउ गिहउधम्माल

अणुत्तरे आत्रोद्दृष्टं तं चैव सर्वं जाव दाणं दाश्याणं परिभाश्रता, जे से हेमंताणं दुब्धे मासे तच्चे  
 पक्के पोसबहुले-तस्स णं पोसबहुलस्स इक्कारसीदिवसेणं पुव्वन्हकालसमयंसि विसालाए सिबि-  
 आए सदेवमणुआसुराए परिसाए समणुगम्ममाणमणे तं चैव सर्वं-नवरं वाणारसिं नयरिं मञ्ज-  
 मक्षेणं निगह्णइ, निगच्छिता जेषेव आसमपए उज्जाणे जेषेव असोगवरपायवे तेणेव उवागह्णइ  
 ( २ ) ता असोगवरपायवस्स अहे सीयं द्वावेइ, ( ३ ) ता सीयाउ पच्चोरुइइ, ( २ ) ता सय-  
 मेव आन्नरणमद्वालंकारं उमुअइ, ( २ ) ता सयमेव पंचसुद्धियं लोअं करेइ, ( २ ) ता अइस्येणं  
 भत्तेणं अपाणएणं विसाहाहिं नक्कत्तेणं जोगसुवागएणं एणं देवइसमादाय तिहिं पुरिससएहिं  
 सद्धिं मुंढे ञविता अगाराउ अणगरियं पवइए ॥ १५७ ॥ पासे णं अरहा पुरिसादाणीए तेसीइ  
 राइंदियाइं निच्चं वोसठकाए चियत्तदेहे, जे केइ उवसग्गा उप्पजंति, तं जहा-दिवा वा, माणुस्सा  
 वा, तिरिक्कजोणिआ वा, अणुलोमा वा, पडिलोमा वा, ते उप्पन्ने सम्मं सहइ तितिक्कइ खमइ  
 अहियासेइ ॥ १५८ ॥ तए णं से पासे ञगवं अणगारे जाए इरियासमिए जाव अप्पाणं ञावे-

माणस तेसीं रांद्रियां विष्कंतां चउरासीशसस रांद्रियस अंतरा वट्टमाणसस जे से गि-  
 म्हाणं पढमे मासे पढमे पखे चित्तवहुखे तसस णं चित्तवहुखसस चउठीपखेणं पुव्वण्हकाखसस-  
 यंसि धायइपायवसस अहे ठठेणं जत्तेणं अपाणएणं विसाहाहिं नखत्तेणं जोगमुवागएणं प्राणंत-  
 रिआण वट्टमाणसस अणंते आणुत्तरे जाव केवलवरत्ताणदंसणे समुप्पन्ने जाव जाणमाणे पासमाणे  
 विहरइ ॥ १५ए ॥ पाससस णं अरहलं पुरिसादाणीयसस अठ गणा अठ गणहरा हुवा, तं जहा-  
 सुत्ते य ? अज्जयोसे य २, वसिठे ३ वंजयारि य ४ ॥ सोमे ५ सिरिहरे ६ चेव, वीरभद्दे ७ जसेवि  
 य ॥ १६० ॥ पाससस णं अरहलं पुरिसादाणीयसस अज्जदिन्नपामुक्कांलं सोलस समणसाहस्सीं  
 उक्कोसिआ समणसंपया हुवा ॥ १६१ ॥ पाससस णं अरहलं पुप्फचूलापामुक्कांलं अठत्तीसं अ-  
 ज्जियासाहस्सीं उक्कोसिआ अज्जियासंपया हुवा ॥ १६२ ॥ पाससस णं अरहलं सुवयपामुक्काणं  
 समणोवासगणं एगा सयसाहस्सी चउसठीं च सहस्सा उक्कोसिआ समणोवासगणं संपया हुवा  
 ॥ १६३ ॥ पाससस णं अरहलं सुनंदापामुक्काणं समणोवासिआणं तिन्नि सयसाहस्सीं सत्ता-

वीसं च सहस्रा उक्तेसिद्ध्या समणोवासियाणं संपया हुब्बा ॥ १६४ ॥ पासस्स णं अरहत्तं अरु-  
 ठसया चउहसपुवीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं जाव चउहसपुवीणं संपया हुब्बा ॥ १६५ ॥ पास-  
 स्स णं अरहत्तं चउहससया उह्निनाणीणं, दससया केवलनाणीणं, इक्कारससया वेउवियाणं, छ  
 सया रिउमईणं, दस समणसया सिद्धा, वीसं अजियासया सिद्धा, अरुहसया विउलमईणं, ठ  
 सया वाईणं, बारस सया अणुत्तरोववाइयाणं ॥ १६६ ॥ पासस्स णं अरहत्तं उविहा अंतगरु-  
 भूमी हुब्बा, तं जहा-जुगंतगरुभूमी परियायंतगरुभूमी य, जाव चउहत्तं पुरिसजुगात्तं जुगंतग-  
 रुभूमी तिवासपरिआए अंतमकासी ॥ १६७ ॥ तेणं काक्षेणं पासे अरहा पुरिसादा-  
 णीए तीसं वासाइं अगरवासमश्चे वसित्ता तेसीइं राइदिआइं ठउमत्तपरिआयं पाउणित्ता, देसू-  
 णाइं सत्तस्सिवासाइं केवल्लिपरिआयं पाउणित्ता, पडिपुत्ताइं सत्तस्सिवासाइं सामत्तपरिआयं पाउणित्ता,  
 एकं वालसयं सवाउयं पाउत्ता खीणे वेयणिज्जाउयनामयुत्ते इमीसे त्सप्पिणीए हसमसुसमाए  
 बहुविद्धंताए जे से वासाणं पढमे मासे उच्चे पक्के सावणसुद्धे तस्स णं सावणसुद्धस्स अठमी-

परकेणं उष्णि संभेअसेलसिद्धरंसि अत्पत्रउत्तीसइमे मासिएणं भत्तेणं अपाणएणं विसाहाहिं नख-  
 तेणं जोगमुवागरणं पुव्वाहुकालसमयंसि वग्घारियपाणी कालगए विइक्कंते जाव सबदुख्कप्पहीणे  
 ॥ १६७ ॥ पासस्स णं अरहउं पुरिसादाणीयस्स जाव सबदुख्कप्पहीणस्स दुत्तालसवाससयाइं, वि-  
 इक्कंताइं, तेरसमस्स य वाससयस्स अयं तीसइमे संवहुरे काले गहइ ॥ १६९ ॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं भरहा अरिठ्ठनेमी पंचचित्ते दुव्वा ॥ तं जहा-चित्ताहिं जुए-च-  
 इत्ता गप्पं वक्कंते, तद्देव उक्खेवो-जाव चित्ताहिं परिनिव्वुए ॥ १७० ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं अ-  
 रहा अरिठ्ठनेमी जे से वासाणं वउठ्ठे मासे सत्तमे परके कत्तिअवहुखे-तस्स णं कत्तिअवहुलस्स  
 चारसीपरकेणं अपराजियाउं महाविमाणउं वत्तीसं सागरोवमठ्ठिआउं अणंतरं वयं चइत्ता इहेव  
 जंभूवीवे दीवे चारहे वासे सोरियपुरे नयरे समुह्वविजयस्स रत्तो चारिआए सिवाए देवीए पुव्व-  
 रत्तावरत्तकालसमयंसि जाव चित्ताहिं गप्पत्ताए वक्कंते, सब्बं तद्देव सुमिणंदसणदविणसंहरणाइअं  
 इत्त जाणियव्वं ॥ १७१ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिठ्ठनेमी जे से वासाणं पढमे मासे

दुञ्चे पखे सावणसुद्धे तस्स णं सावणसुद्धस्स पंचमीपखेणं नवसुद्धं मासाणं बहुपडिपुत्राणं जाव चित्ताहिं नखत्तेणं जोगमुवागएणं आरोगारोगं दारयं पयाथा ॥ जम्मणं समुद्धविजयाजिलावेणं नेयधं जाव तं होउ णं कुमारे अरिठनेमी नामेणं ॥ अरहा अरिठनेमी दखे जाव तित्ति वास- सयाइं कुमारे अगारवाससुद्धे वसित्ता, पुणरवि लोयंतिएहिं जिअकप्पिएहिं देवेहिं सधं तं चेव ज्ञाणियधं-जाव दाणं दाइयाणं परिभाइत्ता ॥ १७२ ॥ जे से वासाणं पढमे मासे दुञ्चे पखे सा- वणसुद्धे तस्स णं सावणसुद्धस्स ठठीपक्खेणं पुवण्हकालसमयंसि उत्तरकुराए सीघाए सदेवमणु- आसुराए परिसाए समणुगम्मसाएसग्गे जाव बारवईए नयरीए मधुंमक्षेणं निग्गह्हइ, (१) ता जेणेव रेवयए लज्जाणे तेणेव लवागह्हइ, (२) ता असोगवरपाथवस्स अहे सीधं ठावेइ (२) ता सीयाउ पच्चोरुह्हइ, (३) ता सयमेव आत्तरणमह्वालंकारं लमुयइ सयमेव पंचमुद्धियं लोयं करेइ, (२) ता ठठेणं भत्तेणं अपाणएणं चित्ताहिं नखत्तेणं जोगमुवागएणं एगं देवहूसमादाय षग्गेणं पुरिससहस्सेणं सद्धिं मुंडे जचित्ता अगाराउ अणगारियं पवइए ॥ १७३ ॥ अरहा अरिठनेमी च-

नपन्नं राईदियाईं निचं वोसट्टकाए चियत्तदेहे-तं चैव सवं जाव पणपन्नगस्स राईदियस्स अंतरा  
 यट्टमाणस्स जे से वासाणं तञ्जे मासे पंचमे पक्खे आसोयवहुक्षे तस्स णं आसोयवहुलस्स पन्नर-  
 सीपक्खेणं दिवसस्स पहिमे भाए उज्झितसेलसिद्धरे वेरुसस्स पायवस्स अहे अट्टमेणं जत्तेणं अ-  
 पाणपणं चित्ताहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं झ्माणंतरियाए वट्टमाणस्स अणंतै अणुत्तरे-जाव  
 सव्वलोप सव्वजीवाणं चावे जाणमाणे पासमाणे विहरइ ॥१७४॥ अरहउं णं अरिठ्ठनेमिस्स अट्टा-  
 रत्त गणा अट्टारस गणहरा हुत्ता ॥ १७५ ॥ अरहउं णं अरिठ्ठनेमिस्स वरदत्तपासुक्खाले अट्टा-  
 रत्त समणसाइस्सीउं उक्कोसिया समणसंपया हुत्ता ॥१७६॥ अरहउं णं अरिठ्ठनेमिस्स अज्जजक्खिणी-  
 पासुक्खान्नाउं चत्ताक्षीसं अज्जियासाइस्सीउं उक्कोसिया अज्जियासंपया हुत्ता ॥१७७॥ अरहउं णं अरि-  
 ट्ठनेमिस्स नंदपासुक्खान्नाणं समणोवासगणं एगा सयसाइस्सी अज्जणत्तरिं च सहस्सा उक्कोसिया सम-  
 णोवासगणं संपया हुत्ता ॥१७८॥ अरहउं णं अरिठ्ठनेमिस्स महासुवयापासुक्खान्नाणं समणोवासिआणं  
 तिप्पि सपसाइस्सीउं ठत्तीसं च सहस्सा उक्कोसिया समणोवासिआणं संपया हुत्ता ॥१७९॥ अरहउं णं



अरिष्टनेमिस्स चत्तारि सया चउइसपुव्वीणं अजिणणं जिणसंकासाणं जाव संपया हुढा, पन्नरस-  
सया उह्निनाणीणं, पन्नरससया केवलनाणीणं, पन्नरससया वेडविआणं, दससया विउखसईणं,  
अट्टसया वाईणं, सोखससया अणुत्तरोववाइआणं, पन्नरस समणसया सिद्धा, तीसं अज्जिया सयाइं  
सिद्धाइं ॥१७७॥ अरहत्ते णं अरिष्टनेमिस्स डुविहा अंतगढभूमी हुढा, तं जहा-जुगंतगरुभूमी  
य परियायंतगढभूमी य-जाव अट्टमात्तं पुरिसजुगालं जुगंतगरुभूमी, डुवासपरिआए अंतम-  
कासी ॥ १७९ ॥ तेणं काखेणं तेणं समएणं अरहा अरिष्टनेमी तिसि वाससयाइं कुमारवासमइं  
वसित्ता चउपन्नं राइंदियाइं ठउमत्तपरिआयं पाउणिता देसूणाइं सत्त वाससयाइं केवखिपरिआयं  
पाउणिता पडिपुन्नाइं सत्तवाससयाइं सामन्नपरिआयं पाउणिता एगं वाससहस्सं सवाउअं पालइत्ता  
खीणे वेयणिज्जाउयनामगुत्ते इमीसे उत्तसप्पिणीए इूसमसुसमाए षडु विइक्कंताए जे से गिम्हाणं चउठे  
मासे अट्टमे पक्के आसाढसुद्धे तस्स णं आसाढसुद्धस्स अट्टमीपक्केणं उप्पि उज्जितसेखसिहरंसि  
पंषहिं ठत्तीसेहिं अणगरसएहिं सद्धिं मासिएणं जत्तेणं अपाएएणं चित्तानक्कत्तेणं जोगमुवागएणं

पुत्रचारत्तकालसमग्रंति नेसज्जिप कालगण ( ग्रंथा० ००० ) जाव सबदुक्कप्पहीणे ॥ १०२ ॥ अ-  
 रदुत्तं णं अरिठ्ठनेमिस्स कालगयस्स जाव सबदुक्कप्पहीणस्स चउरासीइं वाससहस्साइं विइक्कंताइं  
 पंचासीइमस्स वाससहस्स नव वाससयाइं विइक्कंताइं, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे संवहरे  
 काले गहइ ॥ १०३ ॥ नमिस्स णं अरदुत्तं कालगयस्स जाव सबदुक्कप्पहीणस्स पंचवाससयसहस्साइं  
 चउरासीइं च वाससहस्साइं नव य वाससयाइं विइक्कंताइं, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे  
 संवहरे काले गहइ ॥ १०४ ॥ सुणिसुवयस्स णं अरदुत्तं जाव सबदुक्कप्पहीणस्स इक्कारस वाससयस-  
 हस्साइं चउरासीइं च वाससहस्साइं नव वाससयाइं विइक्कंताइं दसमस्स य वाससयस्स अयं अ-  
 सीइमे संवहरे काले गहइ ॥ १०५ ॥ मत्तिस्स णं अरदुत्तं जाव प्पहीणस्स पत्ताठिं वाससयसहस्साइं  
 चउरासीइं च वाससहस्साइं नव वाससयाइं विइक्कंताइं, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे सं-  
 वहरे काले गहइ ॥ १०६ ॥ अरस्स णं अरदुत्तं जाव प्पहीणस्स एगे वासकोडिसहस्से विइक्कंते-सेसं  
 जहा मत्तिस्स-तं च एयं-पंचसठिं सखा चउरासीइं च वाससहस्साइं विइक्कंताइं तंमि समए

महावीरो निवृत्तं तत्र परं नव वाससयाइं विद्वंताइं दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे सं-  
 वहरे काले गह्वइ-एवं अगत्तं जाव सेयंसो ताव दठवं ॥१७५॥ कुंथुस्स एं अरहत्तं जाव प्पही-  
 णस्स एगे षडजागपलित्तवमे विद्वंते, पंचसठिं च सयसहस्सा-सेसं जहा मच्चिस्स ॥१७६॥ सं-  
 सिस्स एं अरहत्तं जाव प्पहीणस्स एगे चउत्तागूणे पलित्तवमे विद्वंते-पन्नहिं च-सेसं जहा म-  
 च्चिस्स ॥१७७॥ धम्मस्स एं अरहत्तं जाव प्पहीणस्स तन्नि सागरोवमाइं विद्वंताइं-पन्नहिं च-सेसं  
 जहा मच्चिस्स ॥१७८॥ अणंतस्स एं अरहत्तं जाव प्पहीणस्स सत्त सागरोवमाइं विद्वंताइं-पन्नहिं  
 च-सेसं जहा मच्चिस्स ॥१७९॥ विमलस्स एं अरहत्तं जाव प्पहीणस्स सोलस सागरोवमाइं विद्वं-  
 ताइं-पन्नहिं च-सेसं जहा मच्चिस्स ॥१८०॥ बासुपुज्जस्स एं अरहत्तं जाव प्पहीणस्स छायादीसं  
 सागरोवमाइं विद्वंताइं, पन्नहिं च-सेसं जहा मच्चिस्स ॥ १८१ ॥ सिज्जंसस्स एं अरहत्तं जाव  
 प्पहीणस्स एगे सागरोवमसए विद्वंते, पन्नहिं च-सेसं जहा मच्चिस्स ॥ १८२ ॥ सीअलस्स एं  
 अरहत्तं जाव प्पहीणस्स एगा सागरोवमकोडी तिवासअरुनवममासाहिअबायालीसवासस-

इस्सेहिं ऊणिआ विइकंता-एयंमि समए महावीरो निवुठे-तउवि परं नववाससयाइं विइकं-  
 ताइं, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे संवहरे काळे गहइ ॥ १ए५ ॥ सुविहिस्स णं अ-  
 रइउं जाव प्पहीणस्स दस सागरोवमकोडीउं विइकंताउं-सेसं जहा सीअलस्स-तं च इमं-ति-  
 वासअरुनवममासाहिअवायालीसवाससइस्सेहिं ऊणिआ विइकंता इच्चाइ ॥ १ए६ ॥ चंदप्प-  
 इस्स णं अरइउं जाव प्पहीणस्स एगं सागरोवमकोडिसयं विइकंतं-सेसं जहा सीअलस्स, तं च  
 इमं-तिवासअरुनवममासाहिअवायालीसवाससइस्सेहिं ऊणगमिच्चाइ ॥ १ए७ ॥ सुपासस्स णं  
 अरइउं जाव प्पहीणस्स एगे सागरोवमकोडिसइस्से विइकंते-सेसं जहा सीअलस्स, तं च इमं-ति-  
 वासअरुनवममासाहिअवायालीसवाससइस्सेहिं ऊणिआ इच्चाइ ॥ १ए८ ॥ एउमप्पइस्स णं अ-  
 रइउं जाव प्पहीणस्स दस सागरोवमकोडिसइस्सा विइकंता-सेसं जहा सीअलस्स, तं च इमं-ति-  
 वासअरुनवममासाहिअवायालीसवाससइस्सेहिं ऊणगमिच्चाइ ॥ १ए९ ॥ सुमइस्स णं अरइउं  
 जाव प्पहीणस्स नव सागरोवमकोडिसयसइस्से विइकंते-सेसं जहा सीअलस्स, तं च इमं-ति-

वासश्चरुनवममासाह्निअबायालीसवाससहस्सेहिं ऊणगमिच्चाइ ॥ २०० ॥ अग्निनंदणस्स णं अ-  
 रह्ठे जाव प्पहीणस्स दस सागरोवमकोफिसयसहस्सा विइक्कंता-सेसं जहा सीअलस्स तं च  
 इमं-तिवासश्चरुनवममासाहिअबायालीसवाससहस्सेहिं ऊणगमिच्चाइ ॥ २०१ ॥ संचवस्स णं अर-  
 ह्ठे जाव प्पहीणस्स वीसं सागरोवमकोफिसयसहस्सा विइक्कंता-सेसं जहा सीअलस्स, तं च  
 इमं-तिवासअरुनवममासाहिअबायालीसवाससहस्सेहिं ऊणगमिच्चाइ ॥ २०२ ॥ अजियस्स णं  
 अरह्ठे जाव प्पहीणस्स पद्दासं सागरोवमकोफिसयसहस्सा विइक्कंता-सेसं जहा सीअलस्स, तं  
 च इमं-तिवासश्चरुनवममासाह्निअबायालीसवाससहस्सेहिं ऊणगमिच्चाइ ॥ २०३ ॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं उसजे णं अरहा कोसलिए चउ उत्तरासाहे अजीइपंचमे हुवा ॥ २०४ ॥  
 तं जहा-उत्तरासाढाहिं चुए, चइत्ता गप्पं वक्कंते जाव अजीइणा परिनिव्वुए ॥ २०५ ॥ तेणं का-  
 लेणं तेणं समएणं उसजे णं अरहा कोसलिए जे से गिम्हाणं चउठ्ठे मासे सत्तमे पक्के आसाढ-  
 बहुले तस्स णं आसाढबहुलस्स चउठ्ठीपक्केणं सब्बहसिद्धाढे महाविमाणाले तित्तीससागरोवमहि-

इआउ अणंतरं चयं षड्गता इहेव जंजुषीवि दीत्रे नारहे वासे इकागभूमीए नात्रिकुलगरस्स मरु-  
 देवाए नारिआए पुवरत्तावरत्तकालसमयंसि आहारवक्कीतीए जाव गप्पत्ताए वक्कंते ॥ २०६ ॥  
 उसने णं अरहा कोसलिए तिन्याणोवगए आविहुवा, तं जहा-षड्स्सामिति जाणइ-जाव-सुमिणे  
 पासइ, तं जहा-गयवसइगाहा ॥ सवं तहेव-नवरं पढमं उसन्नं सुहेणं अइतं पासेइ सेसाउ गयं  
 ॥ नात्रिकुलगरस्स साहेइ, सुविणपाढगा नठि, नाभिकुलगरो सयमेव वागरेइ ॥ २०७ ॥ तेणं का-  
 लेणं तेणं समाणं उसने णं अरहा कोसलिए जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे पखे चित्तवहुले तस्स णं  
 चित्तवहुलस्स अट्टमीपखेणं नवण्हं मासाणं बहुपडिपुन्नाणं जाव आसाढाहिं नखत्तेणं जोगमुवागएणं  
 आरोगारोगं दारयं पयाथा ॥ २०८ ॥ तं चैव सवं जाव देवा देवा वसुहरवासं वासिसु,  
 सेसं तहेव चारगसोहणमाणुस्माणवरुणउस्सुकमार्इयट्टिइवडियजूवज्जं सवं भाणिअवं ॥ २०९ ॥  
 उसने णं अरहा कोसलिए कासवगुत्तेणं तस्स णं पंच नामधिक्का एवमाहिज्जंति, तं जहा-उसनेइ वा,  
 पढमरायाइ वा, पढमन्निकागरेइ वा, पढमजिणेइ वा, ॥२१०॥ उसने णं अ-

रहा कोसल्लिए द्रुके द्रुकपद्मे पडिरूवे आलीणे न्हए विणीए वीसं पुवसयसहस्साइं कुमारवासमज्जे वसित्ता, तेवढिं पुवसयसहस्साइं रज्जवासमज्जे वसइ, वसमाणे खेहाइआउं गणियप्पहाणउं सब-  
णरुयपज्जवसाणउं बावत्तरीं कलाउं चउसठिं महिल्लागुणे, सिप्पसयं च कम्माणं, -तिन्निवि पया-  
हिआए उवदिसइ, (२) ता पुत्तसयं रज्जसए अभिसिचइ, (३) ता पुणरवि लोअंतिएहिं जि-  
अकप्पिएहिं देवेहिं ताहिं इठाहिं जाव वग्गूहिं-सेसं तं चेव सबं जाणियअवं जाव दाणं दाइआणं  
परिभाइत्ता, जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्के चिचबहुले तस्स णं चित्तबहुलस्स अठमी-  
पक्केणं दिवसस्स पहिमे भागे सुदंसणाए सीबिआए सदेवमणुआसुराए परिसाए समणुग्गम-  
माणमगे जाव विणीयं रायहार्णिं मडुंमज्जेणं निग्गहइ, (३) ता जेणेव सिद्धहवणे उज्जाणे जे-  
णेव असोगवरपायवे तेणेव उवागहइ, (३) ता असोगवरपायवस्स अहे जाव सयमेव चउमु-  
ठिअं लोअं करेइ (३) ता उठेणं जत्तेणं अपाणएणं आसाढाहिं नक्कत्तेणं जोगमुवागएणं उग्गणं  
जोगाणं राइन्नाणं खचियाणं च चउहिं 'पुरिससहस्सेहिं सद्धिं एगं देवइसमादाय मुंहे भवित्ता

अगारात् अणगारियं पवङ्ग ॥ २११ ॥ असन्ने णं अरद्दा कोसल्लिए एगं वाससहस्सं निच्चं वोस-  
 ठकाण् विपत्तदेहे जाव अत्पाणं चावेमाणस्स इक्कं वाससहस्सं विइक्कंतं, तत्तं णं जे से हेसंताणं  
 चत्ते माले सत्तमे पस्के फग्गुणवहुत्ते तस्स णं फग्गुणवहुलस्स इक्कारसीपस्केणं पुवम्हकालसम-  
 वंसि पुरिमत्तलस्स नयरस्स व्हिआ सगरुमुहंसि उज्जाणंसि नगोद्वरपायवस्स अहे अठमेणं  
 चत्तेणं अपाणरणं आसाढाद्धिं नस्सत्तेणं जोगमुवागएणं प्राणंतरिआए वट्टमाणस्स अणंते जाव  
 जाणमाणे पासमाणे विहरइ ॥ २१२ ॥ असभस्स णं अरद्दत्तं कोसल्लियस्स चउरासीइ गणा, च-  
 उरामीइ गणद्दगा हुब्बा ॥ २१३ ॥ असजस्स णं अरद्दत्तं कोसल्लियस्स असजसेणपामुस्साणं चउ-  
 रामीइ समणसाहस्सीत्तं उक्कोसिया समणसंपया हुब्बा ॥ २१४ ॥ असभस्स णं अरद्दत्तं वंसिसु-  
 दरिपामुस्साणं अज्जियाणं तिन्नि सयसाहस्सीत्तं उक्कोसिया अज्जियासंपया हुब्बा ॥ २१५ ॥ असजस्स णं  
 अरद्दत्तं सिज्जंसपामुस्साणं समणोवासगणं तिन्नि सयसाहस्सीत्तं पंच सहस्सा उक्कोसिया समणो-  
 वासगणं संपया हुब्बा ॥ २१६ ॥ असजस्स णं अरद्दत्तं सुज्जपापामुस्साणं समणोवासियाणं पंच-



सयसाहस्सीत् चउपन्नं च सहस्सा उक्कोसिया समणोवासियाणं संपया हुब्बा ॥ २१७ ॥ उसन्नस्स  
 णं अरहत्तं चत्तारि सहस्सा सत्त सया पन्नासा चउद्दसपुवीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं जाव  
 उक्कोसिया चउद्दसपुवीणं संपया हुब्बा ॥ २१८ ॥ उसन्नस्स णं अरहत्तं नव सहस्सा उहिनानीणं  
 उक्कोसिया उहिनानीसंपया हुब्बा ॥ २१९ ॥ उसन्नस्स णं अरहत्तं वीससहस्सा केवलनाणीणं  
 उक्कोसिया केवलनाणीणं संपया हुब्बा ॥ २२० ॥ उसभस्स णं अरहत्तं वीससहस्सा छच्च सया वे-  
 उवियाणं उक्कोसिया वेउवियाणं संपया हुब्बा ॥ २२१ ॥ उसभस्स णं अरहत्तं बारस सहस्सा उच्च  
 सया पन्नासा विउलमईणं अह्हाइजेसु दीवेषु दोसु अ समुद्देशु सन्नीणं पंचिदियाणं पज्जसगणं  
 मणोगए त्रावे जाणमाणाणं उक्कोसिया विउलमइसंपया हुब्बा ॥ २२२ ॥ उसन्नस्स णं अरहत्तं  
 बारस सहस्सा छच्च सया पन्नासा वाईणं उक्कोसिया वाईणं संपया हुब्बा ॥ २२३ ॥ उसन्नस्स णं  
 अरहत्तं वीसं अंतेवासिसहस्सा सिद्धा-उसन्नस्स णं अरहत्तं चत्तावीसं अज्जियासाहस्सीत्  
 सिद्धात्तं ॥ २२४ ॥ उसन्नस्स णं अरहत्तं बावीससहस्सा नव सया अणुत्तरोववाइयाणं गइकद्धा-

गाणं जाय उक्तेसिया अणुत्तरोववाइयाणं संपया हुढा ॥ २२५ ॥ उत्तमस्स णं अरइउं उविदा  
 अंतमइरुमी हुढा, तं जहा-उंगंतगरुभुमी परिंयायंतगरुभुमी य-जाव असंखिजाउं पुरिसजुगाउं  
 उंगंतगरुभुमी, अंतोमुहुत्तपरिआए अंतमकासी ॥ २२६ ॥ तेणं कालेणं तेणं समणं उत्तमे अ-  
 रइा कोत्तलिए वीसं पुवसयसइस्साइं कुमारवासमझे वसित्ता तेवठिं पुवसयसइस्साइं रज्जास-  
 मझे वसित्ता तेमीइं पुवसयसइस्साइं अगारवासमझे वसित्ता एगं वालसइस्सं ठउत्तववपरिआउं  
 पाउणित्ता एगं पुवसयसइस्सं वाससइस्सूणं केवळिपरिआयं पाउणित्ता पडिपुजं पुवसवसइस्सं  
 तामन्नपरिआयं पाउणित्ता अउरासीइं पुवसयसइस्साइं सवाउयं पालइत्ता खीणे वेयणित्ताउय-  
 नामगुत्ते इमीत्ते उत्तप्पिणीए सुसमइस्समाए समाए बहु विइकंताए तिहिं वसिहिं अ अन्नववेहिं य  
 सान्निहिं सेत्तेहिं जे से हेमंताणं तच्चे मासे पंचमे पखे माइवहुले तस्स णं माइवहुलस्स ( अथा०  
 १००) तेमस्सीवस्सेणं उप्पिअट्ठावयसेलसिहरंसि दसहिं अणगारसइस्सेहिं सडिं चउदत्तमेणं अत्तेणं  
 अपाणणं अनीइणा नखत्तेणं जोगसुत्तागएणं पुवन्इकालसमयंसि संपविचं कनिसत्ते कालगए वि-

इक्षंते जाव सवदुक्कपणीणे ॥ २२७ ॥ उसभस्स णं अरहउं कोसलियस्स जाव सवदुक्कपणीणस्स  
 तिननि वासा अरुनवमा य मासा विइक्कंता, तउवि परं षगा सागरोवमकोडाकोडी-तिवासअरु-  
 नवममासाहियबायालीसवाससहस्सेहिं जणिया विइक्कंता, एयंमि समए समणे जगवं महावीरि  
 परिनिवुडे, तउवि परं नव वाससया विइक्कंता, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे संव-  
 हरे काले गहइ ॥ २२८ ॥

अथ स्थविरावदी ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवउं महावीरस्स नव गणा  
 इक्कारस गणहरा हुवा ॥ से केणठेणं जंते! एवं बुच्चइ-समणस्स जगवउं महावीरस्स नव गणा  
 इक्कारस गणहरा हुवा? ॥ समणस्स भगवउं महावीरस्स जिठ्ठे इंदभूई अणगारे गोयमसगुत्तेणं  
 पंच समणसयाइं वाएइ, मज्जिमे अग्गिभूई अणगारे गोयमसगुत्तेणं पंच समणसयाइं वाएइ, क-  
 णीयसे अणगारे वाउभूई गोयमसगुत्तेणं पंच समणसयाइं वाएइ, थेरे अज्जवियत्ते जारहाए गुत्तेणं  
 पंच समणसयाइं वाएइ, थेरे अज्जसुहम्मे अग्गिवेसायणगुत्तेणं पंच समणसयाइं वाएइ, थेरे मं-

डिश्रयुते वासिष्ठे गुत्तेणं अङ्गुष्ठाइं समणसयाइं वाएइ, थेरे मोरिअपुत्ते कासवे गुत्तेणं अङ्गुष्ठाइं  
 समणसयाइं वाएइ, थेरे अकंपिए गोथमसगुत्तेणं-थेरे अघसजाया हारिआयणे गुत्तेणं-एए दु-  
 द्विवि श्रेया तिन्रि तिन्रि समणसयाइं वाएति, थेरे मेअले-थेरे पजासे-एए छुन्निवि श्रेया कोडि-  
 ज्ञागुत्तेणं तिन्रि तिन्रि समणसयाइं वाएति, से तेणट्टेणं अज्जो एवं बुच्चइ, समणस्स भगवत्तं महा-  
 वीरस्स नव गणा इकारस गणहरा हुडा ॥ सवे एए समणस्स भगवत्तं महावीरस्स इकारसवि  
 गणहरा दुवालसंगिणो चउइसपुविणो समत्तगणपिडगधारगा रायगिहे नयरे मासिएणं भत्तेणं  
 अयाणएणं कालगया जाव सबदुक्कप्पहीणा ॥ थेरे इंदमूइं थेरे अज्जसुहम्ममे य सिद्धिं गए महावीरे  
 पत्ता छुन्निवि श्रेया परिनिब्बुया ॥ जे इमे अज्जत्ताए समणा निगंथा विहरंति एए णं सवे अज-  
 सुहम्मस्स अणगारस्स आत्तच्चिजा अत्तसेसा गणहरा निरत्तच्चा बुद्धिन्ना ॥ समणे भगवत्तं महावीरे  
 कासवगुत्ते ॥ समणस्स णं नगवत्तं महावीरस्स कासवगुत्तस्स अज्जसुहम्ममे थेरे अत्तेवासी अग्गि-  
 वेसायणगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जसुहम्मस्स अग्गिवेसायणगुत्तस्स अज्जजंबूनामे थेरे अत्तेवासी कास-

वगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जजंबूणामस्स कासवगुत्तस्स अज्जप्पन्नवे थेरे अंतेवासी कच्चायणगुत्ते ॥  
 थेरस्स णं अज्जप्पन्नवस्स कच्चायणगुत्तस्स अज्जसिजंनवे थेरे अंतेवासी मण्णपिया वल्लसगुत्ते ॥  
 थेरस्स णं अज्जसिजंभवस्स मण्णपिउणो वल्लसगुत्तस्स अज्जजसभदे थेरे अंतेवासी तुंगियायणस-  
 गुत्ते ॥ संखित्तवायणाए अज्जजसभहाले अगले एवं थेरावली भणिया ॥ तं जहा-थेरस्स णं अज्ज-  
 जसभहस्स तुंगियायणसगुत्तस्स अंतेवासी दुवे थेरा-थेरे अज्जसंभूइविजए माढरसगुत्ते, थेरे अ-  
 ज्जभहनाहू पाईणसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जसंभूइविजयस्स माढरसगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अज्जशूल-  
 न्ने गोयमसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जशूलन्नहस्स गोयमसगुत्तस्स अंतेवासि दुवे थेरा-थेरे अज्जमहा-  
 गिरि एलावच्चसगुत्ते, थेरे अज्जसुहह्ठी वासिह्ठसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जसुहह्ठिस्स वासिह्ठसगुत्तस्स  
 अंतेवासी दुवे थेरा सुड्ढियसुप्पडिबुद्धा कोमियकाकंदगा वग्घावच्चसगुत्ता ॥ थेराणं सुड्ढियसुप्पडिबु-  
 द्धाणं कोडियकाकंदगाणं वग्घावच्चसगुत्ताणं अंतेवासी थेरे अज्जइंददिन्ने कोसियगुत्ते ॥ थेरस्स णं  
 अज्जइंददिन्नस्स कोसियगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अज्जदिन्ने गोयमसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जदिन्नस्स गो-

यमसगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अज्जसीहगिरी जाइस्सरे कोसियगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जसीहगिरिस्स  
जाइस्सग्गस्स कोसियसगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अज्जवइरे गोयमसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जवइरस्स गो-  
यमसगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अज्जवइरसेणे उक्कोसियगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जवइरसेणस्स उक्कोसि-  
यगुनस्स अंतेवासी चत्तारि थेरा-थेरे अज्जनाइले, थेरे अज्जपोमिले, थेरे अज्जजयंते, थेरे अज्ज-  
नावसे ॥ थेराउं अज्जनाइलाउं अज्जनाइला साहा निग्गया, थेराउं अज्जपोमिलाउं अज्जपोमिला  
साहा निग्गया, थेराउं अज्जजयंताउं अज्जजयंती साहा निग्गया, थेराउं अज्जतावसाउं अज्ज-  
नावसी साहा निग्गया इति ॥ विठ्ठरायणाए पुण अज्जजसज्जवाउं पुरउं थेराववी एवं पलोइज्जइ  
तं जहा-थेरस्स णं अज्जजसभइस्स तुंगियायणसगुत्तस्स इमे दो थेरा अंतेवासी अहावच्चा अ-  
ग्गिन्नाया दुट्ठा. तं जहा-थेरे अज्जजइवाहू पाईणसगुत्ते, थेरे अज्जसंभूइविजए माठरसगुत्ते ॥  
थेरस्स णं अज्जभइवाहूस्स पाईणसगुत्तस्स इमे चत्तारि थेरा अंतेवासी अहावच्चा अग्गिन्नाया  
दुट्ठा, तं जहा-थेरे गोदासे, थेरे अग्गिदत्ते, थेरे जन्नदत्ते, थेरे सोमदत्ते, कासवगुत्तेण ॥ थेरेहितो

गोदासेहितो कासवगुत्तेहितो इह णं गोदासगणे नामं गणे निगण, तस्स णं इमालं चत्तारि सा-  
 हाळं एवमाहिज्जंति, तं जहा-तामबित्थिया, कोडीवरिसिया, पुंरुवच्छणीया, दासीखब्बडिया ॥  
 थेरस्स णं अज्जसंभूइविजयस्स माढरसगुत्तस्स इमे दुवाखस थेरा अंतेवासी अहावच्चा अग्नि-  
 ज्ञाया हुढा, तं जहा-नंदणभहु १ वनंदण-ज्जे २ तह तीसजह ३ जसजहे ४ । थेरे य सुमणज्जे  
 ५, मणिज्जे ६ पुष्पभहे ७ य ॥ १ ॥ थेरे अ शूलभहे ८, उज्जुमई ए जंबूनामधिज्जे १० य । थेरे  
 अ दीहभहे ११, थेरे तह पंगुजहे १२ य ॥ २ ॥ थेरस्स णं अज्जसंभूइविजयस्स माढरसगुत्तस्स  
 इमालं सत्त अंतेवासिणीलं अहावच्चाळं अग्निनायाळं हुढा, तं जहा-जखा य १ जखदिन्ना २,  
 भूआ ३ तह चैव चूअदिन्ना य ४ । सेणा ५ वेणा ६ रेणा ७, जइणीलं शूलभहस्स ॥ १ ॥ थे-  
 रस्स णं अज्जशूलजहस्स गोयमसगुत्तस्स इमे दो थेरा अंतेवासी अहावच्चा अग्निनाया हुढा, तं  
 जहा-थेरे अज्जमहागिरी एलावच्चसगुत्ते, थेरे अज्जसुहठी वासिष्ठसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जमहा-  
 गिरिस्स एलावच्चसगुत्तस्स इमे अठ थेरा अंतेवासी अहावच्चा अग्निनाया हुढा, तं जहा-थेरे

उत्तरे १, थेरे षक्सिदे २, थेरे थण्ठे ३, थेरे सिरिभे ४, थेरे कोन्निरे ५, थेरे नागे ६, थेरे नागमित्ते ७, थेरे वड्डुए रोह्गुत्ते कोसियगुत्तेणं ॥७॥ थेरेहितो एं छड्डुएहितो रोह्गुत्तेहितो कोसियगुत्तेहितो तन्न एं तेगसिया निगया ॥ थेरेहितो एं उत्तरवक्सिदेहितो तन्न एं उत्तरवक्सिदे नामं गणे निगए, तस्स एं इमाउ चत्तारि साहाउ एवमाहिज्जंति, तं जहा-कोसंविया, सुत्तिवत्तिया, कोडवाणी, चंदनागरी ॥ थेरस्स एं अज्जसुह्विस्स वासिठसगुत्तस्स इमे दुवालस थेरा अंतेवासी अहावच्चा अजिन्नाया दुत्ता, तं जहा-थेरे अज्जरोहण १, जजसे २ मेह ३ गणिय कामिद्धी ४ । सुट्ठिय ५ सुप्पडिबुद्धे ६, रक्खिय ७ तह रोह्गुत्ते ८ अ ॥ १ ॥ इसिगुत्ते ए सिरिगुत्ते १०, गणी अ वंने ११ गणी य तह सोमे १२ । दस दो अ गणहरा खलु, एए सीसा सुह्विस्स ॥ ३ ॥ थेरेहितो एं अज्जरोहणेहितो कासवगुत्तेहितो तन्न एं उव्वेह्गणे नामं गणे निगए, तस्सिमाउ चत्तारि साहाउ निगयाउ तन्न कुलाइं एवमाहिज्जंति, से किं तं साहाउ? साहाउ एवमाहिज्जंति, तं जहा-उडुंवरिज्जिया, मास-गुरिआ, मइपत्तिया, पुत्तपत्तिया, से तं साहाउ ॥ से किं तं कुलाइं? कुलाइं एवमाहिज्जंति ॥ तं



जहा-पढमं च नागभूयं, विश्वं पुण सोमभूइयं होइ । अह उह्वगह तइअं, चउठयं हहखिज्जंतु ॥ १ ॥  
 पंचमगं नंदिज्जं, बठं पुण पारिहासयं होइ । उदेहगणस्सेए, छव कुषा हुंति नायवा ॥ २ ॥ अ-  
 रेहितो णं सिरिगुत्तेहितो हारियायसगुत्तेहितो इत्त णं चारणगणे नामं गणे निगए, तस्स णं इ-  
 मात्त चत्तारि साहात्त सत्त य कुळाइं एवमाहिज्जंति, से किं तं साहात्त ? साहात्त एवमाहिज्जंति,  
 तं जहा-हारियमात्तागारी, संकासीआ, गवेधुया, वज्जनागरी, से तं साहात्त ॥ से किं तं कु-  
 लाइं ? कुलाइं एवमाहिज्जंति, तं जहा-पढमित्त वह्वखिज्जं, वीयं पुण पीइधम्मिअं होइ । तइअं  
 पुण हाखिज्जं, चउठयं पूसमित्तिज्जं ॥ १ ॥ पंचमगं मालिज्जं, बठं पुण अज्जवेडयं होइ । सत्त-  
 मयं काहूसहं, सत्त कुला चारणगणस्स ॥ २ ॥ अरेहितो ऋजसेहितो भारद्वायगुत्तेहितो इत्त णं  
 उमुवाडियगणे नामं गणे निगए, तस्स णं इमात्त चत्तारि साहात्त, तिन्नि कुळाइं एवमाहिज्जंति,  
 से किं तं साहात्त ? साहात्त एवमाहिज्जंति, तं जहा-चंपिज्जिया, ऋदिज्जिया, काकंदिया, मेह-  
 लिज्जिया, से तं साहात्त ॥ से किं तं कुळाइं (२) एवमाहिज्जंति, तं जहा-ऋजसियं तह ऋज-गु-

त्रियं तदयं च होइ जसजइं । प्याइं उठुयाकिय-गणस्स तिन्नेवय कुलाइं ॥ १ ॥ अरेहिंतो णं  
 कामिद्धिंहितो कोडाअसगुत्तेहितो इउ णं वेसवाकियगणे नामं गणे निग्गए, तस्स णं इमाउ चत्तारि  
 साहाउ चत्तारि कुलाइं एवमाहिज्जंति, से किंतं साहाउ? साण एवमाहिज्जंति, तं जहा-पावडिया,  
 रज्जापाकिया, अंतरिज्जिया, खेसलिज्जिया, से तं साहाउ ॥ से किं तं कुलाइं? कुलाइं एवमाहि-  
 ज्जंति, तं जहा-गणियं मेहियकासि-द्धिअं च तह होइ इंदपुरगं च । प्याइं वेसवाडिय-गणस्स  
 चत्तारि उ कुलाइं । १ ॥ अरेहिंतो णं इसिगुत्तेहितो कोडियकाकंदिएहितो वासिठ्ठसगुत्तेहितो इउ णं  
 माणवगणे नामं गणे निग्गए, तस्स णं इमाउ चत्तारि साहाउ, तिन्नि य कुलाइं एवमाहिज्जंति,  
 से किं तं साहाउ? साहाउ एवमाहिज्जंति, तं जहा-कासविज्जिया, गोयलिज्जिया, च तिठिया,  
 सोरठिया, से तं साहाउ ॥ से किं तं कुलाइं? कुलाइं एवमाहिज्जंति, तं जहा-इसिगुत्तियउ व-  
 डमं, वीयं इसिदच्चिअं सुणेयवं ॥ तदयं च अन्नियंतं, तिन्नि कुला माणवगणस्स ॥ १ ॥ अरेहिंतो  
 मुद्धियवपडिवुत्तेहितो कोडियकाकंदिएहितो वग्गवच्चसगुत्तेहितो इउ णं कोकियगणे नामं गणे नि

दुष्ठा, तं जहा-थेरे अज्जवइरसेणे, थेरे अज्जपउमे, थेरे अज्जरहे ॥ थेरेहितो णं अज्जवइरसेणे-  
 हितो इह णं अज्जनाइली साहा निगया, थेरेहितो णं अज्जपउमेहितो इह णं अज्जपउमा साहा  
 निगया, थेरेहितो णं अज्जरहेहितो इह णं अज्जजयंती साहा निगया ॥ थेरस्स णं अज्जरइस्स  
 वहुसगुत्तस्स अज्जपूसगिरी थेरे अंतेवासी कोसियगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जपूसगिरिस्स कोसियगुत्तस्स  
 अज्जफ्फगुमित्ते थेरे अंतेवासी गोथमसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जफ्फगुमित्तस्स गोथमसगुत्तस्स अज्ज-  
 धणगिरी थेरे अंतेवासी वासिइसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जधणगिरिस्स वासिइसगुत्तस्स अज्जसिवभूई  
 थेरे अंतेवासी कुहसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जसिवभूइस्स कुहसगुत्तस्स अज्जभइ थेरे अंतेवासी  
 कासवगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जभइस्स कासवगुत्तस्स अज्जनक्कते थेरे अंतेवासी कासवगुत्ते ॥  
 थेरस्स णं अज्जनक्कत्तस्स कासवगुत्तस्स अज्जरक्के थेरे अंतेवासी कासवगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जर-  
 क्कस्स कासवगुत्तस्स अज्जनागे थेरे अंतेवासी गोथमसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जनागस्स गोथमसगु-  
 त्तस्स अज्जजेइल्ले थेरे अंतेवासी वासिइसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जजेइल्लस्स वासिइसगुत्तस्स अ-

ज्वविण्डु येरे अंतेवासी माढरसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जविण्डुस्स माढरसगुत्तस्स अज्जकालए  
 येरे अंतेवासी गोयमसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जकालयस्स गोयमसगुत्तस्स इमे दो थेरा अंतेवासी  
 गोयमसगुत्ता, -येरे अज्जसंपल्लिए, येरे अज्जजधे ॥ एएसि णं दुह्णं थेराणं गोयमसगुत्ताणं अज्ज-  
 बुद्धे येरे अंतेवासी गोयमसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जबुद्धस्स गोयमसगुत्तस्स अज्जसंघपालिए थेरे  
 अंतेवासी गोयमसगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जसंघपासिअस्स गोयमसगुत्तस्स अज्जहन्धी थेरे अंते-  
 वासी कासवगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जहन्डिस्स कासवगुत्तस्स अज्जधम्मे थेरे अंतेवासी सुवयगुत्ते  
 ॥ थेरस्स णं अज्जधम्मस्स सुवयगुत्तस्स अज्जसीद्धे थेरे अंतेवासी कासवगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जसी-  
 द्दस्स कासवगुत्तस्स अज्जधम्मे थेरे अंतेवासी कासवगुत्ते ॥ थेरस्स णं अज्जधम्मस्स कासवगुत्तस्स  
 अज्जसंङ्खे थेरे अंतेवासी ॥

॥ वंदामि फणुमिच्चं, गोयमं धणगिरिं च वासिष्ठं ॥ कुष्ठं सिवचूडंपि य, कोसियदुज्जंत कन्दहे  
 य ॥१॥ तं वंदिऊण सिरसा, जदं वंदामि कासवगुत्तं ॥ नरकं कासवगुत्तं, रक्कंपि य कासवं वंदे

॥ ३ ॥ वंदामि अज्जनागं, च गोयमं जेहिलं च वासिहं ॥ विणहुं माढरगुत्तं, कालगमवि गोयमं  
 वंदे ॥ ३ ॥ गोयमगुत्तकुमारं, संपलियं तहय भइयं वंदे ॥ अेरं च अज्जबुहं, गोयमगुत्तं नमंसासि  
 ॥ ४ ॥ तं वंदिज्जण सिरसा, थिरसत्तचरित्तनाणसंपन्नं ॥ अेरं च संघपालिअं गोयमगुत्तं पणिव-  
 यासि ॥ ५ ॥ वंदामि अज्जहहिं, च कासवं खंतिसागरं धीरं ॥ गिम्हाणपढममासे, कालगयं चि-  
 त्तसुद्धस्स ॥ ६ ॥ वंदामि अज्जधम्मं, च सुव्वयं सीलवज्जिसंपन्नं ॥ जस्स निक्खभणे देवो, तत्तं व-  
 रसुत्तमं वहइ ॥ ७ ॥ हहं कासवगुत्तं, धम्मं सिवसाहगं पणिवयामि ॥ सीहं कासवगुत्तं, धम्मंपि  
 य कासवं वंदे ॥ ८ ॥ तं वंदिज्जण सिरसा, थिरसत्तचरित्तनाणसंपन्नं ॥ अेरं च अज्जजंबुं, गोयम-  
 गुत्तं नमंसासि ॥ ९ ॥ मिज्जमइवसंपन्नं, उवउत्तं नाणदंसणचरित्ते ॥ अेरं च नंदियं य, कासव-  
 गुत्तं पणिवयामि ॥ १० ॥ तत्तो य थिरचरित्तं, उत्तमस्समत्तसत्तसंजुत्तं ॥ देवहिल्लिमासमाणं, माढ-  
 रगुत्तं नमंसासि ॥ ११ ॥ तत्तो अणुउर्गधरं, धीरं मइसागरं महासत्तं ॥ थिरगुत्तलमासमाणं, वह-  
 सगुत्तं पणिवयामि ॥ १२ ॥ तत्तो य नाणदंसण-चरित्तवसुद्धियं गुणमहंतं ॥ थेरं कुमारधम्मं,

वंदासि गणिं गुणोविंयं ॥ १३ ॥ सुत्तरयणन्नरिए, खमदममहवगुणेहिं संपन्ने ॥ देवद्विखमासमणे,  
कालवगुत्ते पणिवयासि ॥ १४ ॥ इति शैरावलिथा समत्ता ॥

तेणं काञ्चिणं तेणं समएणं समणे जगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे विइक्कंते  
वानावासं पज्जोसवेइ ॥ १ ॥ से केणठेणं जंते ! एवं बुच्चइ ? समणे भगवं महावीरे वासाणं सवी-  
सइराए मासे विइक्कंते वासावासं पज्जोसवेइ ? जलं णं पाएणं अगारीणं अगाराइं कदियाइं उक्कं-  
वियाइं छन्नाइं खित्ताइं गुत्ताइं वट्ठाइं मट्ठाइं धूपधूमियाइं खालदगाइं खायनिद्धमणाइं अप्पणो अ-  
ट्ठाए कडाइं परिचुत्ताइं परिणामियाइं भवंति. से तेणठेण एवं बुच्चइ, समणे जगवं महावीरे वासाणं  
सवीसइराए मासे विइक्कंते वासावासं पज्जोसवेइ ॥ २ ॥ जहा णं समणे भगवं महावीरे वासाणं  
सवीसइराए मासे विइक्कंते वासावासं पज्जोसवेइ, तहा णं गणहरावि वासाणं सवीसइराए मासे  
विइक्कंते वासावासं. पज्जोसविति, ॥ ३ ॥ जहा णं गणहरावि वासाणं सवीसइराए जाव पज्जोस-  
विति, तहा णं गणहरसीसावि वासाणं जाव पज्जोसविति ॥ ४ ॥ जहा णं गणहरसीसा वासाणं

जाव पञ्जोसविति, तद्वा णं थेरावि वासाणं जाव पञ्जोसविति ॥ ५ ॥ जद्वा णं थेरा वासाणं जाव पञ्जोसविति, तद्वा णं जे इमे अज्जात्ताए समणा निगंथा विहरंति, एएवि अ णं वासाणं जाव पञ्जोसविति ॥ ६ ॥ जद्वा णं जे इमे अज्जात्ताए समणा निगंथावि वासाणं सवीसइराए मासे विइक्कंते वासावासं पञ्जोसविति, तद्वा णं अम्हंपि आयरिया उवप्लया वासाणं जाव पञ्जोसविति, ॥ ७ ॥ जद्वा णं अम्हंपि आयरिया उवप्लया वासाणं जाव पञ्जोसविति, तद्वा णं अम्हेवि वासाणं सवीसइराए मासे विइक्कंते वासावासं पञ्जोसवेमो, अंतरावि य से कप्पइ, नो से कप्पइ तं रयाणि उवाइणावित्तए ॥ ८ ॥ वासावासं पञ्जोसवियाणं कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा सवउ समंता सक्कोसं जोयणं उग्गहं उग्गिह्खित्ताणं चिद्धिउं अद्वाइंदमवि उग्गहे ॥ ९ ॥ वासावासं पञ्जोसवियाणं कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा सवउ समंता सक्कोसं जोयणं भिक्कायरियाए गंतुं पडिनियत्तए ॥ १० ॥ जद्वा नई निच्चोयगा निच्चसंद्दणा, नो से कप्पइ सवउ समंता सक्कोसं जोयणं भिक्कायरियाए गंतुं पडिनियत्तए ॥ ११ ॥ एरावई कुणालाए जद्वा चक्किया सिधा

एगं पायं जले किञ्चा एगं पायं थले किञ्चा एवं चक्रियापवन्नं कप्पइ सबल समंता सक्कोसं जोयणं गंतुं पडिनियत्तए ॥१२१॥ एवं च नो चक्रिया, एवं से नो कप्पइ सबल समंता सक्कोसं जोयणं गंतुं पडिनियत्तए ॥१२३॥ वासावासं पज्जोसवियाणं अत्तेगइयाणं एवं बुत्तपुवं नवइ, दावे जंते! एवं से कप्पइ दावित्तए, नो से कप्पइ पडिगाहित्तए ॥१४॥ वासावासं पज्जोसवियाणं अत्तेगइयाणं एवं बुत्तपुवं नवइ, पन्निगाहे जंते! एवं से कप्पइ पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ दावित्तए ॥१५॥ वासावासं पज्जोसवियाणं अत्तेगइयाणं एवं बुत्तपुवं नवइ, दावे जंते! पन्निगाहेहि जंते! एवं से कप्पइ दावित्तएवि पडिगाहित्तएवि ॥१६॥ वासावासं पज्जोसवियाणं नो कप्पइ निग्गंथाए वा निग्गंथीए वा इत्थाणं तुट्ठाणं आरुग्गाणं चत्थियसरीराणं इमात्तं नव रसविगइत्तं अन्निक्खणं (२) आहारित्तए, तं जहा-खीरं १, दाहिं २, नवणायं ३, सप्पि ४, तिळ्वं ५, गुडं ६, महुं ७, मज्जं ८, मंसं ९, ॥ १७ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं अत्तेगइयाणं एवं बुत्तपुवं नवइ, अट्ठो जंते! गिलाणस्स? से अ वएज्जा, अट्ठो से च पुत्थियवो, केवइएणं अट्ठो? से अ वएज्जा-एवइएणं अट्ठो गिलाणस्स, जं से पमाणं वयइ से च पमा-



एतं धित्तवे से य विन्नविज्जा, से य विन्नवेमाणे ल्लिज्जा, से य पमाणपत्ते होल-अत्ताहि-इय व-  
 त्तवं सिआ ? से किमाहु जंते ! एवइएणं अट्ठो गिलाणस्स ? सिथा णं एवं वयंतं परो वइज्जा पडि-  
 गाहेहि अज्जो ! पत्ता तुमं भस्सि वा पाहिसि वा-एवं से कप्पइ पडिगाहित्तए, नो से  
 कप्पइ गिलाणनीसाए पत्तिगाहित्तए ॥ १८ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं अत्ति णं थेराणं तहूप-  
 गाराइ कुत्ताइ, कडाइ, पत्तिआइ, थिज्जाइ, वेसासियाइ, सम्मयाइ बहुमयाइ अणुमयाइ जवंति  
 तत्त से नो कप्पइ अदक्कु वइत्तए “ अत्ति ते आत्तो ! इमं वा ” से किमाहु जंते ! सट्ठी गिही  
 गिह्णइ वा, तेणियं पि कुज्जा ॥ १९ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निच्चत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पइ  
 एगं गोअरकालं गाहावइकुलं जत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा नन्नहायरि-  
 यवेयावच्चेण वा एवं उवज्जायवेयावच्चेण वा तवस्सिवेयावच्चेण वा गिलाणवेयावच्चेण वा खुड्डएण  
 वा खुड्ढिआएण वा अवंजणजायएण वा ॥ २० ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स चत्तभत्तियस्स  
 भिक्खुस्स अयं एवइए विसेसे-जं से पात्तं निक्खम्म पुद्दामेव वियडगं जुच्चा पिच्चा पडिगहगं

संसिद्धिय नंपमडिजय से य संथरिडजा, कप्पइ से तद्विवसं तेणेव भत्तट्टेणं पज्जोसवित्तए, से य नो  
 मंथरिडजा, एवं से कप्पइ दुच्चंपि गाहावइकुलं नत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा  
 ॥ २१ ॥ वासावासं पज्जोसविदस्स उठ्ठनत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति दो गोअरकाला गाहावइकुलं  
 नत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ २२ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स अट्टमज्जति-  
 यस्स भिक्खुस्स कप्पंति तउ गोअरकाला गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसि-  
 त्तए वा ॥ २३ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स विगिठ्ठनत्तियस्स निक्खुस्स कप्पंति सत्वेवि गोअरकाला गा-  
 हावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ २४ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स  
 निच्चनत्तियस्स निक्खुस्स कप्पंति सहाइं पाणागाइं पडिगाहित्तए ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स  
 नउत्थनत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति नउ पाणागाइं पग्गिगाहित्तए, तं जहा-उस्सेइमं, संसेइमं,  
 चाउलोदगं ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स उठ्ठनत्तियस्स निक्खुस्स कप्पंति तउ पाणागाइं पडिगा-  
 हित्तए, तं जहा-तिलोदगं वा, लुसोदगं वा, जवोदगं वा ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स अ-

एतं धित्तवे से य विन्नविज्जा, से य विन्नवेमाणे खन्निज्जा, से य पमाणपत्ते होत-अत्ताहि-इय व-  
 त्तवं सिआ? से किमाहु जंते! एवइएणं अट्ठो गिलाणस्स? सिया णं एवं वयंतं परो वइज्जा पडि-  
 गाहेहि अज्जो! पत्ता तुमं भक्कसि वा पाहिसि वा-एवं से कप्पइ पडिगाहित्तए, नो से  
 कप्पइ गिलाणनीसाए पन्निगाहित्तए ॥ १७ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं अत्ति णं थेराणं तहूप-  
 गाराइं कुलाइं, कडाइं, पत्तिआइं, थिज्जाइं, वेसासियाइं, सम्मयाइं बहुमयाइं अणुमयाइं जवंति  
 तन्न से नो कप्पइ अदक्कु वइत्तए “अत्ति ते आत्तो! इमं वा” से किमाहु जंते! सट्ठी गिही  
 गिह्इ वा, तेणियंपि कुज्जा ॥ १८ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निच्चजत्तियस्स त्रिक्कुस्स कप्पइ  
 एगं गोअरकालं गाहावइकुलं जत्ताए वा पाणाए वा निक्कमित्तए वा पविसित्तए वा नन्नहायरि-  
 यवेयावच्चेण वा एवं उवज्जायवेयावच्चेण वा तवस्सिवेयावच्चेण वा गिलाणवेयावच्चेण वा खुहुएण  
 वा खुड्धिआएण वा अवंजणजायएण वा ॥ १९ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स चउत्तभत्तियस्स  
 भिक्कुस्स अयं एवइए विसेसे-जं से पात्तं निक्कम्म पुवामेव वियडगं सुच्चा पिच्चा पडिगहगं

नए-एगो पुण एवमाइंसु-नो कप्पइ जाव उवस्सयाउं परेणं सत्तघरंतरं संखणिं संनियट्ठचारिस्स  
 इत्तए-एगो पुण एवमाइंसु-नो कप्पइ जाव उवस्सयाउं परंपरेणं संखडिं संनियट्ठचारिस्स इत्तए  
 ॥ २७ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स नो कप्पइ पाणिपडिगहियस्स त्तिखुस्स कणगफुसियमित्तमवि  
 वुट्टिकायंसि निवयसाणंसि जाव गाहावइकुलं जत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए  
 वा ॥ २८ ॥ गत्तावासं पज्जोसवियस्स पाणिपक्किगहियस्स त्तिखुस्स नो कप्पइ अगिहंसि पिंड-  
 वायं पक्किगाहिजा पज्जोसवित्तए, पज्जोसत्रेमाणस्स सहसा वुट्टिकाए निवइज्जा देसं चुच्चा देसमा-  
 दाय से पाणिणा पाणिं परिपिहिजा उरंसि वा णं निखिज्जिज्जा, कक्कंसि वा णं समाइडिज्जा  
 थ्थाद्यन्नाणि लेणाणि वा उवागह्जिजा, रुक्कमूखाणि वा उवागह्जिजा जहा से तह पाणिसि दए  
 वा दगरए वा दगफुसिआ वा नो परिआवज्जइ ॥ २९ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स पाणिपक्किग-  
 हियस्स त्तिखुस्स जांकिंचि कणगफुसियमित्तंपि निवडति नो से कप्पइ गाहावइकुलं भत्ताए वा  
 पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ ३० ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स पडिगइधारिस्स

दुमभक्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति तले पाणगाइं पक्किगाहत्तए, तं जहा-आयामं वा, सोवीरं वा, सुरुत्तियडे वा ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स विक्किट्टत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पइ एगे उसिणवीयडे पक्किगाहत्तए, सेवि य णं असिहे-नोत्ति य णं ससिहे ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स नत्तपडियाइ-त्तियस्स भिक्खुस्स कप्पइ एगे उसिणवीयडे पडिगाहत्तए, सेवि य णं असिहे-नो चेव णं स-सिहे, सेवि य णं परिपूए नो चेव णं परिपूए, सेवि य णं परिपूए नो चेव णं अपरिमिए, सेवि य णं बहुसंपन्ने नो चेव णं अत्तहुसंपन्ने ॥ १५ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स संखादत्तियस्स त्ति-क्खुस्स कप्पंति पंच दत्तीले त्तोयणस्स पक्किगाहत्तए, पंच पाणगस्स-अहवा चत्तारि त्तोअणस्स, पंच पाणगस्स-अहवा पंच त्तोअणस्स, चत्तारि पाणगस्स तल्ल णं एगा दत्ति लोणासायणमित्त-मवि पक्किगाहिआ सिया, कप्पइ से तद्विवसं तेणैव नत्तहेणं पज्जोसवित्तए, नो से कप्पइ दुच्चंपि गाहावइकुलं जत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ २६ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं नो कप्पइ त्तिंगंथाए वा निगंथीण वा जाव उवस्सयाले सत्तघरंतरं संखकिं संनियट्टचारिस्स इ-

निगंथीए वा गाहावडकुलं पिन्वायपनियाए अणुप्पविट्ठस्स निगिज्जिय (२) बुट्टिकाए निवड्जा,  
 कप्पड से अडे आरामंसि वा जाव रुक्कमूलंसि वा उवागहत्तए नो से कप्पड पुव्वगहिणं भत्त-  
 पाणेणं वेदं उवायणावित्तए-कप्पड से पुव्वामेव वियडगं सुच्चा पिच्चा पफिग्गइगं संखिड्दिय (२)  
 मंगमज्जिय एगउ भंरुगं कट्ठु, सावसेसे सुरे जेणेव उवस्सए तेणेव उवागहत्तए, नो से कप्पड तं  
 रयाणं तत्थेव उवायणावित्तए ॥ ३६ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निगंथस्स निगंथीए वा गा-  
 हावडकुलं पिन्वायपनियाए अणुप्पविट्ठस्स निगिज्जिय (२) बुट्टिकाए निवड्जा कप्पड से अडे  
 आरामंसि वा जाव उवागहत्तए ॥ ३७ ॥ तव नो कप्पड एगस्स निगंथस्स एगाए निगंथीए  
 एगउ चिट्ठित्तए १. तव नो कप्पड एगस्स निगंथस्स डुन्दं निगंथीणं एगउ चिट्ठित्तए २, तव  
 नो कप्पड डुन्दं निगंथाणं एगाए निगंथीए एगउ चिट्ठित्तए ३, तव नो कप्पड डुन्दं निगंथाणं  
 डुन्दं निगंथीणं एगउ चिट्ठित्तए ४, अहि व इत्त केड पंचमे खुडुए वा खुडिया वा अनेसि वा  
 मंलोए सपडिदुवारे एवन्दं कप्पड एगउ चिट्ठित्तए ॥ ३७ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निगंथस्स

त्रिवसुस्स नो कप्पइ वग्घारियवुद्धिकायंसि गाहावइकुलं जत्ताए वा पाणाए वा निखकमित्तए वा  
 पविसित्तए वा, कप्पइ से अप्पवुद्धिकायंसि संतरुत्तरंसि गाहावइकुलं जत्ताए वा पाणाए वा नि-  
 खकमित्तए वा पविसित्तए वा ( ग्रंथाग्रंथं ११०० ) ॥ ३१ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निगंगंथस्स  
 निगंगंथीए वा गाहावइकुलं पिरुवायपफियाए अणुप्पविट्ठस्स निगिज्झिय निगिज्झिय बुद्धिकाए नि-  
 वइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा अहे उवास्सयंसि वा अहे वियडगिहंसि वा अहे रुक्क-  
 मूलंसि वा उवागब्बित्तए ॥ ३२ ॥ तह से पुवागमणेणं पुवाउत्ते चाउलोदणे पहाउत्ते त्रिलिंगसूवे,  
 कप्पइ से चाउलोदणे पफिगाहित्तए-नो से कप्पइ भिलिंगसूवे पफिगाहित्तए ॥ ३३ ॥ तह से पु-  
 वागमणेणं पुवाउत्ते त्रिलिंगसूवे पहाउत्ते चाउलोदणे, कप्पइ से भिलिंगसूवे पफिगाहित्तए-नो से  
 कप्पइ चाउलोदणे पडिगाहित्तए ॥ ३४ ॥ तह से पुवागमणेणं दोवि पहाउत्ताइ एवं नो से क-  
 प्पइ दोवि पफिगाहित्तए-जे से तह पुवागमणेणं पुवाउत्ते से कप्पइ पडिगाहित्तए, जे से तह  
 पुवागमणेणं पहाउत्ते नो से कप्पइ पडिगाहित्तए ॥ ३५ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निगंगंथस्स

निगंथीए वा गाहावडकुलं पिंढवायपनियाए अणुप्पविठ्सस निगिज्जिय (२) बुट्टिकाए निवड्जा,  
 कप्पइ से अहे आरामंसि वा जाव रुक्कमूलंसि वा उवागहत्तए नो से कप्पइ पुवगहिणं भत्त-  
 पाणेणं वेळं उवायणावित्तए-कप्पइ से पुवामेव वियडगं जुच्चा पिच्चा पफ्फिगहगं संखिहिय (३)  
 मंपमज्जिय एगउ भंरुगं कट्टु, सावसेसे सुरे जेणेव उवस्सए तेणेव उवागहत्तए, नो से कप्पइ तं  
 रयाणं तत्थेव उवायणावित्तए ॥ ३६ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निगंथस्स निगंथीए वा गा-  
 हावडकुलं पिंढवायपनियाए अणुप्पविठ्सस निगिज्जिय (२) बुट्टिकाए निवड्जा कप्पइ से अहे  
 आरामंसि वा जाव उवागहत्तए ॥ ३७ ॥ तव्व नो कप्पइ एगस्स निगंथस्स एगाए निगंथीए  
 एगउ चिट्ठित्तए १. तव्व नो कप्पइ एगस्स निगंथस्स दुव्हं निगंथीणं एगउ चिट्ठित्तए २, तव्व  
 नो कप्पइ दुव्हं निगंथाणं एगाए निगंथीए एगउ चिट्ठित्तए ३, तव्व नो कप्पइ दुव्हं निगंथाणं  
 दुव्हं निगंथीणं एगउ चिट्ठित्तए ४, अट्ठि य इत्थ केइ पंचमे खुट्टए वा खुट्टिया वा अट्ठेसि वा  
 संलोए सपट्ठिद्वारे एवव्हं कप्पइ एगउ चिट्ठित्तए ॥ ३७ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निगंथस्स



गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए जाव उवागह्णित्तए तच्च नो कप्पइ एगस्स निगंथस्स एगाए  
 अगारीए एगले चिह्णित्तए, एवं चउजंगी, अह्णिणं इह्ण केइ पंचमे थेरे वा थेरिया वा अत्तेसिं वा सं-  
 लोए सपडिदुवारे एवं कप्पइ एगले चिह्णित्तए-एवं चैव निगंथीए अगारस्स य भाणियद्वं ॥ ३ए ॥  
 वासावासं पज्जोसवियाणं नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा अपरिन्नएणं अपरिन्नयस्स  
 अट्ठाए असणं वा १ पाणं वा २ खाइमं वा ३ साइमं वा ४ जाव पग्गिगाहित्तए ॥ ४० ॥ से कि-  
 माहु जंते ! इह्णा परो अपरिन्नए जुंजिज्जा, इह्णा परो न जुंजिज्जा ॥ ४१ ॥ वासावासं पज्जोसवि-  
 याणं नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा उदउद्वेण वा ससिण्णिकेण वा काएणं असणं वा (४)  
 आहारित्तए ॥ ४२ ॥ से किमाहु जंते ! सत्त सिण्णेहाययणा पणत्ता, तं जहा-पाणी १, पाणिलेहा  
 २, नहा ३, नहसिहा ४, जमुहा ५, अहरोठा ६, उत्तरोठा ७, अह पुण एवं जाणिज्जा विगउदगे  
 मे काए विन्नसिण्णेहे एवं से कप्पइ असणं वा (४) आहारित्तए ॥ ४३ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं  
 इह खल्लु निगंथाण वा इमाइं अत्थ सुहुमाइं जाइं बउमहेणं निगंथेण वा निगंथीए

वा अत्रिखणं (२) जाणियवाइं पासिअवाइं पडिलेहिअवाइं जवति, तं जहा-पाणसुहुमं १. पणगसु-  
 हुमं २, वीअसुहुमं ३, हरियसुहुमं ४, पुफसुहुमं ५, अंडसुहुमं ६, लेणसुहुमं ७, सिणेहसुहुमं ८ ॥  
 ने किं तं पाणसुहुमे? पाणसुहुमे पंचविडे पन्नत्ते, तं जहा-किण्हे १, नीले २, लोहिए ३, हाखिदे ४,  
 सुक्खिसे ५, अत्रि कुंशुअणुद्धरी नामं, जा ट्टिया अचलमाणा ठउमठाणं निगंथाण वा निगंथीण  
 वा नो चकुफामं इवमागहइ, जा अट्टिया चलमाणा ठउमठाणं निगंथाण वा निगंथीण वा चकु-  
 फामं इवमागहइ, जाव छउमत्तेणं निगंथेण वा निगंथीए वा अत्रिखणं (२) जाणियवा पासि-  
 यवा पडिलेहियवा भवइ, से तं पाणसुहुमे ॥१॥१४॥ से किं तं पणगसुहुमे? प० पंचविडे पन्नत्ते,  
 तं जहा-किण्हे, नीले, लोहिए, हाखिदे, सुक्खिसे, अत्रि पणगसुहुमे तइवसमाणवन्नए नामं पन्नत्ते,  
 जे ठउमत्तेणं निगंथेण वा निगंथीए वा जाव पडिलेहिअववे जवइ, से तं पणगसुहुमे ॥ २ ॥ से  
 किं तं वीअसुहुमे? वी० पंचविडे पन्नत्ते, तं जहा-किण्हे जाव सुक्खिसे, अत्रि वीअसुहुमे कणि-  
 यासमाणवन्नए नामं पन्नत्ते, जे छउमत्तेणं जाव पडिलेहियवे जवइ, से तं वीयसुहुमे ॥ ३ ॥ से

किं तं हरियसुहुमे? इ० पंचविहे पन्नत्ते, तं जहा-किण्हे जाव सुक्किद्धे, अहि हरिअसुहुमे पुढवीसमा-  
णवन्नए नामं पन्नत्ते, जे निगंथेण वा निगंथीए वा अन्निखणं (२) जाव पण्डिलेहियवे भवइ, से तं  
हरियसुहुमे ॥ ४ ॥ से किं तं पुण्फसुहुमे? पुण्फ० पंचविहे पन्नत्ते, तं जहा-किण्हे जाव सुक्किद्धे,  
अहि पुण्फसुहुमे इखसमाणवन्नए नामं पन्नत्ते, जे उउमहेणं जाव पण्डिलेहियवे भवइ, से तं पुण्फ-  
सुहुमे ॥ ५ ॥ से किं तं अंडसुहुमे? अं० पंचविहे पन्नत्ते, तं जहा-उइसंडे, उक्कलियंडे, पिपीलियंडे,  
हलियंडे, हल्लोहलियंडे, -जे निगंथेण वा निगंथीए वा जाव पण्डिलेहियवे भवइ, से तं अंडसुहुमे  
॥ ६ ॥ से किं तं लेणसुहुमे? ले० पंचविहे पन्नत्ते, तं जहा-उसिंखलेणे, त्रिगुलेणे, उज्जुअे, ता-  
लमूलए, संबुद्धावट्टे नामं पंचमे, जे उउमहेणं जाव पण्डिलेहियवे भवइ, से तं लेणसुहुमे ॥ ७ ॥  
से किं तं सिण्हेइसुहुमे? सि० पंचविहे पन्नत्ते, तं जहा-उस्सा, हिमए, महिया, करए हरतणए,  
जे उउमहेणं जाव पण्डिलेहियवे भवइ, से तं सिण्हेइसुहुमे ॥ ८ ॥ वासावासं पज्जोसविण्णि भिक्खू  
इहियज्जा गाहावइकुलं चत्ताए वा पाणाए वा निक्कमित्तए वा, पविसित्तए वा, नो से कप्पइ अ-

णापुत्रिता आगरयं वा उवड्जायं वा थेरं वा पवितिं वा गणिं वा गणहरं वा गणावडेअयं वा जं  
 वा पुरते काउं विहरइ, कप्पइ से आपुहिउं आचरियं वा जाव जं वा पुरते काउं विहरइ. इहामि  
 णं जंते लुप्पेहिं अप्पणुत्ताण् समणे गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खसित्तए वा पविसि-  
 त्तए वा ते य से वियरिज्जा, एवं से कप्पइ गाहावइकुलं जत्ताए वा पाणाए वा निक्खसित्तए  
 वा पविसित्तए वा ते य से नो वियरिज्जा, एवं से नो कप्पइ गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा  
 निक्खसित्तए वा पविसित्तए वा से किमाहु जंते! आचरिया पच्चवायं जाणंति ॥४६॥ एवं विहारभूमिं  
 वा वियारभूमिं वा अन्नं वा जंकिं चि पउअणं, एवं गामाणुगामं दूइज्जित्तए ॥ ४७ ॥ वासावासं  
 पज्जोसविण् भिक्खु इमिज्जा अन्नपरिं विगइं आहारित्तए, नो से कप्पइ अणापुत्तिचा आवरियं वा जाव  
 जं वा पुरते काउं विइग्इ, कप्पइ से आयुत्तिचा आचरियं वा जाव आहारित्तए, इहामि णं जंते!  
 लुप्पेहिं अप्पणुत्ताण् समणे अन्नपरिं विगइं आहारित्तए, तं एवइयं वा एवअक्खुतो वा, ते य से  
 वियरिज्जा. एवं से कप्पइ अन्नपरिं विगइं आहारित्तए, ते य से नो वियरिज्जा, एवं से नो कप्पइ

अन्नयरिं विगदं आहारित्तए से किमाहु ङंते! आयरिया पच्चवायं जाणंति. ॥ ४७ ॥ वासावासं प-  
 ज्जोसविए जिक्खू इब्बिज्जा अन्नयरिं तेगिच्छं आउट्ठित्तए तं चेव सव्वं ज्ञाणियव्वं ॥ ४८ ॥ वासा-  
 वासं पज्जोसविए जिक्खू इब्बिज्जा अन्नयरं उरालं कट्ठाणं सिवं धन्नं मंगद्वं सस्सिरीयं महाणु-  
 ज्ञावं तवोकम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए तं चेव सव्वं ज्ञाणियव्वं ॥ ४९ ॥ वासावासं पज्जोसविए  
 भिक्खू इब्बिज्जा अपह्मिमारणंतियसंवेहणाजूसणजूसिए भत्तपाणपफियाइस्सिए पाउवगए कालं  
 अणवकंखमाणे विहरित्तए वा निक्खमित्तए वा अस्सणं वा (४) आहारित्तए वा,  
 उच्चारं पासवणं वा परिट्ठावित्तए वा सज्झायं वा करित्तए, धम्मजागरियं वा जागरित्तए, नो से  
 कप्पइ अणापुब्बित्ता तं चेव सव्वं ॥ ५१ ॥ वासावासं पज्जोसविए जिक्खू इब्बिज्जा वड्ढं वा पडिगहं  
 वा कंबलं वा पायपुब्बणं वा अन्नयरिं वा उवहिं वा आयावित्तए वा पयावित्तए वा नो से कप्पइ  
 एगं वा अणेगं वा अपडिन्नवित्ता गाहावइकुलं जत्ताए वा पाणाए वा निक्खमिणं पविसिणं अस्सणं वा  
 (४) आहारित्तए, बहिया विहारभूमिं वा वियारभूमिं वा सज्झायं वा करित्तए, काउस्सगं वा ठाणं

वा ठाडत्तए । अत्रि य इठ केइ अहासन्निहिए एगे वा अणेगे वा, कप्पइ से एवं वइत्तए-इमं ता  
 अन्नो! तुमं मुट्टत्तगं जाणेहि जाव ताव अहं गाहावइकुलं जाव काउस्सगं वा ठाणं वा ठाडत्तए-से य  
 से पडिसुण्णिजा. एवं से कप्पइ गाहावइ० तं चेव०-से य से नो पडिसुण्णिजा, एवं से नो कप्पइ  
 गाहावइकुलं जाव ठाणं वा ठाडत्तए ॥ ५२ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं नो कप्पइ निगंथाण वा  
 निगंथीण वा अणभिग्गद्वियसिज्जासणिएणं हुत्तए । आयाणमेयं, अणनिग्गद्वियसिज्जासणियस्स  
 अणुच्चाकुइयस्स अणठावंधियस्स अमियासणियस्स अणातावियस्स असमियस्स अभिक्खणं (२)  
 अपन्निद्वेइणासीलस्स अपमज्जणासीलस्स तहारूवाणं संजमे दुराराहए जवइ ॥५३॥ अणायाणमेयं,  
 अनिग्गद्वियसिज्जासणियस्स उच्चाकुइयस्स अट्ठावंधियस्स मियासणियस्स आयावियस्स समियस्स  
 अनिक्खणं (२) पडिलेइणासीलस्स पमज्जणासीलस्स तहा (२) संजमे सुआराहए भवइ ॥ ५४ ॥  
 वामावामं पज्जोतवियाणं कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा तउ उच्चारगसवणभूमीउ पन्निद्वेइत्तए,  
 न नहा देनंतगिम्हासु जहा णं वासासु. से किमाहु णं उसन्नं पाणा य तथा य

वीया य पएगा य हरियाणि य नवंति ॥५५॥ वासावासं पञ्जोसविधाणं कप्पइ निगंगंथाण वा निगंगं-  
 थीण वा तलं सत्तगाइं गिण्हित्तए, तं जहा-उच्चारमत्तए, पासवणमत्तए, खेतमत्तए, ॥५६॥ वासावासं  
 पञ्जोसविधाणं नो कप्पइ निगंगंथाण वा निगंगंथीण वा परं पज्जोसवणालं गोळोमप्यमाण भित्तेवि केसे तं  
 रयाणि उवाचणावित्तए । अज्जेणं खुरमुंढेण वा बुक्कसिरएण वा होयधं सिया । पक्खिया आरोवणा,  
 मासिए खुरमुंढे, अरुमासिए कत्तरिमुंढे, ठम्मसासिए लोए संवहुरिए वा थेरकप्पे ॥ ५७ ॥ वासा-  
 वासं पञ्जोसविधाणं नो कप्पइ निगंगंथाण वा निगंगंथीण वा परं पज्जोसवणालं अहिगरणं वइ-  
 त्तए, जे णं निगंगंथो वा निगंगंथी वा परं पञ्जोसवणालं अहिगरणं वयइ, से णं “ अकप्पेणं अ-  
 ज्जो वयसीत्ति ” वत्तवे सिया, जे णं निगंगंथो वा निगंगंथी वा परं पञ्जोसवणालं अहिगरणं वयइ,  
 से णं निज्जूहियवे सिया ॥५८॥ वासावासं पञ्जोसविधाणं इह खलु निगंगंथाण वा निगंगंथीण वा  
 अज्जेव कक्खलडे कसुए विग्गहे समुप्पज्जिज्जा, सेहे राइणियं खामिज्जा, राइणिएवि सेइं खामि-  
 ज्जा, ( ग्रंथा० ११०० ) खमियधं खमावीयधं उवसमियधं उवसमियधं सुमइसंपुहणवहुलेणं होय-

वं-जो उवनमड तस्स अत्ति आराहणा, जो न उवसमइ तस्स नत्ति आराहणा, तम्हा अप्पणा  
 ने१ उवससियंवं, से किमाहु ञंते! उवसमसारं खु सामन्नं, ॥ ५९ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं  
 कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तउ उवस्सया गिह्णित्तए, तं जहा-वेउव्विया पडिलेहा साइ-  
 कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा निग्गंथीण वा कप्पइ अन्नधरिं  
 ज्ञिया पसज्जणा ॥ ६० ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा किमाहु ञंते! उरुत्तणं  
 द्विसिं वा अणुदिसिं वा अन्नगिह्णिय ञतं वा पाणं वा गवेसित्तए, से किमाहु ञंते! उरुत्तणं  
 ससणा नगवंतो वासासु तवसंपउत्ता भवंति, तवस्सी दुव्वल्ले किलंते सुल्लिज वा पवडिज वा त-  
 मेव दिसं वा अणुदिसं वा ससणा नगवंतो पन्निजागरंति ॥ ६१ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं कप्पइ  
 निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा गिलाणहेउं जाव चत्तारि पंच जोयणाइं गंतुं पडिनियत्तए-अंतराधि  
 से कप्पइ वउए, नो से कप्पइ तं रयाणिं तथेव उवायणावित्तए ॥ ६२ ॥ इच्चेयं संवहुरिञ्चं अेर-  
 कप्पं अहासुत्तं अहाकप्पं अहामगं अहातच्चं सममं काएण फासित्ता पावित्ता सोचिन्ता तीरित्ता  
 किट्ठिता आराहित्ता आणाए अणुपावित्ता अहेगइत्ता अहेगइत्ता अहेगइत्ता अहेगइत्ता अहेगइत्ता



बुद्धंति मुञ्चंति परिनिवायंति सबुद्धकाणमंतं करिंति, अहेगइआ दुच्चेणं भवगहणेणं सिद्धंति जाव सबुद्धकाणमंतं करिंति, अहेगइआ तच्चेणं जाव अंतं करिंति सत्तइ भवगहणेणं पुण नाइक्कमंति ॥६३॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे रायगिहे नयरे गुणसि-  
 लए चेइए बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं बहूणं देवाणं देवाणं बहूणं देवीणं मज्झगए चैव एवमाइखाइ, एवं ज्ञासइ, एवं पन्नवेइ, एवं परूवेइ, पज्जोसवणाकप्यो नामं अज्झयणं सअछं सहेउअं सकारणं समुत्तं सअछं सदत्तयं सवागरणं बुज्जो उवदंसेइ ति वेमि ॥६४॥ इति पज्जोसवणाकप्यो नाम दसासुअखंधस्स अट्टमज्झयणं समत्तं ॥ ग्रंथाग्रंथ १२१५ ॥

॥ इति मूलं कटपसूत्रं संपूर्णम् ॥

## प्रशस्तिः ।

गङ्गेचले सुविहिते विधिपद्मसङ्के । कल्याणसागरमुनीश्वरा वभृदुः ॥ देवाग्रसागरवराश्च परं-  
 परायां । तेषां वभ्रुर्मुनिवरा जवन्नीरवश्च ॥१॥ स्वरूपसागरास्तेषां, वभ्रुर्मुंनिसत्तमाः ॥ शिष्याः सर्वगु-  
 णोपेता, गुरुनक्तिपरायणाः॥२॥ तद्विष्यवर्थभविवोधसुवद्भकक्षाः। साधुक्रियोद्गरणनिर्मलचित्तजावाः॥  
 त्रान्चयमंड्रवरगौतमसागराख्याः । संसारसागरतरंडनिभाश्चरंति ॥ ३॥ नीतिसागरनामानो, विहरंति  
 महीतले ॥ तद्विष्या भव्यजीवानां, प्रवोधायार्कसन्निजाः ॥४॥ तेषां विनेयगणवर्यगुणोपपन्ना । श्री-  
 धर्मसागरवरा त्रतधारकाश्च ॥ मह्यां चरंति त्रविकांबुजवोधनार्का-श्चारित्रपात्रगुरुज्ञक्तिपरागमज्ञाः॥  
 ॥५॥ साद्ग्राह्यतः प्रेरणया च तेषां । मुद्रापयित्वा प्रकटीकृतोऽयं ॥ ग्रंथश्च कल्पामिध एष रम्यो ।  
 जव्यप्रवोधांकुरमेघतुल्यः ॥ ६ ॥ इति ॥ श्रीरस्तु. ॥

॥ इति श्रीकल्पसूत्र मूल समाप्त ॥

